



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

### EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 23 ]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 15, 2006/माघ 26, 1927

No. 23]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 15, 2006/MAGHA 26, 1927

भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2006

फा. सं. 10-7/2005-बीसीआई.—भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उपधारा (1) के अनुसरण में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् से भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर बनाए रखने की अपेक्षा की गई है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के नाम अंतर्विष्ट होंगे जो मान्यताप्राप्त पशु-चिकित्सा अर्हता धारण करते हैं और जो उस राज्य/संघ की पशु-चिकित्सा के पास तत्समय नामावलीगत है जिस पर अधिनियम का विस्तार है।

सचिव, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद्, भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का 52) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्देश देते हैं कि भारतीय पशु-चिकित्सा व्यवसायी रजिस्टर 2005 का अनुपूरक साधारण जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए।

## भारतीय पशुचिकित्सक रजिस्टर अनुपूरक 2005

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
1	ए. सतीशा, पुत्र श्री अप्पाजी	कर्ना/3655	अन्नूर भारती नगर डाक, मददूर तालुक, माण्ड्या जिला 5714222, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएस बंगलौर/04	2.6.81
2	ए. सेंथु पुत्र श्री आर्मुगम एम.	कर्ना/3579	न. 14/1, वेनुगोपाल नगर, एच.एम.टी. लेआउट, नागसान्द्रा डाक, बंगलौर-73	बीवीएससी/टीएनवीए एसयू/03	19.3.79
3	ए. अमसावेनी, पुत्री श्री ए.ल. अन्नादुरे	पैण्डीएसवी सी/227/04	न. 24, वल्लालार स्ट्रीट, कोसापलायम, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीचेरी/03	9.6.82
4	ए.के. संतोष, पुत्र श्री ए. कोटरप्पा	कर्ना/3688	हिरेहेग्गाडहल डाक, कुडलिगी तालुक, बेलारी जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएसबंगलौर/04	6.3.62
5	आशीष बंसल, पुत्र श्री अशोक कुमार	राज एसवीसी/3192/05	437, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएयू/05	5.11.80
6	अब्दुल रईस, पुत्र श्री शरफुद्दीन	राज एसवीसी/3152/04	3416, लुहारों का खुर्च, मस्जिद घाट गोट के निकट, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएयू/06	2.6.77
7	अब्दुल्ली के., पुत्र श्री हैदर के.	केरलएसवी सी/2936/04	किनानगाटिल हाउस, थिरुवेगापुरा डाक, पाटम्बी वाया, पलककड 679304, केरल	बीवीएससीएंडएच/केरल/04	1.12.79
8	अभिजीत सामंत, पुत्र श्री मदन मोहन सामंत	डब्ल्यूबीएसवी सी/3080/04	डाक एवं ग्राम—लक्ष्मीसागर, जिला—बंकुरा, पिन-722160, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच/डब्ल्यूबीयूएफएस/04	11.1.82
9	अभिलाष आर., पुत्र श्री रेमानन	केरलएसवी सी/2995/04	पुथुमंगलासेरी (एच), कुलांगरा भागोम, चवारा डाक, कोल्लम, केरल	बीवीएससीएंडएच/केरल/04	21.1.80
10	अभिलाषा, पुत्री श्री केवल कृष्ण	पंजाबएसवी सी/2570/04	म.न. 1221, गली न. 6, आहाता बदन सिंह, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/पीएयू/04	06.07.79
11	अभिषेक जोशी, पुत्र श्री एन.के. जोशी	राजएसवीसी/3194/05	मरुधर प्रिंटर्स, कबूतर चौक, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएयू/05	1.8.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
12	अविता रामचंद्रन, पुत्री श्री पी.ई. रामचंद्रन	केरलएसवी सी/2907/04	पुथुसेरी कुनेल, पुलिस क्वाट. के सामने, मुवट्टुपुज्जा, पिन-686661, केरल	बीवीएससीएडएच/केरयू/04	18.2.79
13	अचोम रीना देवी पुत्री श्री ए. टीकेंद्रजीत सिंह	मणिएसवी सी/390/05	सागोलबंद, बिजोय गोविंदा, इम्फाल, मणिपुर	बीवीएससीएडएच/सीएयू/05	1.3.81
14	अदंकी सुचरिता, पुत्री श्री वीरा स्वामी	एपीएसवीएस सी/4250/05	डी.न. 64-13-8/3, प्रताप नगर, काकीनाडा, पू.गोदावरी जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएडएच/एनजीआरएयू/05	25.6.78
15	अफशा फिरदौस मंसूरी, पुत्री श्री अब्दुल मसजीद मंसूरी	एमपीएसवी सी/2253/04	प्लॉट नं. 433, म.न. 1982, नर्मदा नगर, रद्दी चौकी, जबलपुर, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच/जेनकेवीवी/08-04	25.5.79
16	अहाना मैत्रा, पुत्री श्री एस.के. मित्रा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3112/04	43, डब्ल्यू.एफ.एफ. द पार्क, डाक इच्छापुर, जिला- 24 परगना (उ.), प. बंगाल	बीवीएससीएडएच/डब्ल्यूबीयूएफएस/04	18.12.61
17	अहौका एच.एस., पुत्र श्री सिद्दामल्ले गौडा	कर्ना/3592/	होनेनाहल्ली, हनिके डाक, बेलूर तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएडएच/यूएसधारवाड/04	5.8.81
18	अजय गर्ग, पुत्र श्री मुरारी लाल गर्ग	हरिएसवीसी/1807	858, हुडा सेक्टर- 1, रोहतक	बीवीएससीएडएच/सीसीएसएयू/03	21.3.79
19	अजय कुमार, पुत्र श्री गुरवक्ष राम	पंजाबएसवी सी/2510/04	ग्राम एवं डाक फोलरीवाल, तह. एवं जिला जालंधर, पंजाब	बीवीएससीएडएच/पीएयू/00	08.08.74
20	अजमल सी.एच., पुत्र श्री सी.सी. इब्राहीम	केरलएसवी सी/2966/04	चोलासेरी हाउस, नूरादी, वडक्केमन्ना, कोदूर डाक, मलप्पुरम- 676504, केरल	बीवीएससीएडएच/केरयू/04	20.5.81
21	अजमीरा जग्गूलाल, पुत्र श्री अजमीरा सोमला	एपीएसवीसी/4220/05	गरलावोड्ड, एनकूर (एम), खम्मम जिला- 507168, आ.प्र.	बीवीएससीएडएच/एनजीआरएयू/05	1.4.80
22	अखिला एस.जे., पत्नी श्री बौद्धी मोहन	केरलएसवी सी/2957/04	अखिलम 15/923, वजुथाकाडु सास्थामंगलम, थिरुवनंतपुरम-695010, केरल	बीवीएससीएडएच/केरयू/04	9.4.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
23	अखिलेश शर्मा, पुत्र श्री महेश चंद्र शर्मा	एमपीएसवी सी/2236/ 04	ग्राम एवं डाक—तवलाई, तहसील मनावर, जिला—धाढ़ (म.प्र.)	बीवीएससीएंडरएच/ जे.एन.के.वी.वी./03-04	14.10.82
24	आलोक गौड़, पुत्र श्री कृष्ण गोपाल शर्मा	राजएसवीसी /3197/05	वार्ड नं. 11, बदियाल रोड, बांदीकुई, राजस्थान	बीवीएससीएंडरएच/ आरएयू/05	10.11.77
25	अमनदीप सिंह, पुत्र श्री सुखदेव सिंह	पंजाबएसवी सी/2544/ 04	ग्राम फल्लार, डाक सेखू, जिला भटिंडा 151301	बीवीएससीएंडरएच/ पीएयू/04	01.05.81
26	अमरेश चौधरी, पुत्र स्व. श्री सुकुमार चौधरी	डब्ल्यूबीएसवी सी/3092/ 04	ग्राम—बरवा, डाक बरवा, मोहेश, थाना—मेमारी, जिला बरदावान, प. बंगाल	बीवीएससीएंडरएच/ डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/04	7.8.81
27	अमर नाथ रेड्डी बी. बी., पुत्र श्री वैकटरवन रेड्डी	एपीएसवीसी /4168/04	बुरलापल्ले वाया, बी. कोठाकोटा, चित्तूर जिला —517370, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडरएच/ यूएसबंगलौर/04	16.6.80
28	अमित कुमार मित्तल, पुत्र श्री प्रेम कुमार	राजएसवीसी /3157/04	मैसर्स दीप चंद, प्रेम कुमार, बजाज नगर, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडरएच/ आरएयू/05	5.5.79
29	अमित राय, पुत्र श्री जय प्रकाश राय	हरिएसवीसी /1841	टेलीफोन एक्सचेंज, फतेहाबाद, हरियाणा	बीवीएससीएंडरएच/ सीसीएसएचएयू/04	15.8.81
30	अमित, पुत्र श्री शोभा राम	हरिएसवीसी /1834	ग्राम एवं डाक—भालौथ, जिला रोहतक	बीवीएससीएंडरएच/ सीसीएसएचएयू/04	27.4.79
31	अमित सेन, पुत्र श्री बी.एस. सेन	एचवीसी/ 697/04	ग्राम एवं डाक—दराहल, थाना जोगिंदर नगर, जिला—मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडरएच/ सीएसके.एचपी.के.वी./ 04	9.12.79
32	अमिताभ बासक, पुत्र श्री अमिलाष च. बासक	डब्ल्यूबीएसवी सी/3107/ 04	खादीपुर मास्टर पाड़ा, डाक / थाना—बलूरघाट, जिला डी / दीनाजपुर, पि.न—733101, प.बं	बीवीएससीएंडरएच/ डब्ल्यूबीयूएंड एफएस/04	22.12.81
33	अमृत सिंह गजेबसिया, पुत्र श्री जगवंत सिंह	पंजाबएसवी सी/2579/ 04	22, अजीत नगर, पटियाला 147001, पंजाब	बीवीएससीएंडरएच/ पीएयू/02	14.09.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
34	अमृत पाल कौर, पुत्री नी बूटा सिंह	पंजाबएसवी सी/2546/04	ग्राम एवं डाक—धूमन कलां, जिला—भटिंडा, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच/पीएयू/04	20.08.81
35	अनामिका चक्रबर्ती, पुत्र श्री अमल भट्टाचार्जी	डल्यूबीएसवी सी/3143/05	साबीनारा बाईलेन, राथड सड़क, डाक चंदन नगर, जिला हुगली, पिन 712136, प.बं.	बीवीएससीएंडएएच/डल्यूबीयूएंड एफएस/04	22.6.73
36	आनंद कुमार पांडे, पुत्र श्री राम प्रसाद पांडे	एमपीएसवी सी/2204/04	द्वारा: डॉ. आर.पी. पांडे, कपूर बंगला के निकट, धावरी, सतना (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएएच/जेएनकेवीवी/03-04	5.7.80
37	आनंद कुमार, पुत्र श्री महादेवप्पा	कर्ना/3607/	म.न. 1/47, गुंडूर डाक, बासव कल्याण तालुक, बिदर – 585419, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच/यूएसधारवाड/04	1.6.82
38	आनंद प्रकाश, पुत्र श्री रामानंद चौहान	हरिएसवीसी / 1847	वार्ड नं. 8, ग्राम एवं डाक बावनी खेरे, शिवनी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/सीसीएसएयू/04	20.9.81
39	आनंद प्रकाश व्यास, पुत्र श्री जेठमल	राजएसवीसी / 3108/04	28, जनकपुरी ।, इमली फाटक के अंदर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/आरएयू/58	9.5.34
40	आनंद कुमार बी.एस., पुत्र श्री एन. श्रीराम रेड्डी	कर्ना/3653/	बन्नाहल्ली काईवारा डाक, चिंथामणि तुलक, कोलार, जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच/यूएसबंगलौर/04	24.9.80
41	अनंत लक्ष्मी सी., पुत्री श्री सी.पी. अनंत कृष्णन नायर	केरलएसवी सी/2908/04	लक्ष्मी विहार, वेनकोड, डाक वट्टापारा, थिरुवनंतपुरम – 695028, केरल	बीवीएससीएंडएएच/केरयू/04	30.5.80
42	अनिल गट्टानी, पुत्र श्री एच.सी. गट्टानी	राजएसवीसी /3161/04	157, गट्टानी सदन, दादाबडी एक्सटेंशन, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/आरएयू/05	13.10.80
43	अनिल के., पुत्र श्री टी.आर. केशवन	केरलएसवी सी/2963/04	ऐश्वर्या भवन, चालुक्ल, कीज़वाईपुर डाक, पथानमथिट्टा, केरल	बीवीएससीएंडएएच/केरयू/04	18.5.79
44	अनिल कुमार महर्षि, पुत्र श्री एस.पी. शर्मा	राजएसवीसी /3175/04	5—सी—18, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/आरएयू/05	21.6.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
45	अनिल कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह	हरिएसवीसी / 1821	166/35, नया पांडव, मानव सेवा संघ डिस्पॉसरी के निकट, रोहतक, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	17.9.81
46	अनिल कुमार, पुत्र श्री सह्य नारायण	हरिएसवीसी / 1823	ग्राम एवं डाक—कोठल खुर्द, जिना महेंद्रगढ़, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	13.6.77
47	अनिल कुमार, पुत्र श्री सुरिन्द्र कुमार सेठी	पंजाबएसवी सी/2557/04	गली न. 1, आदर्श नगर, म.न. 1039-ए, फाजिल्का, जिला फाजिल्का, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	26.04.82
48	अनिल कुमार शर्मा, पुत्र श्री वीरेंद्र कुमार शर्मा	एमपीएसवी सी/2261/04	सब्जी मंडी, सैनिक टैंट हाउस, पोरसा, मोरैना (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी/03-04	1.1.80
49	अनिल राना, पुत्र श्री पी.सी. राना	एचवीसी / 686/04	ग्राम एवं डाक लोअर भास्कला, थाना सरकाघाट, जिला मंडी, ह.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ सीएसएकेइपीवीवी/ 04	27.2.81
50	अनिल श्रीपत राव कौद्रे, पुत्र श्री श्रीपत राध कौद्रे	एपीएसवीसी / 4153/04	एग्री गोल्ड फार्म लि., अमृत वर्षिनी प्रोजेक्ट, कीसारा, गांदेपल्ली, काढीकावेरला (एम), कृष्णा जिला	बीवीएससीएंडएच/ एमएयू/95	18.1.72
51	अनिमेष धारा, पुत्र श्री रनजीत कुमार धारा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3108/04	काली नगर, डायमंड हार्बर, जिला— 24 परगना (द.), पिन— 743331, प. बंगल	बीवीएससीएंडएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस/ 04	15.1.81
52	अनिथा के.वी. पुत्री श्री चंद्रशेखर	कर्ना / 3663 /	श्री लक्ष्मी नीलया, पुलिस कवा. के सामने, बनवारा डाक, आरसीकरे तालुक, हसन जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	25.5.81
53	अंजु कृष्ण कुमार नायर, पुत्री श्री कृष्ण कुमार नायर	केरलएसवी सी/2989/04	बी—57, आकार नगर, फ्रैंड्स कॉलोनी के निकट, कोटल रोड, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएच/ एमएफएसएयू/04	8.2.82
54	अंजु विंग, पुत्री श्री सुभाष विंग	पंजाबएसवी सी/2534/04	कृष्णा एवेन्यू, वार्ड न. 8, दसुआ, जिला होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	22.11.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
55	अंकुर श्रीवास्तव, पुत्र श्री हरि ओम श्रीवास्तव	एमपीएसवी सी / 2258 / 04	52, शास्त्री नगर, शिवपुरी, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.केवीवी / 03-04	4.3.79
56	अंकुश रेड्डी, पुत्र श्री संजीव रेड्डी	कर्ना / 3608 /	किट्टा डाक, बासवकल्याण तालुक, बिदर- 585327, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	19.3.82
57	एमी थॉमस	गोआएसवी सी / 132	23, सागर कोअॉपरेटिव हाउसिंग सोसायटी, डोना पौला, गोवा	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसएयू / 04	
58	अनूप जॉन पीरिस, पुत्र श्री जे. बैटिस्ट पीरिस	केरलएसवी सी / 2889 / 04	टीसी 31 / 720 (1), सेंट एंटोनी विला, मुनम्मनकल पेच, थिरुवनंतपुरम- 695024	बीवीएससीएंडएच / के.एयू / 04	1.2.80
59	अनूप कुमार नायक, पुत्र श्री डी.पी. नायक	एमपीएसवी सी / 2235 / 04	हैड पोस्ट ऑफिस के निकट, दतिया, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.केवीवी / 03-04	19.12.79
60	अंशु राज, पुत्र श्री देश राज	एचवीसी / 696 / 04	ग्राम एवं डाक उस्तेहार, थाना-बैजनाथ, जिला- कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसके.एचपीकेवी / 04	13.5.82
61	अंशुल चंडेल, पुत्र श्री होशियार सिंह	एचवीसी / 687 / 04	ग्राम बद्दू, डाक बड़ी मझेरवान, थाना घुमारविन, बिलासपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसके.एचपीकेवी / 04	1.6.81
62	अनुज चौहान, पुत्र श्री वाइ.पी. सिंह	हरि एसवीसी / 1843	29, अशोक एन्कलेव (मेन), फरीदाबाद	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 04	25.5.81
63	अनूप कुमार पी.के., पुत्र श्री कुशलप्पा पी.ए.	कर्ना / 3646 /	न. 49, अमको लेआउट, कोडीगेन्नाहल्ली, सहकार नगर डाक, बंगलौर-92	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	11.12.81
64	अनुराधा मेनन ई., पत्नी श्री एस. भगत	केरलएसवी सी / 2917 / 04	टी.सी. हाउस, कुरुप्पम रोड, थिसूर- 680001, केरल	बीवीएससीएंडएच / के.एयू / 04	18.11.04
65	अनुराधा मेनन ई., पुत्री श्री टी.सी. बालचंद्रन	कर्ना / 3691 /	470, 8ए मेन, पहला ए क्रॉस, चौथा क्लॉक, कोरामगल- 560034, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / के.एयू / 04	18.11.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
66	अपर्णा दास, पुत्र श्री रघुनाथ दास	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3075 / 04	ग्राम एवं डाक— रतनपुर, जिला— हुगली, पिन— 712614, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	10.4.82
67	अरुण कुमार रुज, पुत्र श्री अशोक कुमार रुज	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3077 / 04	नज़रुल सरानी, सैथिया, जिला बीरभूम, पिन— 731234, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	5.4.82
68	अरुण मौर्या, पुत्र श्री मन्नूलाल मौर्या	एमपीएसवी सी / 2211 / 04	एच—17 / 24, दप्रण कॉलोनी, मुरार, ग्वालियर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03—04	2.10.81
69	अरुण वी., पुत्र श्री ई. एम. वेलायुधन	केरलएसवी सी / 2953 / 04	इजुपुरथु हाउस, कुट्टीचिरा डाक, चेलाकुडी, थिसूर, — 680724, केरल	बीवीएससीएंडएच / केर्यू / 04	11.4.81
70	अरुण एस., पुत्र श्री ससिधरन नायर	केरलएसवी सी / 2900 / 04	सारन निवास, टी.सी. 34 / 511, कुनाथु कुलंगर, गांधीमठ रोड, वटिट्यूरकावू त्रिवेंद्रम, केरल	बीवीएससीएंडएच / केर्यू / 04	5.4.80
71	अरुण कुमार जी.बी., पुत्र श्री बासवराजप्पा जी.	कर्ना / 3587 /	बाडा (एटी डाक), दावणगेरे तालुक एवं जिला, बाडा— 577514, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	10.5.81
72	अरविंद कुमार मेथानिया, पुत्र श्री मुराली सिंह मेथानिया	एमपीएसवी सी / 2267 / 04	महाकाल मैदान, उज्जैन, (म. प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03—04	28.4.79
73	आर्य अलफोसे, पुत्री श्री एल. अलफोसे	केरलएसवी सी / 2897 / 04	कक्कारियिल हाउस, पुन्नपरा डाक, अलपुजाह — 668004, केरल	बीवीएससीएंडएच / केर्यू / 04	23.5.79
74	आशालता के., पुत्री श्री कृष्ण गोडा आर.	कर्ना / 3674 /	# 6500, छठा क्रॉस, सलागमे रोड, सरस्वतीपुरम, हसन — 573201, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	8.9.81
75	आशिम सरकार, पुत्र श्री अभिमन्तु सरकार	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3087 / 04	ग्राम एवं डाक— भंडारी, थाना— धूपगुरी, जिला— जलपाइगुडी, प.बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	15.5.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
76	आशीष जैन, पुत्र श्री ए.के. जैन	एमपीएसवी सी / 2262 / 04	पी-173, शिव नगर, दामोह नाका, जबलपुर (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	1.10.76.
77	आशीष कुमार दूबे, पुत्र श्री सुशील कुमार दूबे	एमपीएसवी सी / 2265 / 04	वैटरिनरी कॉलोनी, आगरा मौहल्ला, पन्ना, म. प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	27.1.80
78	आशीष कुमार गोदानी, पुत्र श्री जी. डी. गोदानी	एमपीएसवी सी / 2185 / 04	नूतन मेडिकल स्टोर, उदयपुरा, रायसेन (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 02-03	1.07.78
79	आशीष आर. मारक, पुत्र श्री प्रोमुद गागरा	मेघएसवीसी / 233 / 05	द्वारा: डॉ. बिभा आर. मारक, विलयमनगर सिविल अस्पताल, पू.गारा हिल्स, मेघालय 794111	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	19.7.77
80	आशीष सचदेवा, पुत्र श्री सुभाष सचदेवा	राजएसवीसी / 3150 / 04	1/3, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	25.7.78
81	आशीष तिवारी, पुत्र स्व. श्री सदसशिव तिवारी	एमपीएसवी सी / 2218 / 04	जूनियर एमआईजी, 65, पुराना सुभाष नगर, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	12.4.77
82	अशोक कुमार एरियन, पुत्र श्री सुरेश चंद	राजएसवीसी / 3178 / 04	पुलिस थाने के निकट, मेन बाजार, बनसूर, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	12.8.80
83	अशोक कुमार देवरासेती, पुत्र श्री पुनइयाह	एपीएसवीसी / 4198 / 05	सांथीनगर- ॥ लेन, चुटटूंगुटा, गुंदूर जिला- 522004, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 05	22.3.80
84	अशोक कुमार मित्तल, पुत्र श्री राम मित्तल	राजएसवीसी / 3121 / 04	महावीर होटल, पोलो विक्टरी सिनेमा के निकट, जयपुर राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / उदयपुरविधि / 80	7.3.54
85	अशोक के.आर., पुत्र श्री बी.के. राजू	कर्ना / 3633 /	म.न. 7/4, 'ए' अरकानाथ रोड, ए ब्लॉक, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएएसबंगलौर / 04	29.4.81
86	अशोका शेट्टी, पुत्र श्री शोहन शेट्टी	कर्ना / 3634 /	देगाडेकोडी हाउस, करम्बरु ग्राम, टेंकाकरनदूर डाक, बेलथ्यांगडी, दैसिणा	बीवीएससीएंडएच / यूएएसबंगलौर / 04	25.1.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
87	आशुतोष वाधवा, पुत्र मि. सूरज वाधवा	राजएसवीसी /3132 / 04	45 ई ब्लॉक, श्री गंगानगर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ सीएसएयूएंडटी / 04	16.5.80
88	असाम कुमार नंदी, पुत्र श्री भग्नजय नंदी	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3131 / 04	ग्राम बाघासन, डाक मलाडंगा, जिला— बर्दवान, पिन— 713145, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	25.01.81
89	आसीश कुमार मैती, पुत्र श्री अजीत कुमार मैती	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3099 / 04	ग्राम दनीचक, डाक जसोराजपुर, जिला मिदनापुर, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	12.11.81
90	असम शेख, पुत्री श्री शकील अहमद शेख	एमपीएसवी सी / 2197 / 04	22, खरी बावडी, देवास, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी / 03—04	18.6.82
91	अस्वथी जी., पुत्री श्री सी.सी. गोपी	केरलएसवी सी / 2954 / 04	इयानी हाउस, डाक अंजूमूर्थी, मंगलम, पलक्कड— 678682, केरल	बीवीएससीएंडएच/ केरयू / 04	16.4.79
92	अटल बहादुर, पुत्र श्री सुभाष चंद्र	पंजाबएसवी सी / 2526 / 04	द्वारा श्री जोगिंदर पॉल सुभाष चंद्र, ग्राम एवं डाक लाम्बरा, जालधर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू / 98	19.07.76
93	अतुल सिंह परिहार, पुत्र श्री रूप सिंह परिहार	एमपीएसवी सी / 2209 / 04	ब्लॉक कॉलोनी, तहसील लाहर, जिला भिंड, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी / 03—04	7.4.81
94	बी. राजशेखर रेड्डी, पुत्र श्री वीरपाल रेड्डी	एपीएसवीसी / 4244 / 05	पुल्लापुरम, तरनाकल डाक, देवनाकोंडा (एम), कुर्नूल जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू / 05	4.6.79
95	बी.सी.एल. ज्ञान श्रावंती, पुत्री श्री बी. वाई सरतचंद्रा	एपीएसवीसी / 4281 / 05	21 / 275—4—2, रेलपेट, मछिलापटणम— 521001, कृष्णा जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू / 05	28.11.80
96	बी. गोबू, पुत्र श्री ई. बालासुब्रमण्यम	पॉण्डीएसवी सी / 209 / 04	23 ब्लॉक, डोर न. 10, गवर्नर क्वा., लॉसपेट, पॉण्डीचेरी—8	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि / 03	14.10.80
97	बी. शुभा लक्ष्मी, पुत्री श्री के.पी. भास्करन	एपीएसवीसी / 4215 / 05	एमआईजी—81, फेस— I, माधव नगर, भेल, आर.सी. पुरम, हैदराबाद— 502032 आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू / 05	16.6.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
98	बी. वेलमुरुलगन, पुत्र श्री बालारमन	पॉण्डीएसवी सी / 228 / 04	के-28, ओ.के. पलायम, टी. एम. नगर, पॉण्डीचेरी- 4	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीचेरी विवि / 03	9.10.81
99	बाबू लाल मीना, पुत्र दाना राम मीना	राजएसवीसी / 3169 / 04	ग्राम गाटोर जंवाहर सर्कल, जयपुर राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	2.3.77
100	बकुल देव, पुत्र श्री कृष्ण देव	राजएसवीसी / 3185 / 04	आशादीप पिपरली रोड, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	10.7.80
101	बालासाहेब पवार, पुत्र श्री भगवान	राजएसवीसी / 3119 / 04	वेटरिनरी अस्पताल, हीरे की धानी, थाना बैतु, बाड़मेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / कॉकन कृषि विवि / 96	24.4.73
102	बलदेव राम जाखड़, पुत्र श्री सोना राम	राजएसवीसी / 3186 / 04	स्वराज, 135 गोल्फ कोर्स स्कीट, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	26.9.75
103	बालेंद्र प्रसाद शुक्ला, पुत्र श्री यदुवंश प्रसाद शुक्ला	एमपीएसवी सी / 2221 / 04	ग्राम—आवेरा, डाक—हनुमानगढ़, जिला— सिधी (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03—04	13.10.61
104	बलजिन्दर सिंह, पुत्र श्री उजागर सिंह	पंजाबएसवी सी / 2572 / 04	मोती बाग कॉलोनी, गली न. 2, नाभा, पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 04	16.09.81
105	बलवान सिंह, पुत्र श्री मुंशी राम	राजएसवीसी / 3117 / 04	ग्राम लीखवा, झुञ्जुनू राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 93	6.4.68
106	बलवत सिंह, पुत्र श्री बख्तावर सिंह	हरिएसवीसी / 1812	ग्राम राजपुरा, डाक गुलकानी, जिला जींद, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 03	16.1.73
107	बनोमली रौय, पुत्र श्री बज कांता रौय	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3129 / 04	ग्राम एवं डाक—धुनेरखाटा, थाना सिताई, जिला कूचबिहार, पिन-736167, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	5.4.80
108	बानश्चानलांग कुपार ब्लाह, पुत्र स्व. श्री ए. एम. रापथप	मेघएसवीसी / 231 / 05	द्वारा श्रीमती जे.एम. ब्लाह, जोवाई, लिम्पीलोन, शिलांग -793002, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	3.10.79
109	बरनाली चंद्रा, पुत्र श्री तमल कांति चंद्रा	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3117 / 04	रबीन्द्रपल्ली (पीरताला), डाक सुरी, जिला—बीरमू, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	13.5.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
110	बारोवा मानिकी मदूरी, पुत्री श्री एस.एस. बारोवा	असमएसवी सी / 2196 / 05	मधुर भवन, उजान बाजार, एम.जी. रोड, गुवाहाटी- 781001, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	27.8.80
111	बरुआ समृति, पुत्र श्री नारायण च. बोराह	असमएसवी सी / 2176 / 05	डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल प्लांट, एएयू, जोरहाट - 13, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	31.8.81
112	बरुआ बिस्वास, पुत्र श्री किशोरी मोहন बिस्वास	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3079 / 04	ग्राम- चिलाखली, डाक करुईगाँवी, जिला- नाडिया, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	22.10.81
113	बासवराज एस. साजन, पुत्र श्री संगपा	कर्ना / 3621 /	कुटोजी डाक, मुददेबिहाल तालुक, बीजापुर जिला - 586245, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	22.07.81
114	बासव राजेंद्र बिरादर, पुत्र श्री शिद्धामपा गोडा	कर्ना / 3622 /	गाबसवाली डाक, शिंडागी तालुक, बीजापुर जिला- 586123, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	31.12.79
115	बेल्लमकोंडा नागमणि, पुत्री श्री नारायण	एपीएसवीसी / 4228 / 05	म.न. 11-18, बोनाकल खम्मम - 507204, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 05	25.6.81
116	भास्कर एम., पुत्र श्री आदिनारायण रेड्डी	एपीएसवीसी / 4279 / 05	म.न. 19-4-3 आर / 3, वेंकट रेड्डी कॉलोनी, 11 क्रॉस, तिरुपति - 517501, चित्तूर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 05	26.10.79
117	भट्ट संकेत कुमार माहिम भाई	गुजरातएसवी सी / 2528 / 04	5, तृप्ति सोसायटी, बस स्टैंड के निकट, जितोड़िया, पिन- 388345, आनंद, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 01	10.11.78
118	भघन दीप कौर कलेर, पुत्री श्री नछतर सिंह दिल्लो	पंजाबएसवी सी / 2522 / 04	म.न. 58-बी, भाई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 04	16.05.81
119	भुपिन्दर सिंह, पुत्र श्री सौहन सिंह	पंजाबएसवी सी / 2558 / 04	ग्राम एवं डाक बनझौरा, तहसील मलेरकोटला, जिला संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 04	30.09.82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
120	भुपिन्दर सिंह, पुत्र श्री तीरथ राम	पंजाबएसवी सी/2509/04	ग्राम दुम्गन, डाक डोमेली, ज़िला कपूरथला, पंजाब	बीवीएससीएडएच/पीएयू/04	31.07.74
121	बीजू एस., पुत्र श्री सी.इ. सिवन	केरलएसवी सी/2899/04	चिरांगरा हाउस, मेथाला डाक, कुरुप्पमपडी वाया, अर्नाकुलम - 683545, केरल	बीवीएससीएडएच/केरयू/04	28.11.77
122	बिक्या बनावथ, पुत्र श्री अन्धिया	एपीएसवीसी/4219/05	सीताराम नगर, कूनापार डाक, वाया कड्ठल, महबूबनगर ज़िला - 509321, अ.प्र.	बीवीएससीएडएच/एएनजीआरएयू/05	3.2.79
123	बिमल सी.बी., पुत्र श्री मास्करन सी.एम.	केरलएसवी सी/2944/04	चकिकंगल हाउस, नादधारा डाक, ईक्या नगर, थिसूर - 680751, केरल	बीवीएससीएडएच/केरयू/04	6.11.79
124	बिनेश के., पुत्र श्री विजयन एम.	केरलएसवी सी/2975/04	मुथुकट्टी हाउस, ग्रामामकलम, उपड़डा डाक-चुंगाथारा, मलप्पुरम-679354 केरल	बीवीएससीएडएच/केरयू/04	1.8.77
125	बिनी वी.आर., पुत्री श्री राजप्पन वी.आर.	केरलएसवी सी/2941/04	वनिभापुरक्कल हाउस, मुदियूरकोनम डाक, पंडालम, पथानमथिट्टा 686516, केरल	बीवीएससीएडएच/केरयू/04	30.5.79
126	बिन्जाय चाको, पुत्र श्री चाको जोसेफ	केरलएसवी सी/2906/04	पञ्चायाचिरा हाउस, मम्मूळे डाक, चंगनासेरी, कोट्टायम 686553, केरल	बीवीएससीएडएच/केरयू/04	2.5.81
127	बीरेंदर, पुत्र श्री महर सिंह	हरिएसवीसी/1816	1375/31, शास्त्री कॉलोनी, सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएडएच/सीसीएसएचएयू/04	3.2.80
128	बीरेंदर सिंह, पुत्र श्री कालू राम यादव	हरिएसवीसी/1849	393/22, शिवाजी पार्क, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएडएच/सीसीएसएचएयू/03	15.3.78
129	बीरेंद्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री राम हेत शर्मा	एमपीएसवी सी/2245/04	जैन मंदिर के पीछे, पुरानी बस्ती, मोरेना, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच/जे.एन.के.वी.वी./04-05	7.7.80
130	बीरपाल सिंह, पुत्र श्री श्री रणजीत सिंह	पंजाबएसवी सी/2523/04	म.न. 779, वार्ड-5, डॉ. गरचा स्ट्रीट, जी.टी. रोड, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएडएच/पीएयू/04	07.02.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
131	बिवा ऐन जोसफ, पत्नी श्री लिओन इटियाचेन	केरलएसवी सी / 2998 / 04	3 / 133, मेरली, वजापिला हाउस, नेलीकुन्ना डाक, थिसूर - 680005, केरल	बीबीएससीएडएच / केरयू / 04	28.6.79
132	बलेसा मेरिथा च मोमिन, पुत्री श्री बिमल च हाजोंग	मेघएसवीसी / 228 / 05	द्वारा श्री बिमल हाजोंग, एबी मिशन कम्पाउंड, तुरा, मेघालय	बीबीएससीएडएच / एएयू / 05	13.10.78
133	बोदाना श्री देवी, पुत्री श्री जगन्नाथ राव	एपीएसवीसी / 4225 / 05	भावाजी नगर, बालागे (अस्पताल जं. के निकट), श्रीकाकुलम, आ.प्र.	बीबीएससीएडएच / एएनजीआरएयू / 05	9.5.81
134	बोलाप्रागदा स्वाथि आयप्पा, पुत्री श्री नारायण राव	एपीएसवीसी / 4273 / 05	डी.न. 51-10-7, पुरमवारी स्ट्रीट, जगन्नाइकपुर, काकीनाडा - 2, पू.गोदावरी जिला आ.प्र.	बीबीएससीएडएच / एएनजीआरएयू / 05	21.1.79
135	बोनीगाला सुवित्रा, पुत्री श्री मोहन राव	एपीएसवीसी / 4253 / 05	रिटा. प्रिसिंपल, रामनगर, अदंकी, प्रकासम जिला - 523201, आ.प्र.	बीबीएससीएडएच / एएनजीआरएयू / 05	15.8.80
136	बोराह कृष्ण प्रसाद, पुत्र श्री डी. बोराह	असमएसवी सी / 2166 / 04	ग्राम—कावोईमारी, डाक हैबोरगांव, जिला नागांव, असम	बीबीएससीएडएच / एएयू / 04	31.12.78
137	बोराह लखया ज्योति, पुत्री श्री एच.एन. बोराह	असमएसवी सी / 2179 / 05	ग्राम—चलचली रंगाईगांव, डाक चलचली, नागांव, असम	बीबीएससीएडएच / एएयू / 05	24.11.80
138	बोराह मुकुल, पुत्र श्री नरेन बोराह	असमएसवी सी / 2193 / 05	डाक पथालीपम, ग्राम कानान्दी, जिला लखीमपुर, असम	बीबीएससीएडएच / एएयू / 05	1.1.78
139	बोरदोलोई डेविड, पुत्र श्री अनुल च बोरदोलोई	असमएसवी सी / 2197 / 05	न. 2, पानीगांव, लोहितपुर, नागांव, असम	बीबीएससीएडएच / एएयू / 05	1.2.80
140	बोरदोलोई संजीब कुमार, पुत्र श्री पी. आर. बोरदोलोई	असमएसवी सी / 2163 / 04	ग्राम—हुगलटोली, डाक— दीघलभोरी, जिला— मोरीगांव, पिन— 782105, असम	बीबीएससीएडएच / एएयू / 04	31.3.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
141	बोसतामी बयजुत, पुत्र मी अली अहमद	असमएसवी सी/2187/ 05	शहर मंगलदोई, वार्ड न. 2, डाक मंगलदोई, जिला दारंग, पिन- 784125,	बीवीएससीएंडएच/ एएयू/05	3.4.80
142	ब्राइटस्टार लोगबांग, पुत्र श्री शेम्पीनॉट शाडप मान्नेर	मेघएसवीसी / 234 / 05	31/2 माइल, अपर शिलौंग, मेघालय - 793005	बीवीएससीएंडएच/ एएयू/05	13.7.81
143	बृजेश कुमार निवारिया, पुत्र श्री एल.पी. निवारिया	एमपीएसवी सी/2216/ 04	बी-41, एस.पी.एम. कॉलोनी, होशंगाबाद, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी/03-04	2.11.78
144	बुदुरी सुब्रमण्यम, पुत्र श्री वैंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी / 4236 / 05	वीडीओ (रिटा.), कॉडपी, प्रकासम, जिला - 523270, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/05	31.8.79
145	बुलबुल बागची, पुत्र श्री विषेकानंद बाकची	डब्ल्यूबीएसवी सी/3119/ 04	ग्राम एवं डाक भरतपुर, थाना बोंगांव, जिला- 24 परगना (उ.), प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस/ 04	6.12.80
146	सी. राजेंद्रन, पुत्र श्री ए. चेल्लइयाह	असमएसवी सी/2169/ 05	पैरासिटोलॉजी लैब डिफेंस, रिसर्च लैबोरेटरी, पो.बॉ.न. 2, तेजुपर, पिन-784001, असम	बीवीएससी/टीएनवीए एसयू/89	28.11.73
147	सी. श्रीनिवास राव, पुत्र श्री सी. बलराम	एपीएसवीसी / 4170 / 04	रहीमनपुरम, हरीशचंदपुरम डाक, श्रीकाकुलम जिला -532430, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड/04	13.11.81
148	च लीला स्वर्णा, पुत्री श्री च कोटी नागइयाह	एपीएसवीसी / 4290 / 05	म.न. 6-11/3, श्रीप्रिया कॉम्प्लेक्स, फ्लैट न. 4, कक्कुटपल्ली, हैदराबाद, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/05	24.5.79
149	च. एम.के. रेड्डी, पुत्र श्री रामना रेड्डी	एपीएसवीसी / 4221 / 05	साउथ मोपुरु, नेल्लोर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/05	5.5.78
150	च. लक्ष्मी बाई, पत्नी श्री टी. नरसिंहा मूर्ति	एपीएसवीसी / 4150 / 04	द्वारा टी. नरसिंहा मूर्ति, माकेनापलेम, मामिडीकुडुर (एम), पू.गो. जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ टीएनवीएसयू/ 93	23.11.69
151	चलपति राव चल्ला, पुत्र श्री वैंकट सुबइयाह	एपीएसवीसी / 4201 / 05	ए. कोठापलेम, वीनुकॉडा (एम), गुंटूर जिला- 522647, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/05	27.2.79

क्रांति.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
152	चामराजू पुत्र श्री सम्बिधायाह	कर्ना / 3636 /	आनेगल्ली, के.जी. हल्ली डाक, एच.डी. कोटे तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	1.6.80
153	चंदन चैटर्जी, पुत्र स्व. श्री महेंद्र नाथ चैटर्जी	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3137 / 04	5 / 1, काशीराम दास रोड, बी-जोन, दुर्गापुर-5, जिला- बर्दवान, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	5.12.81
154	चंदन कुमार सिंह, पुत्र श्रीमती विजय सैनी	एचवीसी / 705 / 04	टेलीफोन एक्सचेंज के निकट, डाक सापरून, जिला- सोलन, हिं.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 04	14.7.78
155	चंदन मुखर्जी, पुत्र श्री वैष्णवीदास मुखर्जी	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3109 / 04	ग्राम एवं डाक-बेजडीह, लोको साइड कॉलोनी, जिला- बर्दवान, पिन-71335 प. बं.	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	2.01.81
156	चांदिनी हरमन, पुत्री श्री हरमन एंडयूज	केरलएसवी सी / 2972 / 04	टीसी XIII / 434-1, थमपुरम जंक्शन, कुन्नकुजी डाक, त्रिवेंद्रम - 695037, केरल	बीवीएससीएंडएच / केरलयू/04	21.3.79
157	चंद्रकांत असाती, पुत्र श्री आर.सी. असाती	एमपीएसवी सी / 2217 / 04	तावा कॉलोनी, रेलवे स्टेशन के निकट, सोहागपुर, जिला- होशंगाबाद (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.के.वी.वी/ 03-04	2.7.79
158	चंद्रानी साहा, पुत्री श्री आशीस कुमार साहा	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3102 / 04	रेंटल हाउसिंग एस्टेट,फ्लैट न. बी-1 / 12,डाक इस्लाम पुर, जिला उत्तर दीनांजपुर, प.बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	3.6.81
159	चंद्रशेखर एम., पुत्र श्री महादेवइयाह	कर्ना / 3593 /	थामाडी हल्ली, यलंदु डाक, सी.एन. हल्ली तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	4.4.81
160	चंद्रशेखर सिद्धपा बुरादी कट्टे, पुत्र श्री सिद्धपा	कर्ना / 3590 /	वीरापुर डाक, हीरेकेलर तालुक, हावेरी जिला - 581210, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	2.8.80
161	चरन सिंह शर्मा, पुत्र श्री किलेंद्र शर्मा	एमपीएसवी सी / 2210 / 04	ग्राम एवं डाक- बारखेडी, जिला- मिंड, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.के.वी.वी/ 03-04	15.12.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
162	चंद्रजीलाल, पुत्र श्री होशियार सिंह	एचवीसी / 699 / 04	गाम एवं डाक— रुआंडा, थाना — सुंदर नगर, जिला— मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसके एचपीकेवी / 04	2.2.80
163	चारलेट एल्पिना फर्नांडीस	गोआएसवी सी / 134	एसएफ—1, किरन अपार्टमेंट्स, एयरपोर्ट रोड, चिकालिम, गोवा— 403711	बीवीएससीएंडएच / एमएफएसयू / 04	
164	चार्ली इनसांगो चौंगथु, पुत्र श्री सी. रामथियंगलिमा	मिज़एसवीसी / 149 / 04	बाजार वेंग, डाक लवंगतलाई, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 04	10.8.78
165	चतुरभुज नागर, पुत्र श्री गयाराम नागर	एमप्रीएसवी सी / 2232 / 04	ग्राम रासोधाना (हार), डाक बाघेल, तहसील जोरे, जिला— मोरेना, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03—04	1.12.71
166	चेताई मेदुलकुमार, चंदूलाल	गुजरातएसवी सी / 2554 / 05	गोंडल “अक्षरकुंज”, पुनीत नगर सोसायटी, गोंडल, गुजरात	बीवीएससीएंडएच / जीएयू / 02	16.7.80
167	चिलारा नागेश्वर राव, पुत्र श्री सी. सुब्बा राव	एपीएसवीसी / 4280 / 05	फ्लैट न. जी 2, परिमल बृद्धावन अपार्ट., अलकापुरी, हैदराबाद— 35, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एपीएयू / 74	23.6.51
168	चितिथोटी ज्योति श्री, पुत्री श्री माधव राव	एपीएसवीसी / 4252 / 05	सर्मा कॉलेज के पीछे, संजय गांधी कॉलोनी, ओंगोल— 523001, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 05	1.8.81
169	चितवन कवात्रा, पुत्र श्री गणेश दास	राजएसवीसी / 3126 / 04	घनश्याम दास गणेश दास, पंजाबी कलॉथ मर्जेंट, कोट पुतली, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 04	1.3.79
170	डी. पन्नीर, पूत्र श्री देवशसुप्तिल्लई	पॉण्डीएसवी सी / 237 / 04	14, थिरुविलयुवर स्ट्रीट, पक्कमुदायनपेट, पॉण्डीचेरी—8	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीचेरीविवि / 03	2.1.82
171	डी.आर. अशोक, पुत्र श्री के. रामचंद्र रेडी	कर्ना / 3656 /	के. देवनाहल्ली कोरलापारथी डाक, चिंतामणि तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	2.4.81
172	डी.एस.कुमार वोडेयार, पुत्र श्री डी.एस.आनंद गिरि वोडेयार	कर्ना / 3680 /	माइलारा डाक, हडागली तालुक, बेलारी जिला 583217, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	21.9.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अवधारण	जन्मतिथि
173	डॉ. सारण्या, पुत्री श्री नारायण	पौष्टीएसवी सी / 233 / 0 4	न. 18 वेस्ट, मेन रोड, वृन्दावन, पौष्टीवरी-13	बीवीएससीएडएच/ पौष्टीवेरीकिंवि / 03	19.7.82
174	डेजी साहा, पुत्र श्री शतंजीव पाठक	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3118 / 04	उत्तरी चकमबानी डाक-बलूरघाट, जिला-डी दीनाजपुर, पिन 733101, प.ब.	बीवीएससीएडएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	15.3.80
175	दलजीत सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह	हरिएसवीसी / 1824	313, वाटर वर्क्स रोड, कलांवली, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएडएच/ सीसीएसएचएयू / 04	4.11.80
176	दास बिकाश रंजन, पुत्र डॉ. एल.सी. दास	असमएसवी सी / 2168 / 04	निजारापार चांदभारी कॉलोनी, गुवाहाटी-3, असम	बीवीएससीएडएच/ एएयू / 03	11.4.78
177	दास डेजी, पुत्री स्व. श्री प्रफुल्ल च. दास	असमएसवी सी / 2175 / 05	गांधी बस्ती, तिपम एन्कलेक, ए 403, गुवाहाटी-3, असम	बीवीएससीएडएच/ एएयू / 05	1.9.79
178	दास राजा, पुत्र स्व. श्री बिजौय रंजन दास	असमएसवी सी / 2173 / 05	सौजीपार, डिफलू रोड, डाक बोकाखट, जिला-गोलालघाट, असम	बीवीएससीएडएच/ एएयू / 05	2.8.78
179	दयानंद टी.एस., पुत्र श्री सिद्ध्या	कर्ना / 3645 /	थिमन्नाहल्ली डाक, विकानायकनहल्ली तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएडएच/ यूएसबंगलौर / 04	20.4.81
180	देबानू जीता, पुत्र श्री बेनुगोपाल जीता	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3125 / 04	ग्राम-दुलालपुर, डाक बासुदेबपुर, जिला पुरब, मिदनापुर, पिन-721452, प.ब.	बीवीएससीएडएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	7.01.82
181	देबाशीष रौय, पुत्र श्री काशी नाथ रौय	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3124 / 04	ग्राम- अपूर्बपुर, डाक-सिंगूर, जिला- हुगली, पिन- 712409, प. बंगाल	बीवीएससीएडएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	01.01.81
182	देबोराह एम. रोडरीग्स	गोआएसवी सी / 130	द्वारा मरिया गोरेथी, कोनफारिया, कैंडलिम बारडेज-गोवा- 403515	बीवीएससीएडएच/ एमएफएसथू / 04	
183	दीप कुमार, पुत्र श्री कालू राम	एचवीसी / 707 / 04	ग्राम एवं डाक-गुम्मा, थाना- जोगिन्द्र नगर, जिला-मंडी, हि.प्र.	बीवीएससीएडएच/ सीएसकेएचमीकेवी / 04	30.1.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	सैलानिक आईआरए	जन्मतिथि
184	दीपा पी.के. पुत्री श्री के. विश्वनाथन	केरलएसवी सी / 2934 / 04	कृष्णा प्रसादम, घिरककड़, कुन्नाथुरमेलु, पलककड़—678013, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरयू/ 04	24.12.80
185	दीपक धापके, पुत्र श्री श्रीपति राव धापक	राजएसवीसी / 3131 / 04	जमना लाल जाट, ग्राम एवं डाक लासडाउन, निम्बाहरे, घित्तौडगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / डॉ.पीडीकेवी / 97	10.3.74
186	दीपक ई.वी., पुत्र श्री ई.एस. वेलायुंधन	केरलएसवी सी / 2965 / 04	इटुंगलपड़ी हाउस, डाक कालाडी, अर्नाकुलम—683574, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरयू/ 04	10.4.81
187	दीपक गुप्ता, पुत्र श्री सुरेश बाबू गुप्ता	एमपीएसवी सी / 2201 / 04	म.न. 179, ऊषा कॉलोनी, डाबरा जिला, ग्वालियर (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 03—04	17.8.80
188	दीपक कुमार, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह	एचवीसी / 689 / 04	अम्मान— पटवारियां, थाना भोरंज, जिला— हमीरपुर, हिंग.	बीवीएससीएंडएएच / सीएसकेएचपीकेवी / 04	2.11.79
189	दीपक कुमार सिसोदिया, पुत्र श्री केशव राव	राजएसवीसी / 3113 / 04	वेट. हॉस्पिटल, झिंडीवाली, जैसलमेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एमयू/ 98	20.9.72
190	दीपमाला अग्रवाल, पुत्री श्री के.पी. अग्रवाल	एमपीएसवी सी / 2203 / 04	दीपक कलेक्शन, गोपाल मार्केट, बिजुरी, जिला—शहडोल, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी / 03—04	24.3.80
191	दीप्ती एल., पत्नी श्री अरुण जॉन थोट्टापिल्ली	केरलएसवी सी / 2983 / 04	अरुण ज्योति, थोट्टापिल्ली हाउस, बाइपास रोड, ओल्लुकलरा डाक, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरयू/ 04	20.5.79
192	डेका पारुल, पुत्री श्री करुणा कांता डेका	असमएसवी सी / 2180 / 05	द्वारा करुणा कांता डेका, 24 संगनाया पथ, सार्व, बेलटोला, गुवाहाटी—28	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/ 05	22.9.81
193	देवेन्द्र कुमार, पुत्र श्री यादराम	राजएसवीसी / 3170 / 04	वार्ड न. 13, तहसील नादबाई, भरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/ 05	28.2.79
194	देवेश विराग, पुत्र श्री मार्गी लाल विराग	राजएसवीसी / 3143 / 04	सतसंग भवन मार्ग, बारान, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/ 05	2.9.74

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शेषणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
195	देवी अर्चना नरीगोप्युला, पुत्री श्री सिवा कुमार	एपीएसवीसी /4154 /04	डी.न. 7-13-18/ए, वल्लूरीवारी थोटा, छठी लेन, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/04	12.11.79
196	देवी सागरिका, पुत्री श्री टी.सी. नाथ	असमएसवी सी/2162/ 04	ग्राम एवं डाक—मधुपुर, जिला—नागार, असम	बीवीएससीएंडएच/ एएयू/04	8.5.79
197	देविन्द्र सिंह, पुत्र श्री कुलदीप सिंह	पंजाबएसवी सी/2567/ 04	ग्राम एवं डाक मनुपर, तहसील एवं जिला फतेहगढ साहिब, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	25.04.81
198	देवराज मोहन, पुत्र श्री मनिकम	एपीएसवीसी /4176 /05	संगम डेरी, मिल्क चिलिंग सेंटर, गुरजाला, गुदूर जिला— 522415, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि/01	18.9.78
199	धनजय सिंह, पुत्र श्री रघु बंश सिंह	कर्ना/3686 /	म.न. 2, राजा कॉलोनी, महेश्वरीनगर, महादेवपुरा डाक वाइट फील्ड के निकट, मेन	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	21.6.81
200	धान्या वी. आर., पुत्री श्री वी. राजू	केरलएसवी सी/2988/ 04	वैकालथ हाउस, कृष्णा अझर लेन, चेम्बूकावू, थ्रिसूर — 680020, केरल	बीवीएससीएंडएच/ केएयू/04	7.1.79
201	धर्मेंद्र छारंग, पुत्र श्री सुशील कुमार	हरिएसवीसी /1809	2 सिंविल लाइस, मेरता सिटी, जिला— नागपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/01	2.10.76
202	धर्मेंद्र कुमार, पुत्र श्री छोटे लाल	राजएसवीसी /3145 /04	म.न. 2, एन 19, तलवंडी, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	27.3.74
203	धीरज ढींगरा, पुत्र श्री आर.एन. ढींगरा	राजएसवीसी /3193 /05	4 ई 153, जे.एन. व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	6.2.79
204	धीरज मेहता, पुत्र श्री सुमाष मेहता	हरिएसवीसी /1829	वार्ड न. 9, ग्राम एवं डाक— बरवाला, जिला— हिसार, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	26.7.80
205	धीरज प्रताप सिंह, पुत्र श्री भूदेव	राजएसवीसी /3183 /04	पथारिया हाउस, मनसा कॉलोनी, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	11.12.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
206	धीरज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री बनवारी लाल	राजएसवीसी /3158/04	द्वारा रामचरन कलौथ हाउस, मर्टेंट सुमाष बाजार, दूकान न. 5, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएडएच/ आरएयू/05	15.12.79
207	धीरज शरणप्पा मनकरी, पुत्र प्रोफे. एस.एन. मनकरी	कर्ना/3582 /	मुक्कम डाक, हुलसूरखेड तालुक, औराद (बी) जिला, बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएडएच/ एमएयूपरमनी/ 98	23.3.76
208	धीरेंद्र चौधरी, पुत्र श्री रमेश चंद्र	एमपीएसवी सी/2241/ 04	रघुनंदन मेडिकल स्टोर, कोतवाली के पीछे, पाड़व, मोरैना, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच/ जेएनकेवीवी/ 03-04	18.4.77
209	दिलीप कुमार हाजरा, पुत्र श्री सुबल हाजरा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3114/ 04	ग्राम कृपानंदपुर, डाक कृपानंदपुर, जिला— पूर्ब मिदनापुर, प. बंगाल	बीवीएससीएडएच/ डब्ल्यूबीयूरएफएस/ 04	23.2.82
210	दिलीप कुमार काला, पुत्र श्री केदार मल काला	एमपीएसवी सी/2248/ 04	जगदेव मौहल्ला, तह झालसौर, जिला रतलाम, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच/ जेएनकेवीवी/ 03-04	14.8.79
211	दिनेश कुमार कंवरजे, पुत्र श्री कन्हैया	राजएसवीसी /3144/04	हनुमान मंदिर के निकट, लंका कॉलोनी, बारान, राजस्थान	बीवीएससीएडएच/ आरएयू/05	20.12.74
212	दिनेश कुमार भीना, पुत्र श्री ओम प्रकाश	राजएसवीसी /3146/04	ग्राम डेरपुरा, थाना डिगोड़, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएडएच/ आरएयू/05	30.10.79
213	दिनेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री रामहेत शर्मा	एमपीएसवी सी/2246/ 04	एम.एस. रोड, बसंत नगर, नए बस स्टैंड के सामने, जोरा, जिला मोरैना, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच/ जेएनकेवीवी/ 03-04	7.7.80
214	दिनेश्वर सिंह त्यागी, पुत्र श्री दाताराम त्यागी	एमपीएसवी सी/2181/ 04	वेटेरिनरी हॉस्पिटल कैम्पस, इच्छावार, जिला— सिहोर, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच/ जेएनकेवीवी/ 78	20.11.54
215	दीपन दास, पुत्र श्री स्वप्न कुमार दास	डब्ल्यूबीएसवी सी/3085/ 04	ग्राम पूर्वी सेखपारा, डाक मोगरा, जिला हुगली, पिन- 712148, प. बंगाल	बीवीएससीएडएच/ डब्ल्यूबीयूरएफएस/ 04	23.11.80
216	दिवाकर राजाराम मावलंकर	गोआएसवी सी/133	एटी—काडसीवाडा, डाक मोपा, पेरनेम, गोवा	बीवीएससीएडएच/ एमएफएसयू/04	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
217	डॉ. रमेश कुमार सैनी, पुत्र श्री भगवान राम	राजएसवीसी /3195 / 05	डी 9 / 150, वित्रकूट स्कीम, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	1.7.80
218	दुली चंद आर्या, पुत्र श्री बी.एल. आर्या	राजएसवीसी /3114 / 04	ग्राम एवं डाक— बालापुरा, फालोदी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ जेरलएनकेवीवी/99	2.4.73
219	दत्ता भाभा ज्योति, पुत्र श्री महेंद्र नाथ दास	असमएसवी सी/2182/ 05	अपर लुइतपुर रोड, अपर लुइतपुर, खारगुली, गुवाहाटी-781004, असम	बीवीएससीएंडएच/ एएयू/05	17.6.81
220	इबेनी, पुत्र श्री थुगबो	एनएसवीसी /0198 / 05	द्वारा श्रीमती लिली मुरी, लेक्चरर, मॉर्डन कॉलेज, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएंडएच/ एएयू/05	30.8.80
221	इदारा मुरली मोहन, पुत्र श्री वेंकटेश्वर राव	एपीएसवीसी /4269 / 05	सीनियर असिस्टेंट, एमआरओ ऑफिस, प्रकासम जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/05	22.8.78
222	एमिली रॉय, पुत्री श्री वर्गीज़	केरलएसवी सी/2912 / 04	पुथुकुन्नथ हाउस, कोट्टापली डाक, थिकारिपुर वाया, अर्नाकुलम 686695, केरल	बीवीएससीएंडएच/ केरएयू/04	20.3.79
223	फकीरप्पा कागीनेली, पुत्र श्री बासवनटप्पा	कर्ना / 3626 /	नेलोगल डाक, हावेरी तालुक एवं जिला, हावेरी, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	1.4.80
224	फसीलामोल एम.ए., पुत्री श्री एम. अलवी	केरलएसवी सी/2937 / 04	मुडाइल हाउस, चोककड डाक, मलप्पुरम - 679355, केरल	बीवीएससीएंडएच/ केरएयू/04	25.5.79
225	फेमिना श्रीवास्तव, पुत्र डॉ. आर.के. श्रीवास्तव	एमपीएसवी सी/2269 / 04	पंजाब बैंक कॉलोनी, नीरज नर्सरी के सामने, जबलपुर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेरनकेवीवी/03-04	19.7.80
226	जी. सक्रावर्ती, पुत्र श्री ए. गोविंदाराजलु	पॉण्डीएसवी सी/223 / 0 4	33, पुनाम्बला मुदलियार स्ट्रीट, मुथियलपेट, पॉण्डीचेरी - 3	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि/02	7.6.78
227	जी. शिवकुमार, पुत्र श्री ज्ञान प्रगासम	पॉण्डीएसवी सी/248 / 0 4	14, थिरुवलुवर स्ट्रीट, कामराज नगर, पॉण्डीचेरी -11	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि/03	13.9.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक आहताएं	जन्मतिथि
228	जी. वेंकटेसन, पुत्र श्री गिरितारा गोपालन	पॉण्डीएसवी सी / 240 / 0 4	बीजी-5, गवर्नरमेंट क्वार्टर्स, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी -8	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 03	25.10.81
229	गजेंद्र कुमार पी.के., पुत्र श्री कृष्णामूर्ति पी. एच.	कर्ना / 3618 /	द्वारांशरदम्मा जी., तेकालावटी डाक, तालु होलालकेरे, जिला चित्रदुर्गा 577526, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	15.04.81
230	गणेश दत्ता, पुत्र श्री संकर च दत्ता	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3120 / 04	ग्राम-घनराजपुर, डाक एवं थाना घनियाखली, जिला-हुगली, पिन-712302, प. ब.	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	5.12.81
231	गंगा सिंह शेखावत, पुत्र श्री जय सिंह	राजएसवीसी / 3174 / 04	ग्राम एवं डाक बड़ागांव, झुंझूनू, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	5.7.80
232	घन श्याम दास भाटी, पुत्र श्री राधेश्याम	राजएसवीसी / 3111 / 04	वेट. हॉस्पिटल, भिखोदाई, जैसलमेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एचएयू / 93	9.11.68
233	घोट्टन कुमार दास, पुत्र श्री असीत कुमार घोष	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3088 / 04	ग्राम-कंकरडांगा, डाक कृष्ण नगर, थाना पत्रासायेर, जिला-बंकुरा, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	7.1.82
234	गिर्भी लोकेश, पुत्र श्री हरि राव	एपीएसवीसी / 4283 / 05	डी. न. 2-6, अम्बेडकर नगर, यनम - 533464, पू. गो. जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 2003	30.8.80
235	गिन्नी जॉर्ज, पुत्री श्री टी.टी. जॉर्ज	केरलएसवी सी / 2914 / 04	थाजाठा हाउस, इलामथुरुथी, कुटटानेलूर, थिसूर-680014, केरल	बीवीएससीएंडएच / केरयू / 04	13.2.80
236	गिरीश करीसिडप्पा रामगिरिकर, पुत्र श्री करीसिडप्पा ए.	कर्ना / 3586 /	डोर न. 799 / 9, विद्यानगर, दावणगेरे - 577005, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	17.7.81
237	गिरीश कुमार निशा, पुत्र श्री मणि प्रसाद निशा	एमपीएसवी सी / 2230 / 04	द्वारा: श्री बाबूलाल निशा मेडिकल स्टोर, इलाहबाद बैंक के सामने, सेमरिया, रीवा, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	25.6.60
238	गोगोई पुलक, पुत्र श्री घाना गोगोई	असमएसवी सी / 2174 /	ग्राम-नालानीपम, डाक एवं जिला- धोमाजी, पिन-787057, असम	बीवीएससीएंडएच / एरयू / 05	31.12.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
239	गोहेन रिकु, पुत्र श्री ज्ञानेश्वर गोहेन	असमएसवी सी / 2190 / 05	जनकपुर, जुनाकी पथ, काहिलीपाड़ा, गुवाहाटी, असम	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 05	18.5.76
240	गोपाल कुमार टी., पुत्र श्री थंकप्पन सी.	केरलएसवी सी / 2955 / 04	टी.सी. 36 / 1624, मुदुम्बिल वीडु, श्रीवरहम, वलक्कडवडु डाक, थिवेंद्रम 695008, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरयू / 04	17.4.79
241	गोपाल नायक वकुड़ावथ, पुत्र श्री भिक्ष्या नायक	एपीएसवीसी / 4195 / 05	द्वारा आर. स्वामी नायक, कृषि विभाग, मुफ्तला, गुंटूर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू / 05	15.8.81
242	गोख्वामी दीपक कुमार, पुत्र श्री जय नारायण गोख्वामी	असमएसवी सी / 2187 / 04	वार्ड न. 6, जी.एफ. रोड, गोलाघाट, असम	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 03	11.9.78
243	गुडलुरी सम्बासिवा राव, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी / 4239 / 05	म.न. 29-130, कोठापेट, वीनुकोडा, गुंटूर जिला - 522467, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू / 05	26.8.79
244	गुनालक्ष्मी आर., पुत्री श्री रथिनवल	कर्ना / 3578 /	न. 14 / 1, वेनुगोपाल नगर, एच.एम.टी.लेआउट, नागसान्द्रा डाक, बंगलौर-73, कर्नाटक	बीवीएससी / टीएमवीए एसयू / 03	8.6.79
245	गुप्त रवि शास्त्री, पुत्र श्री नवीन कुमार गुप्ता	असमएसवी सी / 2183 / 05	डाक एवं जिला- धीमाजी, ग्राम मिलन नगर, पिन- 787057, असम	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 05	10.1.80
246	गुरबीर सराव, पुत्र श्री छोटा सिंह	पंजाबएसवी सी / 2568 / 04	ग्राम रौनी कलां, डाक चकलान, जिला रोपड - 140102, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू / 04	04.05.79
247	गुरबदरसिंह घुमन, पुत्र श्री जसपाल सिंह घुमन	पंजाबएसवी सी / 2515 / 04	जांदे सराय रोड, एसजीएडी पब्लिक स्कूल के सामने, करतारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू / 03	18.03.80
248	गुरप्रीत सिंह, पुत्र श्री स्वर्ण सिंह गगनिया	पंजाबएसवी सी / 2552 / 04	नेशनल डायगोनोस्टिक एंड एक्सरे किल., पुरानी तहसील रोड, अबोहर-152116, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू / 04	04.08.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
249	एच.जी. इंद्रेश, पुत्र श्री चोलुरप्पा	कर्ना/3661/ /	होछमनाडोडी, एम.जी. पालया डाक, कैलंचा(एचबी), रामनगरम तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला— 562109, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	4.3.81
250	एच.मस्तान, पुत्र श्री बी. हाजमोहिददीन	पॉण्डीएसवी सी/224/04	48, वी.ओ.सी. स्ट्रीट, पॉण्डीचेरी -1	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि/02	26.12.78
251	एच.एस. बाशा, पुत्र श्री बी.के. मौहम्मद हुसैन	कर्ना/3580/ /	न. 57, एस.टी. चैक पोस्ट के पीछे, मगदी रोड, कामाक्षी पलघा, बंगलौर-79	बीवीएससी/ यूएस बंगलौर/75	13.3.53
252	हलोई संगीता, पुत्री श्री भूपेंद्र हलोई	असमएसवी सी/2173/05	आर.ए.आर.एस. तीताबोर, जिला— जोरहाट, पिन- 785630, असम	बीवीएससीएंडएच/ एएयू/05	31.8.81
253	हरबंस लाल, पुत्र श्री प्यारा, लाल	पंजाबएसवी सी/2574/04	ग्राम मेहराम पुर, डाक खानखाना, तह. एवं जिला— नवांशहर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	15.07.79
254	हरिन्दर, पुत्र श्री बलवान सिंह	हरिएसवीसी /1832	332/14, इंदर गढी, जिला—सोनीपत, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	2.12.78
255	हरिदरपाल सिंह जज, पुत्र श्री अमरजीत सिंह जज	पंजाबएसवी सी/2576/04	म.न.1, महजोर शेरसिंह कॉलो. मजीठा रोड, अमृतसर, एससीएफ 39, फ्रट साइड, सी—ब्लॉक मार्कट, रणजीत	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/01	15.08.77
256	हरीश यादव, पुत्र श्री दलीप सिंह	हरिएसवीसी /1836	982, सेक्टर-3, हुडा पार्ट-1, रिवाडी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	30.9.80
257	हरजीत सिंह, पुत्र श्री ननक सिंह	पंजाबएसवी सी/2513/04	13, जगत जीत पार्क, कपूरथला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/95	07.10.72
258	हरमनदीप कौर बत्रा, पुत्री श्री परसोतम सिंह बत्रा	पंजाबएसवी सी/2549/04	म.न. 315 सी, नाभा, मौहल्ला रिपुदमनपुरा, जिला पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	26.11.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
269	हरप्रीत सिंह, पुत्र श्री अनवंत सिंह	पंजाबएसवी सी / 2525 / 04	म.न. 311-ए, सिविल अस्पताल के निकट, बाबा बकाला, अमृतसर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/04	13.04.81
280	हरप्रीत सिंह, पुत्र श्री करनैल सिंह	पंजाबएसवी सी / 2580 / 04	गली न. 7-बी, सुंदर नगरी, अबोहर, जिला फिरोजपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/00	15.10.74
261	हरप्रीत सिंह, पुत्र श्री राम सिंह	पंजाबएसवी सी / 2535 / 04	29, आजाद नगर, हरजीत पैलेस के निकट, सुल्तानविंद रोड, अमृतसर 143001, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/04	25.08.80
262	हर्ष दीप, पुत्र श्री रघु नाथ ढोगरा	पंजाबएसवी सी / 2573 / 04	म.न. 278, वार्ड न.-4, गोपाल नगर, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/01	16.03.78
283	हर्ष कुमार माधिला, पुत्र श्री सूर्य प्रकाश राव	एपीएसवीसी / 4172 / 04	23/375, थोम्बाराम वारी स्ट्रीट, फतेखानपेट, नेल्लोर, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर / 04	5.2.80
284	हर्षा जी.वी., पुत्र श्री अश्वथ रेड्डी सी.	कर्ना / 3630 /	ठोकाला हल्ली, गोरीबिदनूर तालुक, कोलार जिला— 561228, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर / 04	21.7.81
285	हर्षा जी.वी., पुत्र श्री गंगे गौडा के.	कर्ना / 3627	पुत्र श्री गंगे गौडा के, लेकचर इकॉनामिक्स, कृष्ण निधि, डाक ऑफिस रोड, टी.बी.एक्स., नागमंगला एम	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर / 04	11.05.81
206	हरविंदर जीत सिंह, पुत्र श्री लाखा सिंह	पंजाबएसवी सी / 2519 / 04	ग्राम भगियां, डाक सेखवां, जिला— गुरदासपुर 143516, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/04	18.12.79
287	हजारिका धुबजीत, पुत्र श्री द्विजेंद्र नाथ हजारिका	असमएसवी सी / 2199 / 05	ग्राम— तानीगांव, डाक— पुराना, तीताबोर, जिला— जोरहाट 785632, असम	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/05	15.10.80
288	हजारिका होमनजंलि, पुत्री श्री मुहिदर हजारिका	असमएसवी सी / 2198 / 05	द्वारा श्री एम. हजारिका, धोमाजी, वार्ड न. 2, जिला— धोमाजी—787057, असम	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/05	25.2.81
289	हीरा लाल बैरवा, पुत्र श्री शिव नारायण	राजएसवीसी / 3138 / 04	ग्राम एवं डाक तोरडा, थाना सिकराई, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/05	1.9.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
270	हेल्मा जॉनसन, पुत्री श्री एम.आर. जॉनसन	केरलएसवी सी / 2904 / 04	द्वारा के.के.जोस,रिटायर्ड हैड मास्टर,थानीसेरी डाक, वाया इरिजलकुडा, थिस्मूर 680701	बीवीएससीएंडएएच / के.एयू/ 04	29.11.79
271	हेमंत कुमार मेहता, पुत्र श्री कृष्ण वल्लभ मेहता	एमपीएसवी सी / 2223 / 04	एच-14, वेटेरिनरी कॉलेज कैम्पस, फ़ॉक (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएएच / जे.एन.के.वी.पी/ 03-04	22.5.61
272	हेमंत कुमार, पुत्र श्री रतन लाल	राजएसवीसी / 3191 / 05	पर्वत की रोड, जोधपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/ 05	2.6.76
273	हिमाद्री शेखर रौय, पुत्र श्री रणजीत कुमार रौय	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3088 / 04	डाक एवं थाना— आरामबाग, (इंदिरापत्ती), जिला— हुगली, पिन— 712601	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	4.1.82
274	हिमांशु भाटिया, पुत्र श्री दूनी चंद	एचवीसी / 685 / 04	ग्राम—बासडेरा, डाक—हुघा, थाना एवं जिला— हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / सीएसके.एचपीके.वी / 04	16.9.79
275	हीरालाल हेमब्राम, पुत्र श्री रामचंद हेमब्राम	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3132 / 04	ग्राम पिथागढिया, डाक रानीबांध, जिला— बंकुरा, पिन— 722148	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	6.12.80
276	हीरेमठ महंतेशा, पुत्र श्री मलइयाह हीरेमठ	कर्ना / 3601 /	द्वारा भेश हीरेमठ, एटी डाक कोट्याल, बीजापुर जिला	बीवीएससीएंडएएच / यूएसधारवाड / 04	1.6.82
277	हिरोक कुमार घोष, पुत्र श्री चडी चरन घोष	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3081 / 04	ग्राम लविमनी, डाक सराय, जिला— हुगली, पिन— 712149	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	30.10.80
278	हिंडावी एल, पुत्री श्री मोहन राव	एपीएसवीसी / 4217 / 05	प्लॉट न. ४९, राघवेंद्र कॉलोनी, हेदराबाद रोड, नालगोंडा, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एनजीआरएयू/ 05	10.1.80
279	इपतेखार अली, पुत्र मौहम्मद दस्तगिरि साब	कर्ना / 3657 /	मेन रोड, बासवपट्टना डाक, चन्नागिरि तालुक, दावणगेरे जिला	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलोर/ 04	8.4.81
280	इलावंजागम एम., पुत्र श्री इ. मुनिस्वामी	एपीएसवीसी / 4148 / 04	2-836, एस.वी. कॉलोनी, कॉगरेडिपल्ली, थित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससी / टीएनवीए एसयू/ 97	7.5.73

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
281	झंमरान खान, पुत्र श्री अब्दुल लतीफ	हरिएसवीसी /1828	म.न. 2096, सेक्टर 16, फरीदाबाद	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	22.9.81
282	झंदरदीप सिंह, पुत्र श्री एन. सिंह	पंजाबएसवी सी /2528 / 04	म.न. 2467, फेस -XI, एसएस नगर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	02.02.81
283	झंदेरा डी., पुत्री श्री वैकट सुबइयाह	एपीएसवीसी /4234 / 05	गुडलीपल्लुपडु, नेल्लोर ग्रामीण (एम), नेल्लोर – 524002, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/05	2.6.79
284	झंदरजीत बकतवर, पुत्र श्री गोविंद प्रसाद बकतवर	एमपीएसवी सी /2254 / 04	एम.पी. कॉलोनी, छपरा, जिला सतना, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी/03–04	20.7.79
285	झंदरजीत कुमार पॉल, पुत्र श्री बिमल कृष्ण पॉल	डल्लूबीएसवी सी /3141 / 04	ग्राम देवीपुर, डाक दीघा, थाना बारासात, जिला- 24 परगना (उ.), प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच/ डल्लूबीयूएफएस/ 04	2.05.80
286	झंसादुदेन कुर्जी, पुत्र श्री नसरुदेन कुर्जी	राजएसवीसी /3153 / 04	गली न. 9, एम.जी. कॉलोनी, माला फाटक, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	22.4.77
287	झस्लाम मौह, बहरुल, पुत्र मौह. अहमद अली	असमएसवी सी /2164 / 04	द्वारा अहमद अली, मंगगलदोई वार्ड न. 2, जिला दारंग, असम	बीवीएससीएंडएच/ एयू/04	31.3.80
288	झस्लाम नुरुल, पुत्र श्री अब्दुस साहिद अली अहमद	असमएसवी सी /2202 / 05	ग्राम—पहाडपुर, डाक हाबिदोनरा, वाया मांडिया, जिला बोरपेटा – 781308	बीवीएससीएंडएच/ एएयू/05	28.2.76
289	जै.के. नागराजन, पुत्र श्री जे. कृष्ण मूर्ति	एपीएसवीसी /4181 / 05	डी.न. 29—1771, चौथी गली, वीनुकोडा, गुंटूर जिला, आ.प्र.	बीवीएससी /टीएनवीए एसयू/2001	19.4.77
290	जाकिन जयराम, पुत्र श्री डी. जयराम	केरलएसवी सी /2987 / 04	परमार्थ, पलायमकुन्नु, वरकला, त्रिवेंद्रम	बीवीएससीएंडएच/ केरयू/04	11.5.80
291	जेकब मैथ्यू, पुत्र श्री कौ.के. जेकब	केरलएसवी सी /2962 / 04	कल्याण केरिल, पमपडी डाक, कोट्टायम—686502, केरल	बीवीएससीएंडएच/ केरयू/04	11.6.76

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
292	जगन्नाथ प्रसाद तिवारी, पुत्र श्री इंद्रजीत प्रसाद तिवारी	एमपीएसवी सी / 2229 / 04	जी-212, ब्लॉक कॉलोनी, सिधी, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	10.1.51
293	जगदीश चंद्र, पुत्र श्री हनुमान	राजएसवीसी / 3116 / 04	वेटरिनरी हॉस्पिटल, पल्लू हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 93	4.3.68
294	जगजीवन रेड्डी पी., पुत्र श्री रंगा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4149 / 04	क्यू-2-46, दामचा डाक, बिरकूर (एम), निजामाबाद जिला-503321, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 04	28.11.78
295	जगवीर सिंह कनेश, पुत्र स्व. श्री पावलिया कनेश	एमपीएसवी सी / 2206 / 04	ग्राम-मधालिया, डाक मेनपुर, तहसील अली राजपुर, जिला झबुआ, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	2.6.75
296	जैबी के., पुत्री श्री के. के. पैली	केरलएसवी सी / 2923 / 04	कलारीककल हाउस, किंडंगूर डाक, अंगामली, अर्नाकुलम - 683572, केरल	बीवीएससीएंडएच / केरयू / 04	27.5.81
297	जयदीप भदौरिया, पुत्र श्री उदय भान	राजएसवीसी / 3134 / 04	वी.एच. सैंदवा, थाना चौतान, बाडमेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / जीदीपीयूएंडटी / 99	12.4.74
298	जैमीन रानी के., पुत्री श्री टी.यू. कुमारन	केरलएसवी सी / 2943 / 04	थाचोलिल हाउस, वेंगोला डाक, पेरुम्बवूर, अर्नाकुलम - 683554	बीवीएससीएंडएच / केरयू / 04	28.5.78
299	जसबीर सिंह बेदी, पुत्र श्री प्रेम सिंह बेदी	हरिएसवीसी / 1840	गुरुद्वारे के निकट, सोहना जिला, गुडगांव, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 04	21.6.81
300	जसकरन सिंह, पुत्र श्री मनजीत सिंह	पंजाबएसवी सी / 2555 / 04	शिवालिक एन्कलेव, गली न. 2, चंडीगढ़ रोड, नवांशहर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 04	17.04.80
301	जसकरन सिंह, पुत्र श्री सुखदेव सिंह	पंजाबएसवी सी / 2551 / 04	ग्राम फागुवाला, तह. व जिला संगरूर, खलीफा बाग, गली न. 5, धुरी रोड, संगरूर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू / 04	16.10.80
302	जैसमीन थॉमस, पुत्री श्री पी.एम. थॉमस	केरलएसवी सी / 2939 / 04	पुथानापराकुन्नेल टीकोय डाक, कोट्टायम-686580	बीवीएससीएंडएच / केरयू / 04	16.2.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अहताएं	जन्मतिथि
303	जसवंत सिंह, पुत्र श्री आर.एल. फरोदा	राजएसवीसी /3181/04	ग्राम एवं डाक कात्यायनी मेर्ता कॉलोनी, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएयू/05	3.12.78
304	जतिन्द्र पाल सिंह चहल, पुत्र श्री दर्शन सिंह	पंजाबएसवी सी/2521/04	म.न. 350, गली न. 10, लिंक रोड, मुल्लनपुर भंडी, जिला लुधियाना	बीवीएससीएंडएच/पीएयू/04	23.07.81
305	जतिन्द्र पाल सिंह, पुत्र श्री अजीत सिंह	पंजाबएसवी सी/ 2547/04	म.न. 231, गुरु नानक बाग के सामने, जेल रोड, गुरदासपुर 143521	बीवीएससीएंडएच/पीएयू/04	22.03.81
306	जवाहर सिंह सागर, पुत्र श्री राम दयाल सागर	एमपीएसवी सी/2244/04	गौतम नगर, मुरार, ग्वालियर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/आईजीकेवीवी/03+04	12.7.76
307	जवाहर के., पुत्र श्री एस. कांडास्वामी	कर्लएसवी सी/2990/04	कन्नाथनम हाउस, कुम्बमेथु डाक, वन्दनमेडु, इडुक्की	बीवीएससीएंडएच/टीएनवीएसयू/04	12.1.78
308	जया किशोर एम, पुत्र श्री शिव रुद्रझयाह	एपीएसवीसी /4223/05	म.न. 13-5-530,टाटा नगर, सिटी वेट.हॉस्पि. के सामने, तिरुपति-517501,आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/एएनजीआरएयू/05	14.6.79
309	जयचंद्र के.सी., पुत्र श्री विकन्ना के.	कर्ना/3640 /	न. 151, दूसरा क्रॉस, यूएस लेआउट, आरएमवी दूसरी स्टेज, बंगलौर	बीवीएससीएंडएच/यूएसबंगलौर/04	10.5.81
310	जयकुमार एस., पुत्र श्री एस. सदानन्दनम	एपीएसवीसी /4288/05	संगम डेरी मिल्क चिलिंग सेंटर, गुरजला - 522415, गुंटूर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/टीएनवीएसयू/01	15.6.76
311	जयकुमार के., पुत्र श्री आर. गोपालाकृष्णा पिल्लै	कर्लएसवी सी/2927/04	कुम्पुजाथुपुथेन वीडु, मुथुपिलाक्कु(वेस्ट),पोरुआजी डाक, कोल्लम - 690520	बीवीएससीएंडएच/के.एयू/04	20.5.74
312	जिबि एम.जी., पुत्री श्री एम.आर. गोविंदन	कर्लएसवी सी/2940/04	मनालिकटिटल हाउस, केशवापडी, डाक ओलुर, पिन- 680306	बीवीएससीएंडएच/के.एयू/04	12.5.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
313	जीतेंद्र कुमार गीना, उत्र श्री सुखलाल	राजएसवीसी /3104 / 04	प्लॉट न. 29सी, विद्युत अभियंता कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/04	28.3.74
314	जीतेश कुमार तोशरी वाल, पुत्र श्री बजरंग लाल तोशरीवाल	एपीएसवीसी /4255 / 05	म.न. 14-4-364, मुल्तानीपुरा, बेगमबाजार, हैदराबाद - 12	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	9.5.81
315	जोन्नलगड़ा राम रेड्डी, पुत्र श्री यादगिरि रेड्डी	एपीएसवीसी /4247 / 05	म.न. 18-973, शिवाजी नगर, मिर्यलगुडा, नालगोड़ा जिला- 508207, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	15.6.79
316	जौहर सुल्ताना सी. एम., पुत्री श्री मौहम्मद वजीर	कर्ना / 3665 /	पुत्री श्री मौहम्मद वजीर, टीचर, साउथ एक्स., सी.एन. हल्ली, तुमकुर जिला 572214	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	30.5.82
317	जॉयसी गिल, पुत्री श्री जेम्स गिल	एमपीएसवी सी / 2266 / 04	एम.ई.एस.कॉलोनी, अम्बेडकर नगर, म्हज, इंदौर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेनकेवीवी / 03-04	2.7.81
318	जुगल कुमार गिरि, पुत्र श्री रणजीत सिंह गिरि	मेएसवीसी / 223 / 05	ग्राम गांधीपाड़ा, डाक गारोबाधा, पश्चिमी गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएच / सीएयू/05	2.5.78
319	ज्योति सुरेंद्रन, पुत्री श्री टी.ए. सुरेंद्रन	केरलएसवी सी / 2893 / 04	थोट्टीपुल्ली, म्युनिसिपल स्टाफ क्वा. के सामने, चिरुयाराम, थिसूर - 680026	बीवीएससीएंडएच / केरयू/04	5.7.79
320	ज्योति श्रीधरन, पुत्र श्री श्रीधरन के.के.	केरलएसवी सी / 2945 / 04	कुट्टाला हाउस, डाक वडानापल्ली, थिसूर- 680614	बीवीएससीएंडएच / केरयू/04	14.8.76
321	ज्योति अग्रवाल, पुत्री श्री ए.के. अग्रवाल	एमपीएसवी सी / 2202 / 04	सरस्वती स्कूल के निकट, कृष्णनगर, सतना, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेनकेवीवी / 03-04	16.4.79
322	के. प्रसाद, पुत्र श्री बाबू राव	एपीएसवीसी /4193 / 05	तमारकोल्लु, कैकलूर (एम), कृष्णा जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू/05	15.6.75
323	के. भार्गवी, पुत्री श्री एस. कृष्णास्वामी	पॉण्डीएसवी सी / 205 / 0	17, थरोपति अमान कोली स्ट्रीट, धर्मपुर, पॉण्डीचेरी-9 4	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 03	4.3.81

क्र.सं.	नाम	फंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अहंताएं	जन्मतिथि
324	के.सी. उमेश, पुत्र श्री चन्नाबासप्पा के.एस.	कर्ना / 3696 /	एस.बी.एस. कॉयर इंडस्ट्रीज, क्याथथनाहल्ली, आरसीकरे तालुक, हसन जिले	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	1.8.75
325	के. महेंद्रन, पुत्र श्री एम. करुणानिधि	पॉण्डीएसवी सी / 213 / 0 4	न. 25, विलियानूर रोड, मूलाकुलम, पॉण्डीचेरी -10	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 02	24.10.78
326	के. मुथुपंडियान, पुत्र श्री कार्थिकेय राजन	पॉण्डीएसवी सी / 226 / 0 4	40, कनिया कोली स्ट्रीट, बाहौर, पॉण्डीचेरी - 607402	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 03	7.2.81
327	के. नाचीमुथु, पुत्र श्री एन. कंडासामी	पॉण्डीएसवी सी / 221 / 0 4	26, I मेन रोड, कावेरी नगर, रेडियरपलायम, पॉण्डीचेरी -10	बीवीएससी / टीएनवीए एसयू / 91	16.6.67
328	के. पोरटीन, पुत्र श्री एम. कन्नन	पॉण्डीएसवी सी / 253 / 0 4	64, संजय गांधी नगर, वीओसी स्ट्रीट, पॉण्डीचेरी -13	बीवीएससीएंडएच / पीयू / 02	2.12.79
329	के. प्रभाकर राव, पुत्र श्री योहान	एपीएसवीसी / 4190 / 05	कोथाउपल्लापडु, नुज़ेळला (एम), गुटूर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू / 05	9.4.79
330	के. प्रीथा, पुत्री श्री कार्तिकेयन	पॉण्डीएसवी सी / 248 / 0 4	222, एलआईजी (एचबी), कुरुम्बापेट, पॉण्डीचेरी-9	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 03	9.11.81
331	के. राजेन्द्रन पिल्लै	केरलएसवी सी / 2992 / 04	बिंदु हाऊस, पुजावथ, घंगनाचेरी डाक, कोट्टायम - 686101	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 63	12.8.41
332	के. राजेश बाबू, पुत्र श्री गोपाल राव	एपीएसवीसी / 4164 / 04	म.न. 3-2-89, निम्बोली अड्डा, काचेगुडा, हैदराबाद- 500027	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू / 04	5.9.81
333	के. सविथा, पुत्री श्री बालप्पा	एपीएसवीसी / 4226 / 05	म.न. 8-1-67 / 2 / 1, विद्यानगर कॉलोनी, महबूबनगर-509002, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू / 05	6.8.78
334	के. थंगामणि, पुत्री श्री शी. काथिरवेली	पॉण्डीएसवी सी / 206 / 04	54, सुब्रामनी कोली स्ट्रीट, पेथुचेट्टीपेट, पॉण्डीचेरी -8	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 03	2.2.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
335	के.वी. सरिथा, पुत्री मि वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी, / 4238 / 05	द्वारा रतनाम मेडिकल्स, बाजार गली, पालमनेर, जिला चित्तूर—517408, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	15.8.80
336	के. वनिथा, पुत्री श्री कलियप्पन	पॉण्डीएसवी सी / 231 / 04	39, ए, गुङ्गू सलाई, सेंट मेरी, औलगरेट, पॉण्डीचेरी -10	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि / 03	15.6.80
337	कदम हेमचंद्रा हौसाजी, पुत्र श्री हौसाजी	एपीएसवीसी / 4145 / 04	ओम साई इंजी.वर्क्स, बसस्टैंड के सामने, भैंसा, आदिलाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/ एमएयू/77	2.7.71
338	कैलाश ठाकुर, पुत्र श्री राम चंदर	एचवीसी / 898 / 04	ग्राम एवं डाक अहाह—देवी, जिला हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके.एचपीकेवी / 04	16.8.81
339	ककानी विजय प्रकाश, पुत्र श्री वेंकटेश्वर राव	एपीएसवीसी / 4197 / 05	पीडब्ल्यूडी वर्कशॉप, सीता नगरम, गुंटूर जिला— 522501, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	13.10.00
340	काकू श्री देवी, पुत्री श्री रामइयाह	एपीएसवीसी / 4242 / 05	म.न. 18—1—3 / 8, रामचंद्र नगर, के.टी. रोड, तिरुपति —517501, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	28.8.77
341	कल्लेश डी.जे., पुत्र श्री जयप्पा डी.एस.	कर्ना / 3660 /	कल्लेश्वर नीलया, पंडाराहल्ली डाक, चित्रदुर्गा जिला	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर / 04	24.10.81
342	कल्याणी गिजुपल्ली, पुत्री श्री शोगिरि राव	एपीएसवीसी / 4274 / 05	गोपीनेनीपलेम, वास्तवई एम. कृष्णा जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	26.5.81
343	कल्याणी पुट्टी, पुत्री श्री सेश राव	एपीएसवीसी / 4209 / 05	म.न. 3—28—46 / 2, 5वी. लेन, बृदावन गार्डेस, गुंटूर —6, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	6.8.81
344	कमल सिंह, पुत्र श्री बी. लाल	एमपीएसवी सी / 2272 / 04	के.वी. न. 1, टीघर्स क्या. न. 6, शक्ति नगर, खालियर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेनकेवीवी / 03—04	27.3.77
345	कमल दीप, पुत्र श्री रमेश भनोट	हरिएसवीसी / 1839	म.न. 304, राम नगर, अम्बाला सिटी	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू / 04	25.2.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
346	कमल कुमार मौर्या, पुत्र श्री परशुराम	राजएसवीसी /3125/04	मौर्य भवन, फतहपुर रोड, वार्ड न. 43, सीकर, राजस्थान	बीबीएससीएंडएच/ जे.एल.एन.के.वी.वी./04	3.4.80
347	कमलनाथन पी., पुत्र श्री टी.जी. पेरुमल नायडू	एपीएसवीसी /4169/04	द्वारा शंकर नायडू, गुजालापल्ली, मापाशी डाक, वित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससी / टी.एन.वी.ए एसयू/02	10.11.76
348	कमलजीत देव बर्मा, पुत्र श्री क्षिरोद देव बर्मा	त्रिएसवीसी /158/04	ग्राम कैंता कोबरा पारा, डाक—वाखीनगर, थाना जिरानिया, त्रिपुरा पश्चिम	बीबीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस/0 4	2.6.78
349	कमलजीत सिंह, पुत्र श्री धरनजीत सिंह	पंजाबएसवी सी/2529/ 04	म.न. 223.9, न्यू सैनिक विहार, फजलपुर, मेरठ कैट	बीबीएससीएंडएच / पीएयू/02	15.05.77
350	कांताराजा सी., पुत्र श्री ओमकरप्पा चिंदेश	कर्ना/3678 /	थिंदेरा, बेलीगावी डाक, शिकारीपुरा तालुक, शिमोगा जिला— 577450	बीबीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर/04	22.7.81
351	कांतेपुडी अर्चना, पुत्री श्री के.एस. विजय कुमार	एपीएसवीसी /4227/05	म.न. 5-3-209, मिशन हॉस्पिटल रोड, खम्मम, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू/05	3.5.80
352	कपिल देव संत, पुत्र श्री एम.डी. संत	एमपीएसवी सी/2238/ 04	बी-4,सिविल लाइंस, कोटमा कोलरी, भालुमदा, जिला— अनूपपुर, (आ.प्र.)	बीबीएससीएंडएच / जे.एन.के.वी.वी./03-04	14.6.80
353	करनबीर सिंह दोसंझ, पुत्र श्री कुलबीर सिंह दोसंझ	पंजाबएसवी सी/2540/ 04	56—एसएफ, रणजीत एवेन्यू बी—ब्लॉक, अमृतसर — 143001	बीबीएससीएंडएच / पीएयू/04	15.08.80
354	करिकलान एस., पुत्र श्री जी.पी. सुबइयाह	एपीएसवीसी /4177/05	द्वारा:एम.रामाराव (रिटा.आरटी सी ड्राइवर),29/308,एनएसपी कनाल के निकट, कोठापेट, वीनूकोंडा 522647,गुट्टूर,आ.प्र.	बीबीएससी / टी.एन.वी.ए एसयू/2000	10.6.74
355	कथा कविता, पुत्री श्री मोहन राव	एपीएसवीसी /4213/05	क्षा. न. एसडी-533, जे.के. कॉलोनी, येलांडु खम्मम जिला— 507123, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू/05	1.4.79
356	कद्दा कनक स्वर्ण लता, पुत्री श्री सत्य नारायण	एपीएसवीसी /4275/05	प्लॉट न. 15, आर.के. नगर, बी.एस.ले.आउट एक्स.विशाखा पटणम—530013, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू/05	26.8.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
357	कदटा सतीश कुमार, पुत्र श्री विघ्नेश्वर राव	एपीएसवीसी / 4189 / 05	द्वारा: अलुरी कुमार बाबू कृष्णा मंदिर गली, पोस्ट ऑफिस के निकट, निदमनूर, विजयवाडा ग्रामीण(एम), कृष्णा जि., आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू / 05	4.4.80
358	कविता राजगोपाल, पुत्री श्री पी.एन. राजगोपालन आचारी	केरलएसवी सी / 2969 / 04	पुथान वीडु, पेरिंगारा डाक, थिरुवला, पथानमथिटा - 689108	बीबीएससीएंडएएच / कोएयू / 04	5.5.80
359	कीर्ति मीना, युवती श्री राम मीना	एपीएसवीसी / 4284 / 05	नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सौर्धम (एनआरसीआई), राजेंद्र नगर, हैदराबाद, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू / 05	25.12.81
360	खालिद अली नदाफ, पुत्र श्री मबुसाब नदाफ	कर्ना / 3595 /	एटी डाक सालापुर, रामदुर्ग तालुक, बेलगाम- 591123	बीबीएससीएंडएएच / यूएएसधारवाड / 04	22.7.81
361	खांडे राव आत्मा राव पाटिल	गुजरातएसवी सी / 2525 / 04	बडौदा डेरी बोदाली चिलिंग सेंटर, तालु, सांखेडा, जिला बडौदा, पिन- 391135	बीबीएससीएंडएएच / पीकेवी / 87	1.6.65
362	खातून अर्जुमा, पत्नी डॉ. आब्दुर रज़ाक बौद्धरी	असमएसवी सी / 2191 / 05	द्वारा मौह. जाकिर हुसैन, ग्राम काडामोनी पाथर, डाक जुरिया, जिला नागांव 785124	बीबीएससीएंडएएच / एएयू / 05	30.6.78
363	खौद मीनमी, पुत्र श्री घना कांता खौद	असमएसवी सी / 2200 / 05	साउथ हैबा गांव, ए.आर.बी. रोड, जिला-नागांव, पिन-782002, असम	बीबीएससीएंडएएच / एएयू / 05	18.12.90
364	किरन बाबू सेशा रेड्डी, पुत्र श्री एम. सेशा रेड्डी	एपीएसवीसी / 4254 / 05	फ्लैटन.501, राघवेंद्र रेजीडेंसी, विद्यानगर कॉलोनी, सैदाबाद, हैदराबाद-59, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू / 05	19.7.81
365	किरन माये मरदानी, पुत्री श्री भास्कर राव	एपीएसवीसी / 4237 / 05	म.न. 283-3-22 / 2, डॉ. संजीवा राव अस्पताल, आर. आर. पेट, इलुरु-2, प.गो. जिला -534002, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू / 05	8.7.80
366	किशोर मैथ्यू, पुत्र श्री मैथ्यूज थॉमस	केरलएसवी सी / 2890 / 04	पाडिन्जारे नेलुवेल हाउस, वझापारे डाक, रामनकरी, अलपुजाह-689600	बीबीएससीएंडएएच / कोएयू / 04	25.5.80

क्र. सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
367	कौडे महेंदर, पुत्र श्री मल्हयाह	एपीएसवीसी /4270 /05	म.न. टी1 /480, 8 इंकलाइव कॉलोनी, गोदावरी खानी, करीमनगर—505211, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू /05	27.1.76
368	कौशल किशोर गुप्ता, पुत्र श्री मोहन लाल	राजएसवीसी /3142 /04	सत्या मेडिकल स्टोर, के. पाटन, बूंदी, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू /05	13.7.79
369	कृष्ण गोपाल नामा, पुत्र श्री नरसिंग लाल	राजएसवीसी /3180 /04	म.न. 1 /144, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू /05	13.5.76
370	कृष्ण दास पी. पुत्र श्री के.के. पीथाम्बरन	केरलएसवी सी/2809 /04	परिकक्षनिथानम, पुथेनपुरायिल हाउस, डाक पेस्लवा, कुन्नापल्ली, कोट्टायम—686	बीवीएससीएंडएएच / के.एयू /04	5.6.79
371	कृष्ण कुमार गुप्ता, पुत्र श्री एस.के. गुप्ता	एमपीएसवी सी/2271 /04	ग्राम-सिध्धी, तहसील जयसिंह नगर, जिला शाहडोल.(म.प्र.)	बीवीएससीएंडएएच / जे.एन.के.वी.वी /03—04	5.11.79
372	कृष्ण मूर्ति दोषालापुडी, पुत्र श्री रामा स्वामी	एमपीएसवी सी/4165 /04	4209, ऋला टावर्स, हैदरनगर, कुकाटपल्ली, हैदरबाद—500072, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एपीएयू /66	2.8.43
373	कृष्ण मूर्ति पी., पुत्र श्री पापन्ना	कर्ना/3647 /	डाक मदाबल, तालुक मगडी, बंगलौर (ग्रामीण जिला)	बीवीएससीएंडएएच / यूएएसबंगलौर /04	25.8.80
374	कृष्ण प्रवीण वाई., पुत्र श्री नरसिंहा राव	एपीएसवीसी /4259 /05	रविनुथाला, कोरिसापडु, प्रकाशम जिला—523213, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू /05	4.8.80
375	कृष्ण गौडा सी.जे., जावारे गौडा	कर्ना/3673 /	घटेनाहल्ली, के.आर. पेट तालुक, सीलानेरे (एच), माण्ड्या जिला	बीवीएससीएंडएएच / यूएएसबंगलौर /04	20.6.80
376	कृष्णेन्दु सिन्हा, पुत्र श्री बिजोय लाल सिन्हा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3140 /04	डॉ. सचिन सेन रोड, डाक कृष्णानगर, जिला—नाडिया	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफएस /04	12.12.80
377	कृष्णविठि एम., पुत्री श्री चेन्ना रेड्डी	एपीएसवीसी /4224 /05	इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन, सिद्दावतम, कडपा जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू /05	14.7.80
378	कुमारभूषण, पुत्र श्री चेतन दास	हरिएसवीसी /1813	इंदरपुरी, गली न. 10, 18 /566, सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच / सीसीएसएचएयू /04	13.10.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
379	कुलदीप सिंह, पुत्र श्री एस. गुरचरन सिंह	राजएसवीसी /3167/04	31, उदय नगर बी, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएडएच / आरएयू/05	3.7.79
380	कुलदीप सिंह, पुत्र श्री एस. गुरचरन सिंह	हरिएसवीसी /1825	ग्राम एवं डाक नौच, जिला—कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएडएच / सीसीएसएचएयू/04	5.6.81
381	कुलकर्णी प्रसाद पुरुषोत्तम, पुत्र श्री पी. वाई. कुलकर्णी	एपीएसवीसी /4146/04	द्वारा: के.के. कमलनाथ, म.न. 9-8-3, मारुतिनगर, न्यू संतोष, नगर के सामने, चम्पापेट, आर. आर.जिला, हैदराबाद 500059	बीवीएससीएडएच / ऐमएयू/97	11.3.75
382	कुलविंदर सिंह, पुत्र श्री सुरजीत सिंह	पंजाबएसवी सी/2504/ 04	ग्राम घौसपुरा, डाक उमरपुरा, बटाला, गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएडएच / पीएयू/03	29.09.77
383	कुमार अमित, पुत्र श्री संतोष साहु	असमएसवी सी/2170/ 05	डाक—कार्रा, जिला—रांची, झारखण्ड, पिन—835209	बीवीएससीएडएच / एएयू/05	27.2.82
384	कुमारस्वामी, पुत्र श्री श्रीकांत स्वामी	कर्ना/3628 /	कमलानगर डाक, औरद (बी) तालुक, बिदर जिला— 585417	बीवीएससीएडएच / यूएसधारवाड/04	9.1.82
385	कुतल राँय, पुत्र श्री बीरेंद्र चंद्र राँय	डब्ल्यूबीएसवी सी/3139/ 04	के.वी. टीचर्स क्वार्टर्स, डाक नीलकुठी (बाबुरहाट), जिला—कृच्यबिहार	बीवीएससीएडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस/0 4	7.07.81
386	कुवर सिंह हयारिया, पुत्र श्री चंदन सिंह	एमपीएसवी सी/2213/ 04	ग्राम—जम्बूखेडा, डाक— उदयगढ़	बीवीएससीएडएच / जेएनकेवीवी/03—04	1.04.75
387	कुरुमूर्ति अथुकुरी, पुत्र श्री जामुलाइयाह	एपीएसवीसी /4211/05	द्वारा एन. संजीवा रेडी, म.न. 35-350/ए2/1, विकार सेक्शन, वैकटेश्वर नगर कॉलोनी, जगदगिरिगुट्टा	बीवीएससीएडएच / एएनजीआरएयू/05	1.6.77
388	कुजेम्मी विडियो, पुत्र श्री जाकुम्मी विडियो	एनएसवीसी /0199/	द्वारा ल्योसुयी विडियो, नागालैंड विधान सचिवालय, कोहिमा, नागालैंड	बीवीएससीएडएच / एएयू/05	8.8.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अंहताए	जन्मतिथि
389	लालमुआनकिमी, पुत्री श्री एल.सी. थांगा	मिजएसवीसी /152/05	बी/1, मैकडोनाल्ड हिल, जर्काउत, मिजोरम	बीवीएससीएंडएएच/सीएयू/05	8.9.78
390	लालजइडमी, पुत्री श्री पी.एस. छुआसा	मिजएसवीसी /148/04	कॉलेज— वैंग, डाक— सइहा, मिजोरम	बीवीएससीएंडएएच/सीएयू/04	9.4.79
391	लासना साहिब, पुत्री श्री ए.के. साहिब	केरलएसवी सी/2926 / 04	वालेया वीटिटल हाउस, एएस एमएम हाई स्कूल के सामने, अलालथूर डाक, पलक्कड—678541	बीवीएससीएंडएएच/केरू/04	15.9.79
392	लथामनी वी.एस., पुत्री श्री शेखरझयाह	कर्ना/3668 /	द्वारा बासवन्ना, ताराबेनाहल्ली, डाक जे.सी.पुरा, तालुक चिककनायकनहल्ली, तुमकुर जिला	बीवीएससीएंडएएच/यूएसबंगलौर/04	4.7.81
393	लेखा चाको के., पुत्री श्री के.पी. चाको	केरलएसवी सी/2913 / 04	केलमकुन्नेल हाउस, पांथीराकावा डाक, कोज़िकोड—673019	बीवीएससीएंडएएच/केरयू/04	12.5.80
394	लीश कुमार तेमरे, पुत्र श्री तिलक चंद तेमरे	एमपीएसवी सी/2193 / 04	प्रेम नगर वार्ड न. 26, बालाघाट, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएएच/जेएनकेवीवी/03+04	3.3.80
395	लिंगम बालास्वामी, पुत्र श्री एल. के. ओबन्ना	एपीएसवीसी /4261/05	म.न.2—7—8, डेनियलपुरम स्ट्रीट, अल्लागढ़डा, कुर्नूल जिला	बीवीएससीएंडएएच/एएनजीआरएयू/05	1.6.76
396	लोकेंद्र सिंह, पुत्र श्री त्रिलोक सिंह	एमपीएसवी सी/2256 / 04	डाक— तलकपुरा, वाया—ऊन, जिला— खारगोन, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएएच/जेएनकेवीवी/03+04	1.05.75
397	लौंगिंग पाले, पुत्री श्री होपफुल पोतेंग	मेघएसवीसी /224/05	द्वारा: श्रीमती टी.एल.पेलेइलौंग मिशन कम्पाउंड, जयन्तिया हिल्स, जि. मेघालय 793150	बीवीएससीएंडएएच/एएयू/05	17.1.81
398	लौरेंसो अल्विटा शार्मिला, पत्नी श्रीरोशेन जोसेफ सी.आर.	केरलएसवी सी/2993 / 04	2/3425—सी, बालिका सदानम रोड, सिविल स्टेशन, कालीकट— 676030	बीवीएससीएंडएएच/एमएरएंडएफरस्यू/97	9.3.71

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
399	एम. महतेश कदबगेरी, पुत्र श्री श्री मुनियप्पा	कर्ना/3620 /	नवानगर, हुनुगुंड, तालुक, बगलकोट जिला-5871148	बीवीएससीएंडएच/यूएसधारवाड/04	20.06.81
400	एम. सुधा माधुरी, पुत्री श्री एम.वी. सुबइयाह	एपीएसवीसी /4232/05	डी.न.16-3/688-ए, हरनाध पुरम-111 स्ट्रीट, साई बाबा रोड के निकट, नेल्लोर, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/एनजीआरएयू/05	23.8.79
401	एम.ए. सिवराजन, पुत्र श्री एम.डी. अन्नामलई	एपीएसवीसी /4180/05	द्वारा वी.के. बाबू, 28-153/1, 'सी' क्रॉस, रामनगर कॉलोनी, चिन्नूर -517001, आ.प्र.	बीवीएससी/टीएनवीए एसयू/2000	15.7.75
402	एम. गोपीनाथ, पुत्र श्री पी. मोहनदास	पॉण्डीएसवी सी/220/0 4	76, क्रॉस, एमओएच फारूक सलाई, एमएमजी नगर, कर्झकल - 609602	बीवीएससी/टीएनयू वएएस/93	26.6.70
403	एम.एच. सदाशिवइयाह, पुत्र श्री हनुमंथप्पा	कर्ना/3699 /	म.न.116/3, वेंकटेश्वरनीलया, विनायक एक्स., होसादुर्ग तालु, चित्रदुर्ग जिला 577524	बीवीएससीएंडएच/यूएसबगलौर/04	21.2.66
404	एम.आई. मनोज, पुत्र श्री इत्तिरा एम.एम.	केरलएसवी सी/2996 / 04	मादवन हाउस, गवर्नर. बॉयज स्कूल के निकट, ग्राउंड, डाक	बीवीएससीएंडएच/केरयू/04	30.5.75
405	एम.के. मुहम्मद असलम, पुत्र श्री काथेर	केरलएसवी सी/2997 / 04	मुंबक्कल हाउस मार्केट डाक, मुवटदुपुजा, अर्नाकुलम - 686673	बीवीएससीएंडएच/केरयू/04	28.1.78
406	एम.के. श्रीनाथ, पुत्र श्री किश्टइयाह	एपीएसवीसी /4231/05	म.न. 7-121, रुद्र कॉलोनी, शम्साबाद - 501218, आर.आर. जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/एनजीआरएयू/05	19.11.79
407	एम.एस. फिरोज मौहम्मद, पुत्र डॉ. एम. एम. शेख दावूद	पॉण्डीएसवी सी/207/0 4	13, मेन रोड, श्री रामनगर, अरियंकुपम, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/02	2.9.79
408	मछिया पदमावती, पुत्री श्री भागदत्ता देओरी	असमएसवी सी/2181 / 05	सोनापुर देओरी गांव, डाक फिलेबारी, लिा- तिनसुकिया	बीवीएससीएंडएच/एएयू/05	16.2.78
409	मधु प्रिया के., पुत्री श्री नरसिंहइयाह	एपीएसवीसी /4214/05	ई-7, 11 सीटी क्वार्ट्स, हब्सीगुडा, हैदराबाद-500007, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/एनजीआरएयू/05	18.1.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
410	मधुकर नामदेव गावली, पुत्र श्री नामदेव जी.	एपीएसवीसी /4207 /05	द्वारा टी.कांता राव, म.न. 3— 666 / 14, चंद्रगिरि कॉलोनी, श्रीगौरी एन्कलेव, साफिलगुडा, सकिंदराबाद—56, आ.प्र.	बीवीएससीएडएच/ एमएयू/ 95	11.7.72
411	मधुसूदन जे.आर., पुत्र श्री राजन्ना ,	एपीएसवीसी /4167 /04	11—72 / 41—बी, बाईपास रोड, बी. कोथाकोटा, चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएडएच/ यूएसबंगलौर/ 01	1.7.76
412	मधुसूदन के.सी., पुत्र श्री के.टी. चिक्कारंगइयाह	कर्ना /3638 /	कोरेयागलाहल्ली, हानेहिल्ली डाक, कोराटागेरे तालुक, तुमकुर जिला	बीवीएससीएडएच/ यूएसबंगलौर/ 04	19.2.81
413	महादेव भागवत गावली, पुत्र श्री भागवत बाबू	एपीएसवीसी /4200 /05	हैदराबाद रेस क्लब, मलकपेट, हैदराबाद, आ.प्र.	बीवीएससीएडएच/ एमएयू/ 98	1.6.75
414	महंतेश, पुत्र श्री मल्लनगौडा होसामनि	कर्ना /3619 /	एटी डाक बेनाकनाडोनी, हुनुगुंड तालुक, बगलकोट जिला— 587125	बीवीएससीएडएच/ यूएसधारवाड/ 04	22.07.81
415	महावीर इमागौडा नावर, पुत्र श्री मलगौडा	कर्ना /3687 /	येतीमुन्नोली डाक, हुक्करी तालुक, बेलगाम जिला	बीवीएससीएडएच/ यूएसबंगलौर/ 04	11.8.82
416	महावीर प्रसाद, पुत्र श्री लाल चंद	राजएसवीसी /3160 /04	ग्राम एवं डाक लूनावली ढांडी, तह. टिबी, हनमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएडएच/ आरएयू/ 06	10.4.80
417	महावीर प्रसाद मुश्यरिया, पुत्र श्री गिरराज	राजएसवीसी /3151 /04	ज्योति किरन स्टोर के सामने, खांडर, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएडएच/ आरएयू/ 06	17.5.77
418	महेश कुमार शर्मा, पुत्र श्री श्याम मूर	राजएसवीसी /3154 /04	77, शक्ति नगर, गोपाल पुरा बाई पास, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएडएच/ आरएयू/ 06	27.8.76
419	महेश, पुत्र श्री सुभाष बाबू	कर्ना /3616 /	साडा कॉलोनी, म.न. बी /2, टीबीपी, मुनीराबाद, कोप्पल जिला	बीवीएससीएडएच/ यूएसधारवाड/ 04	15.5.81
420	महेश वी., पुत्र श्री वीरन्ना जी.	कर्ना /3642 /	# 330, दसाराहल्ली, हेब्बल डाक, बंगलौर— 24	बीवीएससीएडएच/ यूएसबंगलौर/ 04	20.6.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	रैक्षणिक आहताएं	जननातिथि
421	मलता रेड्डी पी., पुत्र श्री वैंकट रेड्डी	एपीएसवीसी /4203 / 05	पैट्रोल बंक के निकट, गुरजला, गुंटूर ज़िला – 522415, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू / 05	3.7.81
422	मलप्पा केरुटागी, पुत्र श्री बालप्पा केरुटागी	कर्ना / 3614 /	एटी डाक दोनूर, बसावना, बागेवाडी तालुक, बीजापुर ज़िला	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	1.6.81
423	मल्लिकार्जुन पाटिल, पुत्र श्री बासवराजप्पा पाटिल	कर्ना / 3669 /	याराओना डाक, गंगावथी तालुक, कोप्पला ज़िला	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	5.6.73
424	मल्लिकार्जुन ए.आर, पुत्र श्री राजशेखरप्पा ए.एम.	कर्ना / 3639 /	अरेथोउलालू, भद्रावती तालुक, शिवमोगा ज़िला	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	20.2.82
425	मलसौम्मलुआंगिराल्ले, पुत्री श्री आर. जोरामथंगा	मिजएसवी सी / 151 / 0 5	म.न. बी / 1 / 10, बेथलेहम, डाक आइज़वाल, मिजोरम	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 05	23.11.80
426	मानस कमल रॉय, पुत्र स्व. श्री कामिनी कृष्णा रॉय	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3142 / 04	"चित्रकूट", फ्लैट न. 4, 50 / बी.पी.जी.एच.शान रोड, जादवपुर, कोलकाता-700	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 0 4	1.03.46
427	मानस कुमार पत्रा, पुत्र श्री बिमल पदा पत्रा	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3095 / 04	ग्राम एवं डाक— पक्सारा, ज़िला— बंकुरा, पिन— 722101	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 0 4	8.1.82
428	मानव गुलारिया, पुत्र श्री रंजीत सिंह	एव्हरीसी / 690 / 04	ग्राम: दरकाटी, थाना— जावाली, कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेरेचपीकैबी / 0 4	19.9.81
429	मांडा शमशा राव, पुत्र श्री विरुपल	एपीएसवीसी / 4174 / 04	म.न. 14, विवेकानंद नगर कॉलोनी, मेडिकल सोसायटी, कुककटपल्ली, हैदराबाद	बीवीएससी / एपीएयू / 70	1.6.54
430	मंगेश एन.एस., पुत्र श्री बी. सीनू नायडू	एपीएसवीसी / 4286 / 05	द्वारा मैनेजर, संगम डेरी मिल्क विलिंग सेंटर, नरसा राव पेट, गुंटूर ज़िला- 522	बीवीएससीएंडएच / टीएनवीएसयू / 01	27.8.76
431	मानिक दत्तात्रेय पाटिल	गोवाएसवीसी / 131	740-ए, टेक्सटाइल मिल के पीछे, रेलवे गेट के निकट, नेशनल सलसीट, गोवा 403709	बीवीएससीएंडएचएम एपुडएफएसयू / 04	

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हदारं	जन्मतिथि
432	मनिंदर सेंडी, पुत्र श्री उमिन्दर सांधे	पंजाबएसवी सी / 2565 / 04	म.न. बी—IX—328, गांधी गली, सुनाम, संगरुर 148028	बीवीएससीएंडएरच / यूएससधारवाड / 04	21.03.80
433	मनीष कुमार, पुत्र श्री जगदीश चंद्र गुप्ता	हरिएसवीसी / 1810	94, गुप्ता भवन, शिव वाटिका पार्क, सदूल शहर जिला, श्रीगंगानगर	बीवीएससीएंडएरच / आरएयू / 00	13.12.77
434	मनीष वशिष्ठ, पुत्र श्री राजएसवीसी श्री बजरंग लाल	राजस्थान / 3184 / 04	राधाकिशन पुरा, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएरच / आरएयू / 05	6.2.79
435	मनीष यादव, पुत्र श्री महाबीर सिंह	हरिएसवीसी / 1845	80 / 11 बी, शिवाजी पार्क, शांति नगर, हिसार	बीवीएससीएंडएरच / सीसीएसएचएयू / 04	2.2.81
436	मनजीत सिंह कटारिया, पुत्र श्री जे. आर. कटारिया	हरिएसवीसी / 1820	1539 / 21, चूनीपारा, सैनी गर्ल्स सीनियर स्कूल के निकट	बीवीएससीएंडएरच / सीसीएसएचएयू / 04	2.7.78
437	मजिंदर कौर, पुत्र श्री गुरनाम सिंह सिंह	पंजाबएसवी सी / 2533 / 04	ग्राम भौजपुर, जिला रोपड, तहसील खरार, म.न. 3563, संकटर 38—डी, चंडीगढ़	बीवीएससीएंडएरच / पीएयू / 04	20.03.81
438	मजूषा पी.एल., पत्नी श्री के. जयन	केरलएसवी सी / 2982 / 04	कोच्युकुन्नमपुरथ हाउस, कल्लारा (एस) डाक, कोट्टायम — 686611	बीवीएससीएंडएरच / कोएयू / 04	16.4.78
439	मजुलता पटेल, पुत्री श्री एम.आर. पटेल	एमपीएसवी सी / 2198 / 04	1, सरस्वती नगर, बरवाहा, जिला खारगोन, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएरच / जेएनकेवीवी / 03—04	16.09.80
440	मंजुनाथ बी, पुत्र श्री बायरा रेड्डी जी.	एफीएसवीसी / 4182 / 05	द्वारा डी.नारायण रेड्डी, 1—1189—88, एनजीओ कॉलोनी, काडिसी, अनंतपुर जिला	बीवीएससीएंडएरच / यूएसबंगलौर / 2000	20.7.76
441	मंजुनाथ के.एन., पुत्र श्री नान्जप्पा के.आर.	कर्ना / 3632	केटुमसेनाहल्ली, कड्डूर तालुक, चिक्कमगलूर जिला—577168	बीवीएससीएंडएरच / यूएसबंगलौर / 04	4.5.82
442	मंजूनाथ रेड्डी, पुत्र श्री बायप्पा जी ती.	कर्ना / 3672	विंगीमल्लु ग्राम, कडाडनामारी डाक, चिंतामणि तालुक, कोलार जिला—563102	बीवीएससीएंडएरच / यूएसबंगलौर / 04	9.6.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
443	मंजूषा ए., पुत्री श्री एम. प्रभाकर कुरुप	केरलएसवी सी/2971/ 04	आरामबाचलिल हाउस, पाठीरेकावा डाक, कोजीकोड - 673019	बीवीएससीएंडएएच/ केरयू/04	25.3.80
444	मंजूषा एम., पुत्री श्री एम. भास्करन	केरलएसवी सी/2919/ 04	गोकुलम्, मुथुकुट्टीपराम्पिल हाउस, वालामा डाक, माला थिसूर- 680736	बीवीएससीएंडएएच/ केरयू/04	26.9.79
445	मनोज कुमार मैती, पुत्र श्री रघुन कुमार मैती	डब्ल्यूबीएसवी सी/3084/ 04	ग्राम-सुल्तानपुर, डाक हाट सुल्तानपुर, जिला पश्चिम मेदिनीपुर, पिन-721149	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस/ 04	31.1.81
446	मनोज कुमार शर्मा, पुत्र श्री प्रभु दयाल शर्मा	एमपीएसवी सी/2184/ 04	ग्राम- शिकारपुरा, डाक- रारी, तहसील- मिहोना, जिला- मिड, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी/02-03	26.6.76
447	मनोज कुमार सोनी, पुत्र श्री राधे श्याम	राजएसवीसी /3179/04	डाक गाढीपुरा नागपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरयू/05	5.11.70
448	मनप्रीत सिंह, पुत्र श्री वीर सिंह	पंजाबएसवी सी/2500/ 04	427, कोट आत्मा राम, सुल्तानविंद रोड, अमृतसर	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/03	29.01.79
449	मेरी डेनिस मार्कस लिओ, पुत्र श्री मेरी जोसेफ लिओ	पॉण्डीएसवी सी/232/0 4	4, 11 क्रॉस, गांधीजी नगर, अरियकुप्पम, पॉण्डीचेरी -7 4	बीवीएससीएंडएएच / पॉण्डीविदि/03	29.6.82
450	मारजोरी दिमाची जी. मोमिन, पुत्री श्री गिथसन ए.	मेघएसवीसी /227/05	संगमा मोदीनगर तुरा, डाक अराईमाइल, मेघालय	बीवीएससीएंडएएच / एएयू/05	5.12.76
451	मारेड्डी कात्यायनी रेड्डी, पुत्री श्री प्रभाकर राव	एपीएसवीसी /4158/04	406, श्रीकृष्ण अपा,-ए, श्रीनगर कॉलोनी, रोड नं. 1, मोहन नगर, हैदराबाद 500035, अ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एपीएयू/98	24.2.74
452	मारुथि एस., पुत्र श्री टी. श्रीनिवासइयाह	कर्ना/3643 /	थोडेभावी रेलवे स्टेशन, गौरीबिदनूर तालुक, कोलार जिला	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर/04	1.6.82
453	मथापति संतोष सदा शिव, पुत्र श्री माता पति सदाशिव मलय	कर्ना/3581 /	शिवागंगा, सी.सी.बी. -46, महाद्वार रोड, 11 क्रॉस, बेलगाम - 590001	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर/04	14.3.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक आईताएं	जन्मतिथि
454	मयंक पटेल, पुत्र श्री राजेंद्र सिंह पटेल	एमपीएसवी सी / 2273 / 04	द्वारा श्रीमती रंजना पटेल, सिविल लाइंस, नरसिंघपुर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.के.वी.वी. / 03-04	26.9.80
455	मोह. सलेहीन, पुत्र मोह. बी. अली	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3121 / 04	ग्राम एवं डाक— मित्रपुर, जिला— बीरभूम, पिन- 731221	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	12.1.82
456	मोह. जियाउल हसन, पुत्र मोह. सेफुल हसन	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3135 / 04	ग्राम— होगलाबारी, डाक— कंकुरिया, जिला— मुशिदाबाद, पिन= 742202	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	5.08.81
457	बी. खनजीत कुमार, पुत्र श्री चंद्रशंख मेधी	असमएसवी सी / 2195 / 05	ग्राम एवं डाक—सारुपेटा, जिला— बारपेटा	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	21.1.76
458	बेंडिहरेनियन खांगोन, पुत्र श्री कुशारसिंह खांगरिमेह	सेंध्यएसवीसी / 226 / 05	द्वारा श्रीमती एस. खोंगरैन, थॉमसजोंस स्कूल ऑफ मिशन एंड इवांगोलिज्म एल. डब्ल्यू., चेरापूंजी	बीवीएससीएंडएच / एएयू / 05	12.9.80
459	बुक्क सारथ, पुत्र श्री कुदुम्ब राव	एपीएसवीसी / 4258 / 05	गुडीमडा डाक, तेनाली (एम), गुटूर जिला— 522307	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू / 05	27.1.79
460	निजो के.आर., पुत्री श्री के.के. शमनन	केरलएसवी सी / 2959 / 04	कुजीथारालेल, पुल्लड डाक, शिरूवला— 689548	बीवीएससीएंडएच / के.एयू / 04	16.9.79
461	निक्का धनंजय अप्पा राव, पुत्र श्री राम शोपाल अप्पा राव	एपीएसवीसी / 4271 / 05	20 / 174, तेलोप्रीलु एसडेढ बिलिङ, नुजविड= 521201, कृष्णा जिला	बीवीएससीएंडएच / बॉम्डीविडि / 04	6.9.80
462	नेनका शर्मा, पुत्र श्री के.एन. शर्मा	एमपीएसवी सी / 2191 / 04	द्वारा श्री मनोहरलाल अग्निहोत्री, म.न. 191, बृंदावन वार्ड, अहमदनगर, गोपालगंज, सागर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.के.वी.वी. / 03-04	10.6.78
463	निशेत्री सी / बहलासकिवी, पुत्री श्री क्षालेश्वरपिया	मिजएसवीसी / 147 / 04	सारोल वेंग, डाक आइचावाल, बिलोरम	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 04	3.1.80

क्र.सं.	नाम	घंडी, तं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
464	मिलिंद गोविंदराव गांधे, पुत्र श्री मलहारी राव	एपीएसवीसी /4187/05	म.न. 5-172, हनुमान कॉलोनी, कोइलकोडा, महबूबनगर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एमएयू/97	1.6.73
465	मिंगमा शेरिंग भूटिया, पुत्र श्री पेमा शेरिंग भूटिया	डब्ल्यूबीएसवी सी./3076/ 04	डी.बी.सी.सी. रोड, डाक कालिमपोंग, जिला— दार्जिलिंग, पिन-734301	बीवीएससीएंडएच/ डब्ल्यूबीयूएफएस/ 02-03	10.7.79
466	मौहम्मद बासिम खान, पुत्र श्री मौहम्मद जागीर खान	एमपीएसवी सी./2188/ 04	कुरुक्षेत्र, जिला— विदिशा, (म. प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ आईजीकेवीवी/ 02-03	19.3.77
467	मौहम्मद रजियुद्दीन, पुत्र श्री नसीरुद्दीन	एपीएसवीसी /4146/04	म.न. 2-1-214, एन.जी.ओ. कॉलोनी, जहीरबाद, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/ एमएयू/99	18.5.77
468	मोहन कुमार टी.आर., पुत्र श्री रामझयाह टी. आर.	कर्ना/3612 /	शिवानंद कॉलोनी, परमेश्वर तेल मिल के सामने, आरसी केरे तालुक, हसन जिला	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड/04	9.6.81
469	मोहन लाल मीना, पुत्र श्री खंगर लाल मीना	राजएसवीसी /3172/04	ग्राम अहमदपुरा चौक, हस्चंदेरा, टॉक, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	1.7.78
470	मोनालिसा गोस्वामी पिंगरोप, पुत्री श्री डी. सी. गोस्वामी	मेघएसवीसी /221/04	द्वारा के.एम. रॉय, अपर लाबान, शिलोंग - 793004	बीवीएससीएंडएसच/ एएयू/04	2.7.78
471	मोनिका गोयल, पुत्री डॉ. राजीव गोयल	एमपीएसवी सी./2234/ 04	द्वारा डॉ. राजेश गोयल, गोयल पिलानिक, नेहरू चार्क के निकट, नौरेना, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएसच/ जैएनकेवीसी/03-04	13.8.80
472	मोनिका कौर, सुनी श्री विजय कुमार	घंडाबेसवी सी./2541/ 04	21830, शिव चौहान गली, गली नं. 4, 100 फीट रोड, भाइंडा 151001	बीवीएससीएंडएसच/ वीएयू/05	27.08.82
473	मोही लाल, सुनी श्री हनुमान राम	राजएसवीसी /3147/04	राम हनुमन कॉलोनी, नवा सिंही, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएसच/ आरएयू/05	2.4.76
474	मुद्दे नागरमि, सुनी श्री एम. नारायण	एपीएसवीसी /4251/05	कृष्णहनुम कॉलोनी, राज चौमिश्र कॉलोनी के निकट, रावसोही, कल्पा जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएसच/ संस्कृतीकारएयू/05	21.4.80

क्र. सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
475	मुदोई अमृत ज्योति, पुत्र श्री चंद्र मुदोई	असमएसवी सी / 2165 / 05	मेलेंग लाखां गाँव, डाक बारखेलिथा, जोरहाट, असम	बीवीएससीएडएच/ एसयू/04	1.3.81
476	मुकेश गुप्ता, पुत्र श्री पिनोद कुमार गुप्ता	पंजाबएसवी सी / 2536 / 04	म.न. 10—सी, 5, शिवपुरी मौहल्ला, धुरी, जिला संगरुर	बीवीएससीएडएच/ पीएसयू/04	30.05.82
477	मुकेश कुमार पारती, पुत्र श्री राज कुमार परती	पंजाबएसवी सी / 2530 / 04	ग्राम एवं डाक रोरमाजारा, तहसील गढ़शंकर, जिला— होशियारपुर	बीवीएससीएडएच/ पीएसयू/03	05.11.78
478	मुना सिंह सेंगर, पुत्र श्री बीरबल सिंह सेंगर	एमपीएसवी सी / 2233 / 04	ग्राम एवं डाक माटोल, जिला— टीकमगढ़, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच/ जेएनकेबीवी/03—04	4.2.67
479	मुरुगनाथम पी., पुत्र श्री एम. पलानिअप्पम	एपीएसवीसी / 4287 / 05	डी.न.8—6—79 / 2, क्षेत्रीय पशु चिकित्सा अधिकारी, संगम डेरी, एनजीओ होम सेटर, सातेनापल्ली, गुंटूर जिला	बीवीएससीएडएच/ टीएनवीएसयू/01	7.5.78
480	मुरुगवेल वी., पुत्र श्री वीरास्वामी	एपीएसवीसी / 4178 / 05	द्वारा डी. नारायण रेड्डी, कमरा न. 1—1189—88, एनजी ओ कॉलोनी, कादिरी, अनंतपुर जिला 515591, आ.प्र.	बीवीएससी / टीएनवीए एसयू/2000	13.5.75
481	मुरुसेल्वी आर., पुत्र श्री ए. मुरुगन	एपीएसवीसी / 4186 / 05	द्वारा ओ.चित्ति बाबू सिंडिकेट वैकं के साथ, थांडा कांडुरिगा, थांडा (एम), नेल्लोर जिला	बीवीएससी / टीएनवीए एसयू/95	25.7.70
482	मैथिली वी.वी., पुत्री श्री वी. विजयन	केरलएसवी सी / 2021 / 04	ए—12, टी.सी.सी. मेन कॉलोनी, उद्योग मंडल, इलूर, अर्नाकुलम	बीवीएससीएडएच/ कोएसयू/04	10.8.79
483	एन. बाबू रामचंद्र, पुत्र श्री एन.के. रामचंद्र	एपीएसवीसी / 4241 / 05	9 / 107, गांधी रोड, वेमपल्ली, कडपा जिला— 516329, आ.प्र.	बीवीएससीएडएच/ एएनजीआरएसयू/05	8.4.80
484	एन. श्री रामचंद्र शास्त्री, पुत्र श्री एन. पलजलि शास्त्री	एपीएसवीसी / 4263 / 05	303, विनयनगर मेंशन, 9—21 —1 / 8, सी.बी.एम. कम्पाउंड, विशाखापट्टनम 500003, आ.प्र.	बीवीएससीएडएच / एपीएसयू/65	23.10.44

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
485	नविकेता भट्टाचार्य, पुत्र श्री अमरनाथ भट्टाचार्य	डब्ल्यूबीएसी / 3130 / 04	ग्राम एवं डाक मॉटेरवर, जिला बर्दवान, पिन- 713145	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएएफ एस / 04	5.08.80
486	नेमी चंद, पुत्र श्री राधे श्याम	पंजाबएसवी सी / 2578 / 04	ग्राम जजाऊ, डाक फतेहपुर सीकरी, जिला आगरा, उ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जीबीपीयूएंडटी / 99	15.04.75
487	नालती उमा कुमार, पुत्री श्री नागइयाह	एपीएसवीसी / 4142 / 04	द्वारा: मुदिगलिया कृष्णइयाह, आरटीसी कंडक्टर, रामालयम स्ट्रीट साथुपल्ली, खम्मम जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू / 04	15.4.78
488	नमिता भालेराव, पुत्री श्री आर.पी. भालेराव	एमपीएसवी सी / 2183 / 04	म.न. 413, संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	23.10.79
489	नानसिंह आखाडे, पुत्र श्री गोपाल सिंह अखाडे	एमपीएसवी सी / 2212 / 04	ग्राम— बकताला, डाक एवं थाना गंधंवानी, जिला— धार, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	12.6.75
490	नरसिंहा मूर्ति, पुत्र श्री गोविंदप्पा जी.के.	कर्ना / 3650 /	शाति नीलया, नागप्पा ब्लॉक, गौरीबिंदूर तालुक, कोलार जिला	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	10.3.82
491	नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री भगत राम	एचवीसी / 693 / 04	द्वारा श्री देवी राम वर्मा, ग्राम एवं डाक बसंतपुर, थाना सुनी, शिमला	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 04	14.10.76
492	नरेंद्र कुमार, पुत्र श्री पुरुषोत्तम	राजएसवीसी / 3156 / 04	पुरानी मंडी, हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	19.7.80
493	नरेंद्र लक्ष्मण राव वानश्वेते	गुजरातएसवी सी / 2527 / 03	बड़ौदा डेरी सावली सेंटर, ग्राम डाक सावली, गोकुल वाटिका, बी / 24, सावली जिला, बड़ौदा, पिन 391770	बीवीएससीएंडएच / पीकेवी / 89	30.9.63
494	नरेंद्र वर्मा, पुत्र डॉ. एच.डी. वर्मा	एमपीएसवी सी / 2270 / 04	कृष्ण पुरी, मुरार, गवालियर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	13.4.78
495	नटराजू एस.एन., पुत्र श्री मरियप्पा	कर्ना / 3652 /	सीमो कोटे, शिवनाहल्ली डाक, कनकपुरा डाक, कनकपुरा तालुक, बंगलौर जिला	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	18.5.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
496	नाथ मृदुल कुमार, पुत्र स्व. श्री महिन्द्र च नाथ	असमएसवी सी/2172/ 05	ग्राम –दक्षिण पेटबोरहा, जिला–नागांव, डाक उत्तर पेटबेरहा	बीवीएससीएडएच/ एएयू/05	1.12.79
497	नाथ मृनाल कुमार, पुत्र श्री चेनीराम नाथ	असमएसवी सी/2186/ 05	ग्राम कवाई मारी, डाक डालोंगघाट, जिला दारंग	बीवीएससीएडएच/ एएयू/05	20.8.80
498	नवदीप कौर, पुत्री श्री बलबीर सिंह	पंजाबएसवी सी/2507/ 04	ग्राम एवं डाक– कानेच, जिला– लुधियाना	बीवीएससीएडएच/ पीएयू/03	05.06.79
499	नवदीप कुमार, पुत्र श्री जगदीश कुमार	पंजाबएसवी सी/2569/ 04	म.न. 1221, गली न. 6, आहाता बदन सिंह, मोगा, पंजाब	बीवीएससीएडएच/ पीएयू/03	13.04.79
500	नवीन कुमार वी.एस., पुत्र श्री सानइयाह वी. एस.	कर्ना/3594 /	चेन्नांगई ग्राम, पोलीबेट्टा – 571215, विराज पेट तालुक, कुर्ग जिला	बीवीएससीएडएच/ यूएसधारवाड/04	17.12.80
501	नवीन एस., पुत्र श्री सुरेन्द्रन आर.	केरलएसवी सी/2929/ 04	पूरनामी हाउस, पाढुक्कड़, वियूर डाक, थिसूर–680010	बीघीएससीएडएच/ कोएयू/04	9.5.80
502	नवजोत कौर, पुत्री श्री अमरीक सिंह सोही	पंजाबएसवी सी/2543/ 04	73–बी, राजगुरु नगर, लुधियाना	बीघीएससीएडएच/ पीएयू/04	07.01.81
503	नवजोत सिंह, पुत्र श्री टेक सिंह	पंजाबएसवी सी/2511/ 04	ग्राम मालोमाज़रा, डाक पासियाना, तहसील एवं जिला पटियाला	बीघीएससीएडएच/ पीएयू/03	10.06.79
504	नवनीत शर्मा, पुत्र श्री एस.आर. शर्मा	एचवीसी/ 704/04	गवर्न. स्कूल के निकट, के. बी. धर्मशाला, कांगड़ा, हिम्प्र.	बीघीएससीएडएच/ सीएसकेएचपीकेसी/ 04	21.1.81
505	नवप्रीत कौर, पुत्री श्री हरमैल सिंह	पंजाबएसवी सी/2518/ 04	सरदार कॉलोनी, गली न. 5, संगरख, पंजाब	बीघीएससीएडएच/ सीसीएसएचएयू/04	26.09.80
506	नवप्रीत कौर, पुत्री श्री मुफ्तिन्द्र सिंह	पंजाबएसवी सी/2554/ 04	म.न. 1740, 32, सी- ।।, टेक कॉलोनी, हैबोवाल कलां, लुधियाना	बीघीएससीएडएच/ पीएयू/04	30.12.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक आर्हताएं	जन्मतिथि
507	नीरज कुमार, पुत्र श्री औचिंद राम	एचवीसी / 703 / 04	ग्राम एवं डाक—लेहका, थाना पालमपुर, जिला—कांगड़ा, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 04	4.6.82
508	नीरज शर्मा, पुत्र श्री विद्या सागर	एचवीसी / 688 / 04	ग्राम—गोगर, डाक—धुमहर, थाना आरकी, जिला—सोलन, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 04	2.5.80
509	नेलसन एम. मैथ्यू पुत्र श्री मैथ्यू जोसेफ	केरलएसवी सी / 2911 / 04	मापिला कुन्नेल हाउस, चिट्टाडी, डाक चोटटी, कोट्टायम — 686524	बीवीएससीएंडएच / केरयू / 04	7.3.80
510	नेसबालिन मारवीन, पुत्री श्री एच. बोलिन्दर रॉय	मेघएसवीसी / 229 / 05	लिंगडोह, लौगनाइत, द्वारा एच.बी. लिंगडोह मॉलाई, नॅगकवार, शिलौंग — 8	बीवीएससीएंडएच / एरयू / 05	16.1.78
511	निवाश देब बर्मा, पुत्र श्री नकुल देब बर्मा	त्रिएसवीसी / 157 / 04	द्वारा श्री एन.देब बर्मा, ग्राम मुखारी, डाक एवं थाना टकारजला, जिला—त्रिपुरा प.	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफएस / 04	21.4.79
512	निधि रावत, पुत्री श्री आर.एन. रावत	एमपीएसवी सी / 2257 / 04	टाइप एच—27 / बी, ईस्टर्न रेलवे कॉलोनी, बीना, जिला—सागर, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.के.वी.वी / 03—04	19.7.78
513	निधि सिंह, पुत्री श्री जगपाल सिंह	एमपीएसवी सी / 2208 / 04	02, कमला ग्राम, रसालपुरा, म्हज, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.के.वी.वी / 03—04	15.8.81
514	निरजन कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री ओम प्रकाश	राजएसवीसी / 3124 / 04	विनोद एजेंसी, व्यापार मंडल हॉस्पिटल, गगापुर सिटी, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / एमएएंडएफएसयू / 04	29.11.80
515	निर्मला जी.सी. पुत्री श्री जी.एम. चिनप्पा रेड्डी	कर्ना / 3666 /	गुम्मारेड्डीपुर, श्रीनिवासपुर तालुक, कोलार जिला	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	4.4.82
516	निशांथ एस., पुत्र श्री आर. ससिधरन	केरलएसवी सी / 2974 / 04	कृष्णा भवन, एस.आर.पी. मार्केट डाक, कोल्लम — 690539	बीवीएससीएंडएच / केरयू / 04	19.1.78
517	निशा चंद्रन, पत्नी श्री रिजुल राज	पॉण्डीएसवी सी / 252 / 04	श्री साइलाम, आर.सी. चर्च के निकट, माहे, पॉण्डीचेरी— 673310	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीचेरी / 04	26.10.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
518	निशांत कुमार ओझा, पुत्र श्री महेश कुमार	राजएसवीसी /3166/04	178 डी, न्यू रेलवे कॉलोनी, लालगढ़, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएडएच/ आरएयू/05	27.2.80
519	निथ्या विंटेल, पुत्री श्री विंटेल मोहनदासे	पॉण्डीएसवी सी/210/0 4	98, मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, बूमियनपेट, नेल्लीथोपे डाक, पॉण्डीचेरी—5	बीवीएससीएडएच/ पॉण्डीविवि/02	22.7.80
520	नितिन, पुत्र श्री कृष्ण दास	एसवीदी/ 706/04	ग्राम एवं डाक— दारी, थाना धरमसाला, जिला— कांगड़ा, हिं.प्र.	बीवीएससीएडएच/ सीएसके एचपीकेवी/ 04	25.4.77
521	ओ. श्रीनिवास राव, पुत्र श्री रामनहयाह	एपीएसवीसी /4262/05	17—552, राजक स्ट्रीट, नेल्लोर—1	बीवीएससीएडएच/ एएनजीआरएयू/05	26.8.73
522	ओलेकर जक्कीनरा हुसेन, पुत्र श्री अहमद शरीफसा के. ओलेकर	कर्ना/3697 /	डॉ. ओलेकर जक्कीनरा हुसेन, ए. ओलेकर, हिंगर, मुद्देविहाल, बीजापुर	बीवीएससीएडएच/ यूएसबंगलौर/04	22.7.81
523	ओम कुमार, पुत्र श्री रुल्दु राम	पंजाबएसवी सी/2556/ 04	म.न. 2844, मौहल्ला, मोहन नगर, भवानीगढ़, जिला— संगरुर 148026	बीवीएससीएडएच/ पीएयू/04	03.03.82
524	ओम प्रताप सिंह खुशवाहा, पुत्र श्री कृष्णपाल सिंह	एमपीएसवी सी/2259/ 04	वीरेंद्र नगर, ग्वालियर रोड, भिंड, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच/ जेएनकेवीवी/03—04	5.5.77
525	पी. रवीन्द्र रेड्डी, पुत्र श्री श्रीनिवास रेड्डी	एपीएसवीसी /4143/04	म.न. 5—11—1095/5, ईदगाह रोड, पोचम्भाकुटा, नईमनगर डाक, हनमकोडा	बीवीएससीएडएच/ एएनजीआरएयू/04	6.10.77
526	पी. श्रावंती, पुत्री श्री शिवानंद	एपीएसवीसी /4282/05	म.न. 8—6—243, पदमावती कॉलोनी, महबूबनगर — 509001, आ.प्र.	बीवीएससीएडएच/ एएनजीआरएयू/05	6.3.79
527	पी. आनंदन, पुत्र श्री वी.ए. पॉल	पॉण्डीएसवी सी/218/0 4	न. 3, कुलाथुमेडु स्ट्रीट, ग्राम थद्टनाचावडी, अरुमवर्ता पुरम डाक, पॉण्डीचेरी 605110	बीवीएससीएडएच/ पॉण्डीविवि/03	31.01.81
528	पी. अनुराधा, पुत्री श्री पुरुषोत्तमन	पॉण्डीएसवी सी/230/0 4	19, नेहरू स्ट्रीट, सेंधामराई नगर, मुथियलपेट, पॉण्डीचेरी—3	बीवीएससीएडएच/ पॉण्डीविवि/02	24.8.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
529	पी. बीशमी, पुत्री श्री टी. पांडियान	पॉण्डीएसवी सी/212/04	22, एमजीआर स्ट्रीट, राजीव गांधी नगर, पॉण्डीचेरी - 11	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/02	28.10.79
530	पी. चोलान, पुत्र श्री पान्नैर सेलवम	पॉण्डीएसवी सी/245/04	न. 28, 11 मेन रोड, नवशक्ति नगर, थट्टानचावडी, पॉण्डीचेरी -9	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/03	10.9.81
531	पी.के. कपूर, पुत्र श्री मुकुद मोहन	हरिएसवीसी /1853	प्रेम दीप, 59-ई, गली न. 11, जवाहर नगर, हिसार	बीवीएससीएंडएच/उदयपुर विवि/79	10.7.58
532	पी. माधुरी, पुत्री श्री रामाचंद्र रेड्डी	एपीएसवीसी /1444/04	12-5-32-12, साई मिर्जा अपार्टमेंट्स, विजयापुरी कॉलोनी, चेन्ना रेड्डी स्ट्रीट, तस्नाका, सिकंदराबाद	बीवीएससीएंडएच/एनजीआरएयू/04	10.8.80
533	पी. पदमप्रिया, पत्नी श्री बी. रुबाशांतन	केरलएसवी सी/2984/04	फ्लैट न. बी 30, शांतिनिकेतन अपार्ट., अन्ना नगर, मदुरई, तमिलनाडु	बीवीएससीएंडएच/केरयू/04	14.9.75
534	पी. पार्वदी देवी, पुत्री श्री पशुपति	पॉण्डीएसवी सी/229/04	न. 18, मथिम्मम कोइल स्ट्रीट, कुङुपलायम, पॉण्डीचेरी -9	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/02	12.2.79
535	पी.टी. चित्रा, पुत्री श्री पी. थंगरासु	पॉण्डीएसवी सी/218/04	न. 38, किलास स्ट्रीट, नेरावी डाक, कराईकल-609604	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/02	2.11.76
536	पी. विद्या, पुत्री श्री पन्नीर सेलवम	पॉण्डीएसवी सी/239/04	न. 11, सुब्बह्या नगर, चौथा क्रूस (मास होटल के पीछे), पॉण्डीचेरी -1	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/03	20.8.81
537	पल्लव घोष, पुत्र श्री अमित कुमार घोष	डब्ल्यूबीएसवी सी/3090/04	सर्वभंगोला पल्ली (एन), डाक एवं जिला मालदा, पिन-732101	बीवीएससीएंडएच/डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	12.12.80
538	पंडित अमर्येंद्र कुमार, पुत्र श्री महेंद्र पंडित	असमएसवी सी/2171/05	शास्त्री नगर, डाक मीनडीह, जिला धनबाद, राज्य झारखण्ड	बीवीएससीएंडएच/एयू/05	22.2.80

क्र.सं.	नाम	फैजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
५३९	पापा राव एम., पुत्र श्री गड्डेश्या	एपीएसवीसी / 4194 / 05	पोदुगुपड्डु, जारजांजी डाक, कोटाबोम्माले (एम.), श्रीकाकुलम जिला, 532095 आ.प्र.	बीवीएससीएडएच/ एनजीआरएयू/05	2.7.79
५४०	परमसिवन एम., पुत्र श्री मदास्वामी	एपीएसवीसी / 4245 / 05	द्वारा शेख मुज़ीर हुसैन, बी-14, एनएसपी कॉलोनी, वीनुकोंडा, गुंटूर जिला,आ.प्र.,	बीवीएससी / टीएन वीएसयू / 95	23.4.69
५४१	पारसप्पा तेले, पुत्र श्री श्रीशैल	कर्ना / 3613 /	पी.एस. तेले, हालींगली डाक, जामखंडी तालुक, बगलकोट जिला – 587327	बीवीएससीएडएच / यूएसधारवाड / 04	12.7.81
५४२	प्रमोद रथ, पुत्र श्री तरसेम लाल	पंजाबएसवी सी / 2503 / 04	204, गोबिंद पुरा, फगवाडा, जिला कपूरथला	बीवीएससीएडएच / पीएयू/03	15.06.78
५४३	पार्थ प्रतिम रे, पुत्र श्री मानिक च रे	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3122 / 04	एस.पी. मुखर्जी रोड, शिव मंदिर डाक, कदमताल,जिला –दार्जिलिंग, पिन-734433	बीवीएससीएडएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	17.8.81
५४४	प्रवेश कुमार, पुत्र श्री होशियार सिंह	एसवीसी / 701 / 04	ग्राम बाजुरी (खाला), डाक, तह. एवं जिला- हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएडएच / सीएसकेएचपीके वी / 04	8.1.80
५४५	पटेल हिमांशु रमनलाल	गुजरातएसवी सी / 2529 / 04	एटी डाक सबलपुर, तालुक वादनगर, जिला- मेहसाना (यू.जी.)	बीवीएससीएडएच / जीएयू/04	11.11.79
५४६	पाठक नबनीता, पुत्री श्री मोतीलाल पाठक	असमएसवी सी / 2177 / 05	गाधीनगर, बारपेटा, डाक एवं जिला- बारपेटा, पिन- 781301	बीवीएससीएडएच / एएयू/05	23.11.79
५४७	पाटिल नारायण राव शंकर राव	गुजरातएसवी सी / 2526 / 04	असि. मैनेजर (वेट.), दभोई, बड़ोदा डेरी	बीवीएससीएडएच / पीकेवी / 86	7.6.64
५४८	पठन दीवान रघुवंशी, पुत्र स्व. श्री शिवेंद्र सिंह रघुवंशी	एमपीएसवी सी / 2207 / 04	ग्राम- खराह, तहसील कोलारस, जिला- शिवपुरी, (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	2.2.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
549	पवन कूमार येंदुरी, पुत्र श्री चंद्रशेखर राव	एपीएसवीसी /4204/05	डी.न. 3-15-3/सी, फ्लैट न. 51, वैंकट बालाजी हाउस, पट्टाभीपुरम् । लाइन, गुंटूर- 522006, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	9.8.80
550	पवित्र पाल सिंह, पुत्र श्री तरसेम सिंह रंधावा	पंजाबएसवी सी/2571/ 04	92, गोल्डन एवेन्यू असूतसर 963, फेस -4, मोहाली	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	24.10.80
551	पवन कुमार, पुत्र श्री चंद्र भान	कर्ना/3683 /	सी.यू.पी.ए. वेट, हॉस्पिटल एंड शोल्टर, यू.ए.एस. कैम्पस, हेबल, बंगलौर- 24	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/ 2000	19.7.76
552	पवन कुमार, पुत्र श्री टेक चंद	हरिएसवीसी /1844	ग्राम एवं डाक बापोरा, जिला- भिवानी	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	4.4.80
553	पवनजीत सिंह चीमा, पुत्र श्री कश्मीर सिंह चीमा	पंजाबएसवी सी/2501/ 04	62, सुदर्शन पार्क, जालंधर 144002, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/03	30.11.78
554	पेट्याला विद्यासागर, पुत्र श्री श्रीनिवास राव	एपीएसवीसी /4202/05	चंदलूर डाक, पंगुलूर एम, प्रकासम जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	12.7.80
555	पेरियाह बालिलकुरु, पुत्र श्री अंजइयाह	एपीएसवीसी /4212/05	शांथनुथलापडु प्रकासम जिला- 523225, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	16.7.81
556	फनि माधुरी मुम्मा रेड्डी, पुत्री श्री वेंकट अप्पा राव	एपीएसवीसी /4208/05	येरनागुडेम, देवरापल्ली (एम), प.गो. जिला-534313, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	8.7.80
557	पूजा रायपुरिया, पुत्री श्री आर.डी. रायपुरिया	एमपीएसवी सी/2237/ 04	42, आनंद पुर, थाटीपुर बाजारिया, मुराम, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी/03-04	7.11.79
558	पोलसन जोसेफ, पुत्र श्री टी.के. जोसेफ	केरलएसवी सी/2958/ 04	थुरुथेल हाउस, कौलियाडी नेनमेनी डाक, सुत्थान बाथरी, वायनाड- 673592	बीवीएससीएंडएच/ के.एयू/04	16.11.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अहलाएं	जन्मतिथि
559	प्रभजोत कौर, पुत्री श्री हरपाल सिंह	पंजाबएसवी सी/2566/ 04	म.न.146,अर्जुन कॉलोनी, वार्ड न. 8, डीएची कॉलेज ग्राउंड के निकट, दसूया, जिला हाँसियारपुर 144205	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/01	03.05.77
560	प्रभजोत कौर सेखों, पुत्री श्री दलजीत सिंह सेखों	पंजाबएसवी सी/2517/ 04	कलकत्ता हाउस,ग्राम व डाक इसेवाल (मुल्तानपुर दाखा के निकट), जिला— लुधियाना	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/04	21.04.78
561	प्रवीर रौय, पुत्र श्री प्रोवाश रौय	डब्ल्यूबीएसवी सी/3103/ 04	पश्चिम इच्छापुर, नवपल्ली, बारासात, जिला 24 परगना (उ.), पिन- 700126	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	18.10.8
562	प्रदीप कुमार सिंघल, पुत्र श्री खेम चंद	राजएसवीसी /3196/05	शिव कॉलोनी, मंडावर रोड, माहवा, दौसा, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/05	5.2.80
563	प्रकाश, पुत्र श्री हनमतप्पा चूरी	कर्ना/3617 /	द्वारा एस.एस. हक्की (जूनियर असि. केपीटीसीएल), एटी डाक हनमसागर, कुश्तगी तालुक	बीवीएससीएंडएएच / यूएसधारवाड/04	25.8.79
564	प्रमोद जिंदल, पुत्र श्री हरिदत्त गुप्ता	राजएसवीसी /3173/04	71/109, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/05	25.8.79
565	प्रणय कुमार दास, पुत्र श्री प्रफुल दास	डब्ल्यूबीएसवी सी/3133/ 04	ग्राम पाशोया, डाक बातुन, जिला डी/दीनाजपुर	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	18.10.81
566	प्रणीत राज एन., पुत्र श्री पुन्य राज	एपीएसवीसी /4156/04	म.न. 350, एस.आर. नाइक नगर, आई.डी.ए. जीदीमेतला, हैदराबाद 500055,आधा प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू/04	28.11.78
567	प्रसाद बी., पुत्र श्री देवदानम	एपीएसवीसी /4218/05	म.न. 6-10-172, शिंगलागुंटा, तिरुपथि, चित्तूर जिला 517501, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एएनजीआरएयू/05	23.11.79
568	प्रसाद निंगप्पा दुरापनावर, पुत्र श्री निंगप्पा डोडप्पा दुर	कर्ना/3591 /	एटी डाक हुलीकटटी, बेलहोंगल तालुक	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर/04	28.4.82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
569	प्रसन्न कुमार पाटिल, पुत्र श्री कांडमने एस. जी.	पंजाबएसवी सी/2498/ 04	आई-299, बीआरएस नगर, लुधियाना	बीवीएससी/यूएस धारवाड/97	02.06.71
570	प्रथियूश पी.आर. पुत्र श्री सी. प्रथापचंद्रन	केरलएसवी सी/2903/ 04	थोपिल वीनू, थजासेरी लेन, पलकुलगारा, थिरुवनंतपुरम्, पिन-695024	बीवीएससीएंडएएच/ केरयू/04	29.5.78
571	प्रतुल भुनिया, पुत्र स्व. श्री मंटू चरन भुनिया	डब्ल्यूबीएसवी सी/3127/ 04	ग्राम फुलबारी, डाक सागर फुलबारी, थाना सागर, जिला -24 परगना(द),पिन 743373	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	15.7.80
572	प्रवीण कुमार चंदुपाटला, पुत्र श्री रामा मूर्ति चंदुपाटला	एपीएसवीसी /4249/05	द्वारा:डॉ. पवन कुमार, कम्प्यू प्रोग्रामर, क्या.न. बी-3/2, एनआईटी (आरईसी) क्या., खाजीपेट वारंगल	बीवीएससीएंडएएच/ एनजीआरएयू/05	18.3.77
573	प्रवीण कुमार, पुत्र श्री इंद्र कुमार	राजएसवीसी /3137/04	वार्ड न. 6, खटीकों का मौहल्ला, सुरजगढ़, झुञ्जनू राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/ आरएयू/05	30.1.79
574	प्रवीण रोहित, पुत्र श्री राजवीर एस.	हरिएसवीसी /1827	रामगली, गोनारा, सोनीपत्त	बीवीएससीएंडएएच/ सीसीएसएचएयू/04	9.10.78
575	प्रवीण टी., पुत्र श्री एम.जी. थंकप्पन	केरलएसवी सी/2922/ 04	“तपस्या” भैत्री नगर, वलियाविला, थिरुमला, डाक थिरुवनंतपुरम्,पिन 695,केरल	बीवीएससीएंडएएच/ केरयू/04	19.3.77
576	प्रवीण के.एन., पुत्र श्री नारोंद्रप्पा के.	कर्ना/3654 /	गीतांजलि, 614,तीसरी स्टेज, ।। मेन,छठा क्रोस, विनोबा नगर, शिमोगा, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसबंगलौर/04	1.6.82
577	प्रीथा मेनन के., पत्नी श्री विनोद पी. मेनन	केरलएसवी सी/2933/ 04	चैतन्या कार्लवीतिल हाउस, वरान्दारापल्ली डाक, थिसूर - 680303	बीवीएससीएंडएएच/ केरयू/04	16.4.81
578	प्रीथी मोल जोसेफ, पुत्री श्री पी.सी. जोसेफ	केरलएसवी सी/2930/ 04	प्लकापुथेन पुरायिल हाउस, मुथालाकोडम,डाक थोडुपुजा, इडुक्की - 685605	बीवीएससीएंडएएच/ केरयू/04	19.8.80
579	प्रेम कुमार, पुत्र श्री ए. रामप्पा	कर्ना/3637 /	मारुथी नगर, श्रीनिवासपुरा टाउन, कोलार जिला	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसबंगलौर/04	11.3.82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
580	पृथि सिंह, पुत्र श्री गोहन सिंह शेख	राजएसवीसी /3177 /04	ग्राम एवं डाक खेजरोली, तहसील- चोमु, जयपुर, राजस्थान	बीबीएससीएंडएएच/आरएयू/05	22.3.80
581	प्रिया गोस्वामी	गोवाएसवीसी /129	हीरा स्मृति, आल्टो टोरडा, पारवोरिम, गोवा - 403521	बीबीएससीएंडएएच/एमएएंडएफएसयू/04	
582	प्रोसुन बिस्वास, पुत्र श्री बलाई कुमार बिस्वास	डल्लूबीएसवीसी /3074 /04	गरपारा स्टेशन रोड, डाक जी.ओबरडांगा, जिला 24 परगना (उ.), पिन-743252	बीबीएससीएंडएएच/डल्लूबीयूएएफ एस/04	21.12.80
583	पुष्पकम आर.सुमनाथ कुमार, पुत्र श्री पी.एस. रामवेद्र राव नायडू	एपीएसवीसी /4162 /04	2 / 143, आईपीडी नगर, चिन्ना चौक, कडप्पा -516002	बीबीएससीएंडएएच/एनजीआरएयू/02	14.5.79
584	पूजा पटेल, पुत्री श्री मदन लाल पटेल	एमपीएसवीसी /2199 /04	जी-13 / 5, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल, म.प्र.	बीबीएससीएंडएएच/जेएनकेवीवी/03-04	28.12.76
585	पुजारासुरपा, पुत्र श्री पुजारा डोडा सुरपा	कर्ना /3679 /	रामदुर्ग डाक, कुडलिगी तालुक, बेलारी जिला	बीबीएससीएंडएएच/यूएएसबंगलौर/04	1.7.81
586	पुलामते डेविड मल सोमडेंगलियाना, पुत्र श्री जाहौल पुलामते	असमएसवीसी /2188 /05	इलेक्ट्रिक वैंग, हाफलौंग, एन.सी. हिल्स, असम	बीबीएससीएंडएएच/एएयू/05	12.5.78
587	पुनाती माधवी लता, पुत्री श्री वेंकट राव	एपीएसवीसी /4257 /05	रविनुथाला, कोरिसापुंडु (एम), प्रकासम जिला, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच/एनजीआरएयू/05	15.7.81
588	पूर्णिमा येजीपुरापडु, पुत्र श्री अप्पा राव	एपीएसवीसी /4235 /05	एलआईजी-5, ॲटोनगर, बीएचपीवी (डाक), विशाखा पटणम- 530012, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच/एनजीआरएयू/05	22.9.79
589	पुरोहित तेजेन्द्र जगदीश चंद्र	गुजरातएसवीसी /2524 /04	द्वारा नारनभाई पुरोहित, पम्बा हवेली, चोराडी गेट 5 भोज राज पारा, गोडल -360011	बीबीएससीएंडएएच/जीएयू/03	12.10.80
590	पुष्ण राजसिंह सिकर वर, पुत्र श्री जगदीश सिंह सिकरवर	एमपीएसवीसी /2186 /04	पैट्रोल पम्प के निकट, सबलगढ़, जिला- मौरैना, (म.प्र.)	बीबीएससीएंडएएच/आईजीकेवीवी/02-03	15.6.77
591	पामरेडडी आनंद रेड्डी, पुत्र श्री योगी रेड्डी	एपीएसवीसी /4173 /04	बी 4, क्रांति कॉम्प्लेक्स, बंसी लाल नगर, बडवेल, राजेंद्र नगर, हैदराबाद-30, आ.प्र.	बीबीएससी/एपीएयू/77	10.4.56

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
592	आर.जी. प्रकाश, पुत्र च. श्री मुनिदेव राव	कर्ना/3644 /	द्वारा एन.आर.जी. राव, 22, चदानीलया, 14ए'क्रॉस, 29 मेन,बीटीएम, । एस्टेज, बंगलौर	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबगलौर/04	27.11.77
593	आर. मेनका, पुत्री श्री एस.वी. रामासामी	राजएसवीसी /3110/04	299, हिम्मत नगर, टोक रोड, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससी / टीएन वीएसयू/00	9.5.76
594	आर. रवीन्द्रन, पुत्र श्री रामनाथन	पॉण्डीएसवी सी/243/0 4	न. 8, कावेरी स्ट्रीट, चल्लालार नगर, नैनारमंडपम, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि/01	13.11.78
595	आर. सदीश कुमार, पुत्र श्री राम कृष्णन	पॉण्डीएसवी सी/244/0 4	न. 6, रोजा स्ट्रीट, सोलाई नगर, मुथियलपेट, पॉण्डीचेरी -3	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि/03	17.5.82
596	आर. संथीकुमार, पुत्र श्री ए. राजभिनक्कम	पॉण्डीएसवी सी/215/0 4	न. 5, विनय नगर कोली स्ट्रीट, पेटटुचेटीपेट, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी-8	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि/02	27.9.80
597	आर. शीला, पुत्री श्री राजगोपाल	पॉण्डीएसवी सी/247/0 4	10 V क्रॉस स्ट्रीट, पुऱ्डु नगर, रेडियारपलायम, पॉण्डीचेरी-10	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि/03	19.10.80
598	आर. सुरेश, पुत्र श्री रामनाथन	पॉण्डीएसवी सी/249/0 4	12 मेन रोड, अन्नावसाल, नेङ्गाडु, कराईकल-3	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि/02	19.2.79
599	आर. ऊषा रानी, पुत्री श्री रथिनाम	पॉण्डीएसवी सी/236/0 4	न. 10, थिलयाडी वलियामझ स्ट्रीट,अशोक नगर, लॉसपेट, डाक-पॉण्डीचेरी-8	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि/03	5.7.82
600	रामा दिगंत, पुत्र श्री चंद्र कांत रामा	असमएसवी सी/2192/ 05	ग्राम फफाल, डाक दुधनोई, जिला—गोलपाडा, असम, पिन-783124	बीवीएससीएंडएच / एएयू/05	1.11.79
601	राघवेंद्र श्रीकांत, पुत्र श्री सुब्रमण्यम	एपीएसवीसी /4199/05	डी.न. 24-128,बालाजीनगर, गौशालागली के सामने, डाक सिम्हाचलम, विशाखापटणम 530018, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू/05	19.1.80
602	रहमान मुस्ताफिजुर, पुत्र मौह. मजीबर रहमान	असमएसवी सी/2185/ 05	ग्राम चलबांधा, डाक बरकंडा, जिला—धुबरी, असम	बीवीएससीएंडएच / एएयू/05	1.11.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
603	राहुल गोथावल, पुत्र श्री रामावतार	राजएसवीसी /3155 / 04	ए—18, महावीर नगर, टोक रोड, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	20.7.80
604	राहुल कुमार नेल्ली, पुत्र श्री वीरइयाह नायडू	एपीएसवीसी /4188 / 05	2—9ए—10, वैंकट नगर, काकीनाडा, -533003, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/05	23.11.79
605	राज कुमार गुप्ता, पुत्र श्री दया नंद गुप्ता	हरिएसवीसी /1842	म.न. 76 / 24, शिव नगर, सोनीपत्त	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/03	1.4.79
606	राज कुमार, पुत्र श्री जगमल सिंह	राजएसवीसी /3115 / 04	वेटेरिनी हॉस्पिटल, महाराजावास, थाना बेहोरे, अलवर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/97	14.10.71
607	राज सिंह, पुत्र श्री पाहप सिंह	राजएसवीसी /3112 / 04	ग्राम लुहाकना खुर्द, वाया भाबरू, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/97	7.12.69
608	राजागोपाल आर., पुत्र श्री एन. रामाचंद्रन पिल्लौ	केरलएसवी सी / 2901 / 04	श्रीविहार कीरीकड डाक, रामापुरम, अलपुजाह-- 690508	बीवीएससीएंडएच/ केएयू/04	28.5.80
609	राजलक्ष्मी राधाकृष्णन, पुत्री श्री सी.जी. राधाकृष्णन	केरलएसवी सी / 2994 / 04	इरियापराम्पिल हाउस, कडकारापल्ली डाक, चैरथला, अलपुजाह-688529	बीवीएससीएंडएच/ आईजीकेवीवी/04	6.9.80
610	राजाराम अहिरवार, पुत्र श्री के. अहिरवार	एमपीएसवी सी / 2214 / 04	ग्राम एव डाक गुनाल, जिल्ला— टीकमगढ, (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी/03—04	12.4.74
611	राजाशेखर डीबी, पुत्र श्री बासवराजप्पा डी.	कर्ना / 3609 /	गुडुमाघटटा (एनपी), भद्रावती तालुक, शिमोगा— 577243	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड/04	12.2.81
612	राजबीर कौर, पुत्री श्री सुखबीर सिंह	पंजाबएसवी सी / 2548 / 04	श्रीमती कश्मीर कौर (एन. एस.), सिविल हॉस्पिटल, दसूया, होशियारपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच / पीएयू/04	06.06.77
613	राजीव एन. कुलेर, पुत्र श्री नागप्पा एफ. कुलेर	कर्ना / 3600 /	एटी डाक होरोगोप्पा, बिलाहल्ली, रानेबेनूर तालुक, हावेरी जिला	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड/04	20.12.80
614	राजेंदर कुमार, पुत्र श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी /1819	ग्राम— रिसालिया, खेरे, जिला सिरसा, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	2.2.82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
615	राजेंद्र कुमार गुप्ता, पुत्र श्री धनश्याम दास गुप्ता	एमपीएसवी सी / 2242 / 04	ग्राम एवं डाक— बिघोड़ा मंडेर, जिला— दतिया, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	12.12.70
616	राजेंद्र कुमार भीना, पुत्र श्री छोटु राम	राजएसवीसी / 3165 / 04	ग्राम एवं डाक राहोली, तहसील नेवाई टोंक, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	7.6.78
617	राजेश धनखार, पुत्र श्री सुभाष चंद्र धनखार	हरिएसवीसी / 1848	860 / 34, विजय नगर, रेलवे रेशन के निकट, रोहतक	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 04	3.2.78
618	राजेश जंगा, पुत्र श्री सेवा सिंह	एचवीसी / 695 / 04	ग्राम एवं डाक— करौर, थाना नादौन, जिला — हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीके वी / 04	28.1.81
619	राजेश के. शर्मा, पुत्र श्री बी.बी. शर्मा	एचवीसी / 694 / 04	म.न. 32, गली न. 2, खन्ना नगर, जवालापर, हरदौर	बीवीएससीएंडएच / सीएसकेएचपीकेवी / 04	20.6.74
620	राजेश कुमार चौधरी, पुत्र श्री छोटा राम	राजएसवीसी / 3190 / 05	14, ग्रीन पार्क, सोफिया स्कूल के निकट, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	19.7.79
621	राजेश कुमार अग्रवाल, पुत्र श्री राधाकृष्ण	राजएसवीसी / 3140 / 04	ग्राम एवं डाक—बरनाला, थाना बामनवास, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच / आरएयू / 05	4.5.77
622	राजेश कुमार, पुत्र श्री सुंदर पाल	हरिएसवीसी / 1850	ग्राम सराका माजरा, डाक बावल, रिवाड़ी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 04	15.2.77
623	राजेश कुमार सिंह, पुत्र श्री बलबीर सिंह	हरिएसवीसी / 1808	ग्राम हाबतपुर, डाक निर्जेन, जिला जींद	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 03	15.4.80
624	राजेश सिंह, पुत्र श्री भगीरथ सिंह	एमपीएसवी सी / 2226 / 04	श्रीकृष्ण नगर, गली न. 5, बेरला नगर, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	1.8.79
625	राजी टी.ए., पुत्री श्री अनंत कृष्णन टी.जी.	केरलएसवी सी / 2920 / 04	ठेक्केमेपिल्ली हाउस, पेरिनचेरी डाक, थिसूर -680306, केरल	बीवीएससीएंडएच / केरयू / 04	25.2.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
626	राजिन्दर सिंह, पुत्र श्री गुरजंत सिंह	पंजाबएसवी सी / 2524 / 04	ग्राम एवं डाक बुत्तर, रानिया रोड के निकट, तहसील एवं जिला मोगा 142040, पंजाब	बीवीएससी/टीएन वीएसयू/04	02.04.80
627	राजीव कुमार, पुत्र श्री राज कपूर	पंजाबएसवी सी / 2532 / 04	म.न. 67, 2, धरमपुर कॉलोनी, बटाला, जिला गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएच/एसकेयूएसएंडए/04	08.09.80
628	रजनी गर्ग, पुत्री श्री प्यारा लाल गर्ग	पंजाबएसवी सी / 2531 / 04	1538, 1, गली न. 17, जनता नगर, लुधियाना	बीवीएससीएंडएच/पीएयू/04	24.09.80
629	रजनीश स्वामी, पुत्र श्री सुरेश चंद्र	एमपीएसवी सी / 2222 / 04	एन.आर.कॉन्वेंट स्कूल, पीपल वाली माता के मंदिर के निकट, वर्कशॉप वाली गली, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवीवी/03-04	01.01.78
630	राजपाल, पुत्र श्री रोहतास सिंह	हरिएसवीसी / 1837	ग्राम बड़कोडा, जिला-नारनौल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/सीसीएसएचएयू/04	15.2.80
631	राजू महादेवराव भुरभुदे, पुत्र श्री महादेव राव	एमपीएसवी सी / 2167 / 04	दामोना, तहसील भोसदेही, जिला-बेतुल, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/डॉ.पीआरडीके वीवी/97	15.2.68
632	राजू, पुत्र श्री निंगप्पा काम्बले	कर्ना / 3584 /	एटी डाक मंथल, बासवकल्याण तालुक, बिदर, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/यूएसधारवाड/04	5.6.81
633	राकेश कुमार बामनेले, पुत्र श्री एल.पी. बामनेले	एमपीएसवी सी / 2215 / 04	राजीव वार्ड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, नरसिंघपुर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवीवी/03-04	1.7.77
634	राकेश रंजन, पुत्र श्री नंद किशोर प्रसाद	पंजाबएसवी सी / 2577 / 05	विद्या विहार, जिला नालंदा, डाक नालंदा, बिहार 803111	बीवीएससीएंडएच/जीबीपीयूएंडटी/2000	09.03.7
635	राकेश रौय, पुत्र श्री ऋषिकेश रौय	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3136 / 04	ग्राम पार-पातिराम, डाक अतराई, जिला-डी/दीनाजपुर, प. बंगाल	बीवीएससीएंडएच/डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	16.10.81
636	राखी गांगिल, पुत्री श्री मुरारी लाल गांगिल	एमपीएसवी सी / 2228 / 04	मुरार, रवालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवीवी/03-04	20.12.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक आर्हताएं	जन्मतिथि
637	रामजी लाल मीना, पुत्र श्री भगवान सहाय	राजएसवीसी /3163/04	ए-297, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/ आरएयू/05	1.2.80
638	राम कुमार नीमा, पुत्र श्री रमेश कुमार मीना	एमपीएसवी सी/2192/ 04	817, गांधी चौक बाजार, राहेली, जिला सागर	बीवीएससीएंडएएच/ जेएनकेवीवी/03-04	11.9.79
639	राम प्रकाश कमल, पुत्र श्री विश्वन सिंह	एचवीसी/ 700/04	ग्राम— बारथी, थाना जवालामुखी, जिला— कांगड़ा, हिम्मतपुर	बीवीएससीएंडएएच/ सीएसकेएचपीक वी/04	6.9.80
640	राम स्वरूप मीना, पुत्र श्री लाटूर लाल	राजएसवीसी /3163/04	ग्राम—गुंडलाई, डाक मोखमपुरा, तह—छिपाबरोद, बारान, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/ आरएयू/05	21.7.75
641	रामकृष्ण रेड्डी के, पुत्र श्री पोली रेड्डी	एपीएसवीसी /4243/05	चिनाओबिनेनीपल्ली, बेस्तावारीपेटा (एम), प्रकासम जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/ एएनजीआरएयू/04	30.5.79
642	रामामोहन राव गाविनी, पुत्र श्री वेंकटेश्वरलु	एपीएसवीसी /4276/05	कोठापलेम, वेटापलेम, प्रकासम जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/ एएनजीआरएयू/05	29.8.78
643	रमन कुमार, पुत्र श्री जसवंत राय	पंजाबएसवी सी/2527/ 04	पीर बन्ना रोड, गली न. 4, सुनाम, संगरुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच/ पीएयू/04	12.10.81
644	रमनजीत कौर, पुत्री श्री नछार सिंह	पंजाबएसवी सी/2553/ 04	दशमेश नगर, गली न. 3, धुइलकोट रोड, अहमदगढ़, संगरुर, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच/ पीएयू/04	27.04.81
645	रामावतार सिंधल, पुत्र श्री गोपाल प्रसाद	राजएसवीसी /3136/04	महावीर प्रसाद सिंधल तेल मिल्स, सैनपाउ रोड, बड़ी धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/ आरएयू/05	10.7.77
646	रामावतार गोयल, पुत्र श्री बजरंग लाल	राजएसवीसी /3128/04	बी.आर. रेडीमेड सेंटर, वाजीपुर, थाना गंगापुर सिटी, सवाईमाधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/ एमएएडएफएसयू/04	2.9.80
647	रामबीर सिंह ठाकेन, पुत्र श्री राम चंदर	हरिएसवीसी /1826	ग्राम एवं डाक मंधाना, जिला— भिवानी, हरियाणा	बीवीएससीएंडएएच/ सीसीएसएचएयू/04	5.11.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
648	रामचंद्र सोनी, पुत्र श्री जगदीश चंद्र	राजएसवीसी /3176/04	सोनी मेंशन, विश्वकर्मा मंदिर के पीछे, हनुमानगढ़ शहर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/आरएयू/05	7.5.78
649	रमेश ए., पुत्र श्री अंजनप्पा	कर्ना/3670	खाजीहोसाहल्ली, कटिटगाना हल्ली डाक, होसाकोटे तालु, बंगलौर ग्रामीण जिला	बीवीएससीएंडएएच/यूएसबंगलौर/04	24.5.80
650	रमेश सी., पुत्र श्री शंद्रराशेखरप्पा	कर्ना/3585 /	मालेशंकर नीलया, बी.एच. रोड, अयानुर, शिमोगा- 577211	बीवीएससीएंडएएच/यूएसधारवाड/04	1.6.80
651	रामू बागडी, पुत्र श्री अप्पा राव	एपीएसवीसी /4191/05	तिरलंडी, सीथापुरम (डाक), टेक्काली (एम), श्रीकाकुलम जिला- 532201, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/एनजीआरएयू/05	10.3.79
652	राना राज वी.आर., पुत्र श्री वी. राजन	केरलएसवी सी/2981/04	टी.सी. 26/276, श्रीवालसम, वाचियूर डाक, त्रिवेदम- 695035, केरल	बीवीएससीएंडएएच/केरयू/04	20.5.80
653	रणधीर सिंह स्वामी, पुत्र श्री दया	राजएसवीसी /3130/04	प्लॉट न. 1, सेक्टर 12/1, हनुमानगढ़, जून, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/आरएयू/93	6.3.80
654	रंगमाथप्पा, पुत्र श्री करियप्पा	कर्ना/3671 /	मुगनाहल्ली (ग्राम), गुलीगेना हल्ली डाक, सीरा तालुक, तुमकुर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच/यूएसबंगलौर/04	15.6.79
655	रानीमोल एंटोनी, पुत्री श्री वी.वी. एंटोनी	केरलएसवी सी/2973/04	वलाभंगलम हाउस, कलाथु काडव डाक, इराटुपेटा, कोट्टायम-686579	बीवीएससीएंडएएच/केरयू/04	18.5.80
656	रंजिनी चंद्रन के., पुत्र श्री के. चंद्रन	केरलएसवी सी/2891/04	कुन्थ माना श्रेयस नगर, ओइलुकारा डाक, थिसूर - 680655	बीवीएससीएंडएएच/केरयू/04	4.3.80
657	रणजीत सिंह जादोन, पुत्र श्री राम सिंह जादोन	हरिएसवीसी /1804	92, गवर्न. कर्मचारी कॉलोनी, नारनौल, केरल	बीवीएससीएंडएएच/पीएयू/03	15.11.74
658	रणजीत मोहन एम., पुत्र श्री पी.के. मोहनन	केरलएसवी सी/2928/04	प्रयाग, कैथाचल रोड, कोलाजी डाक, थिसूर - 680010, केरल	बीवीएससीएंडएएच/केरयू/04	10.4.78

क्र.सं	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
659	रणजीत रामनाथान, पुन् डॉ. ओ.ए. रामनाथन	केरलएसवी सी/2910/ 04	श्रीनगर, वेस्ट फोर्ट, थिसूर — 680004, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरयू/04	24.5.79
660	रनजीथ डी., पुत्र श्री दामोदर	कर्ना/3651 /	द्वारा एस. विजय, अन्नपूर्णा चावल भिल के निकट, हुलियार रोड, चित्रदुर्गा जिला	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर/04	10.7.81
661	रनजीता तिवारी, पुत्र श्री सुमाष प्रसाद	एपीएसवीसी /4184/05	म.न. 9-1-43/7, लंगर हाउस, हैदराबाद— 500008, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एनजीआरएयू/99	21.2.77
662	रसीना करीम, पुत्री श्री अब्दुल करीम	केरलएसवी सी/2936/ 04	अरककापरम्पिल हाउस, गुरु आईटीसी के निकट, वेंगलोर डाक, थोडुपुजा, इडुक्की 685580	बीवीएससीएंडएएच / केरयू/04	29.4.80
663	राठौड़ शिवराज नाइक, पुत्र श्री पुरुषिंह	कर्ना/3624 /	आर/ओ, गोविंद नाइक, येलाममडागी डाक, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / यूएसधारवाड/04	28.4.81
664	रवि कुमार वर्मा, पुत्र श्री बी.एन. वर्मा	एमपीएसवी सी/2194/ 04	पांडे टोला, पुरानी कोतवाली के निकट, तहसील नागोड़, जिला सतना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी/03-04	1.03.79
665	रवि के.बी., पुत्र श्री बोरइयाह के.	कर्ना/3677 /	काढीगेरे ग्राम एवं डाक, मांड्या तालुक एवं जिला— 571429, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर/04	25.9.79
666	रवनीत सिंह, पुत्र श्री गुरनेम सिंह	पंजाबएसवी सी/2505/ 04	म.न. 75314, गुरुनानक पार्क के सामने वाली गली, रुबी हाउस, जेल रोड, गुरदासपुर	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/03	22.03.79
667	रेखा यादव, पुत्री श्री गंगाधर यादव	कर्ना/3694 /	म.न. 1/55, “गोकुल”, राजीव नगर, ब्रह्मावर, उडुपी जिला	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर/04	8.8.81
668	रेखा एम.टी., पुत्री श्री थिम्मेगौडा	कर्ना/3664 /	बी-ब्लॉक, के.ई.बी. के निकट, के.आर. नगर, मैसूर	बीवीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर/04	1.3.82
669	रेनोलसन कुंजुमोन नेतुवेली	केरलएसवी सी/2931/ 04	नेलुवेली हाउस, थियोडिकल, डाक रैनी, पथानमथिटा— 689613, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरयू/04	28.3.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अहंताएं	जन्मतिथि
670	रेनू पुत्री श्री धर्म पाल	हरिएसवीसी / 1817	2376, अर्बन एस्टेट, जीद, हरियाणा	बीबीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 04	14.6.80
671	रेनू जोसेफ, पत्नी डॉ. डेविस मलाकल	केरलएसवी सी / 2895 / 04	थाकिडीपुरथ हाउस, मेहकड डाक, करियाड अंगामाली, अर्नाकुलम— 683589, केरल	बीबीएससीएंडएच / केरयू / 04	1.5.80
672	रेनुका देवी एस., पुत्री श्री कोटेश्वर राव	एपीएसवीसी / 4256 / 05	पाथुर, डी.न. 2-2-1, नरसारावपेट, गुंटूर जिला —522601, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएच / एनजीआरएयू / 05	15.6.81
673	रेशमी आर.एस., पुत्री श्री सी. राजशेखरन पिल्लै	केरलएसवी सी / 2961 / 04	वालिया विला—रागम, भारानी कावू मंदिर के निकट, डाक पुनालूर कोल्लम 691305	बीबीएससीएंडएच / केरयू / 04	1.6.80
674	रिजुस्मिता सर्मा डेका, पुत्री श्री मित्र देव	राजएसवीसी / 3109 / 04	15 / 180, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान	बीबीएससीएंडएच / एएयू / 98	1.4.74
675	रिकेश कुमार वर्मा, पुत्र श्री अमोलक चंद वर्मा	एमपीएसवी सी / 2219 / 04	30, हाट की चौकी, गली न. 2, रतलाम, म.प्र.	बीबीएससीएंडएच / जेनकेवीवी / 03-04	1.5.79
676	रिनमुआनपुली, पुत्री श्री रिजावन	मिजएसवीसी / 153 / 05	बी / 49, मिशन वेंग, डाक आइज़वाल, मिजोरम	बीबीएससीएंडएच / सीएयू / 05	28.8.78
677	रितु अरोड़ा, पुत्री श्री रेशम लाल ग्रोवर	पंजाबएसवी सी / 2542 / 04	म.न. 149, फेस-2, पार्ट 2, मॉडल टाउन, भटिंडा 151001	बीबीएससीएंडएच / पीएयू / 04	27.03.81
678	रितु चौहान, पुत्री श्री राज कुमार	हरिएसवीसी / 1831	क्वान. 223 / 1, रेलवे कॉलोनी, जीद, हरियाणा	बीबीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू / 04	9.8.80
679	रितुपर्णा बेनर्जी, पुत्री श्री प्रबीर बैनर्जी	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3111 / 04	पाकुरताला, डाक रघुनाथगंज, जिला मुरिदाबाद, प.बंगाल	बीबीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	18.2.81
680	रितविक प्रधान, पुत्र स्व. श्री नित्यानंद प्रधान	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3093 / 04	ग्राम सरिया, डाक रायपुर, थाना कौटाई, जिला मेदिनीपुर (पुरबा), पिन— 721401	बीबीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	2.1.82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
681	रोहित कुमार, पुत्र श्री प्रमोद कुमार	एचवीसी/66 4/04	ग्राम एवं डाक किलबा, थाना शांगला, जिला— किन्नौर, हिं.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ सीएसके एचपीक वी/04	6.1.79
682	रोज थॉमस कोट्टा कायम, पुत्री श्री थॉमस जोसफ कोट्टाकायम	केरलएसवी सी/2978/ 04	कट्टाकायम हाउस, पावर हाउस रोड, पलारीवट्टोप, कोची— 682025	बीवीएससीएंडएच/ केरयू/04	7.9.78
683	रुमा मुखर्जी, पुत्र श्री मलय मुखर्जी	डब्ल्यूबीएसवी सी/3104/ 04	कनकशाली मंदिताला डाक— चिनसुरथ, जिला— हुगली	बीवीएससीएंडएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	28.12.80
684	रुपिन्द्र कौर, पुत्री श्री सीतल राम	पंजाबएसवी सी/2538/ 04	मोहाली प्रेमपुरा (शिवपुरी रोड), फगवाड़ा जिला, कपूरिला— 144401	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	26.10.80
685	एस. लिंगराजन्ना, पुत्र श्री एन. सिद्धपा	कर्ना/3577 /	वेटेरिनरी ऑफिसर, रामागिरि, चित्रदुर्गा जिला	बीवीएससी/यूएस बंगलौर/83	1.10.55
686	एस. आनंद, पुत्र श्री शानमुगराजा गुरुनाथन	पॉण्डीएसवी सी/250/0 4	न. 15, मेन रोड, वडामट्टम, कोट्टूचेरी डाक, कराइकल— 9	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि/03	25.9.81
687	एस. अनीथा, पुत्री श्री संगरन	पॉण्डीएसवी सी/235/0 4	न. 78, स्वामीपिल्लै गार्डन, लॉसपेट डाक, पॉण्डीचेरी —8	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीएसवीसी/03	26.8.80
688	एस.बी. पुरुषोत्तम, पुत्र श्री बोरालिंगइयाह	कर्ना/3613 /	गार्डन हाउस, थोंगनाहल्ली, जी. होसाहल्ली डाक, गुब्बी तालुक, तुमकुर जिला	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	22.11.81
689	एस. गिड्डी लोकेश, पुत्र श्री हरि राव	पॉण्डीएसवी सी/242/0 4	डी. न. 1-284, अम्बेडकर नगर, यनम— 533464, पॉण्डीचेरी	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि/03	30.8.80
690	एस. लक्ष्मी, पुत्री श्री सुब्रामनि	पॉण्डीएसवी सी/238/0 4	न. 33, गौबर्ट स्ट्रीट, राजीव गांधी नगर, पॉण्डीचेरी -11	बीवीएससीएंडएच/ पॉण्डीविवि/03	16.4.80
691	एस. लक्ष्मा राव, पुत्र श्री मलका रेड्डी	एपीएसवीसी /4159/04	म.न. 6-83, मलथुमेडा, नागी रेड्डीपेट (एम), निजामाबाद जिला—503108, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/ एएनजीआरएयू/04	2.8.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
692	एस. नंदकुमारवेल, पुत्र श्री ई. शिवामनि रंगनाथन	पॉण्डीएसवी सी/219/0 4	18, सिटी गार्डन, ईडियारपलायम, पॉण्डीचेरी —7	बीवीएससीएंडएएच / पॉण्डीविवि/03	12.10.80
693	एस. नेहा, पुत्र डॉ. एस. गनपत राव	एपीएसवीसी /4160/04	प्लॉट न. 163, कैलास नगर, आदिलाबाद— 504001, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू/04	19.6.81
694	एस.पी. विनिल, पुत्र श्री एच. सामराज	केरलएसवी सी/2999/ 04	मिराश भवन, पदमाशी कावाला, पट्टनकड डाक, अलपुजाह— 688531	बीवीएससी/ठीएन वीएसयू/00	6.6.76
695	एस. सम्पत्कुमार, पुत्र श्री आर. सेयालू	पॉण्डीएसवी सी/217/0 4	11, मरियम्म कोइल स्ट्रीट, पुथुपेट, पॉण्डीचेरी —8	बीवीएससीएंडएएच / पॉण्डीविवि/04	23.9.77
696	एस. सरला देवी, पुत्री श्री आर. सत्यनारायण	पॉण्डीएसवी सी/251/0 4	न. 4, पारी स्ट्रीट, आनंद नगर, काडिरकम्म, पॉण्डीचेरी— 9	बीवीएससी/ठीएन वीएसयू/96	4.3.73
697	एस. उदयानन, पुत्र श्री शंकर	पॉण्डीएसवी सी/241/0 4	35, विनय नगर कोइल स्ट्रीट, शानमुगापुरम, पॉण्डीचेरी —9	बीवीएससीएंडएएच / पॉण्डीविवि/04	24.10.80
698	साबरीनाथ टी., पुत्र श्री के. थंकप्पन	केरलएसवी सी/2887/ 04	टी.सी.12/1365, म.न.14(ए), थोपिल नगर, कुमारापुरम, मेडिकल कॉलेज के निकट, थिरुवनंतपुरम	बीवीएससीएंडएएच / केरयू/04	27.3.80
699	साबू एम.यू., पुत्र श्री उलाहन्नान एम.यू.	केरलएसवी सी/2977/ 04	मवियालिल हाउस, मेडपम डाक, चित्तारीकल, कासरगोड — 671326, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरयू/04	5.3.77
700	सहदेव राम घोधरी, पुत्र श्री मांगी लाल	राजएसवीसी /3148/04	ग्राम एवं डाक उबासी, वाया तरनव, नागौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/05	1.8.77
701	सैकत बोलियार, पुत्र श्री पन्नालाल बोलियार	डब्ल्यूबीएसवी सी/3101/ 04	ग्राम माजिलपुर, डाक जॉय नगर, माजिलपुर, जिला—24 परगना (द.), पिन—743337	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	2.5.81
702	सैकत सामंता, पुत्र श्री भूदेव च. सामंता	डब्ल्यूबीएसवी सी/3113/ 04	ग्राम एवं डाक— चम्पाडांगा, जिला— हुगली, पिन— 712401, प. बगाल	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	2.10.81

क्र.सं	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
703	सायराबानू एस., पत्नी श्री सियद एस.	केरलएसवी सी / 2935 / 04	थसनीम कीरीकड, डाक पाठीयूरकला, कायमकुलम, अलपुजाह— 690508	बीवीएससीएडएच / केरयू/ 04	30.5.80
704	साकेत शर्मा, पुत्र श्री सुभाष चंद्र शर्मा	पंजाबएसवी सी / 2506 / 04	ग्राम एवं डाक बहरामपुर, जिला— गुरदासपुर, पंजाब	बीवीएससीएडएच / पीएयू/ 03	29.04.80
705	सकारिया इब्राहीम, पुत्र श्री इब्राहीम एन. पी.	केरलएसवी सी / 2998 / 04	पुलरी म.न.4 / 517सी,जोसेफ रोड,कालीकट डाक,कालीकट बीच, पिन—673032	बीवीएससीएडएच / केरयू/ 04	22.3.78
706	समीर गुप्ता, पुत्र श्री विनोद कुमार गुप्ता	पंजाबएसवी सी / 2575 / 04	भुल्लर अस्पताल, डाक महल राम तीरथ रोड, अमृतसर	बीवीएससीएडएच / पीएयू/ 02	29.04.79
707	सामिक कुमार पॉल, पुत्र श्री सिसिर कुमार पॉल	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3118 / 04	द्वारा सुसांत बिस्गास, 205 / 2, सुईमठ, डाक बरहामपुर, जिला— मुर्शिदाबाद	बीवीएससीएडएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस/ 04	2.1.81
708	संदीप कुमार, पुत्र श्री धरम पॉल	पंजाबएसवी सी / 2545 / 04	द्वारा ब्यूटी शॉल स्टोर, शॉप न. 180, मोचपुरा, लुधियाना	बीवीएससीएडएच / पीएयू/ 04	18.06.79
709	संद्या अचुथन, पुत्र श्री पी.पी. अचुथन	केरलएसवी सी / 2905 / 04	1 / 52—ए, सापर्या,उदयनगर, तीसरा क्रॉस, अरुयनथोले, थिसूर —680003	बीवीएससीएडएच / केरयू/ 04	13.5.80
710	संद्या एल.आर. पुत्री श्री रामचंद्रन नायर	केरलएसवी सी / 2915 / 04	इंदु भवन, वडाककुमकारा पूर्व, उमयानाल्लौर डाक, कोल्लम— 691589	बीवीएससीएडएच / केरयू/ 04	30.5.80
711	साने के.जी., पुत्र श्री के. गोविंदम अचारी	केरलएसवी सी / 2950 / 04	नेविन निवास, चंदाकुन्नु डाक, नीलम्बूर, मलप्पुरम — 679342	बीवीएससीएडएच / केरयू/ 04	21.6.79
712	संजय कुमार तावारे, पुत्र श्री भगवान	राजएसवीसी / 3118 / 04	वेटेरिनरी हॉस्पिटल, भदरिया, राजस्थान	बीवीएससीएडएच / एमएयू/ 98	10.1.74
713	संजय पटिदार, पुत्र श्री गिरधारी पटिदार	एमपीएसवी सी / 2264 / 04	ग्राम —ऊन, जिला— खारगोन, म.प्र.	बीवीएससीएडएच / जेएनकेबीवी / 03—04	15.2.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
714	संजय शर्मा, पुत्र श्री रमेश प्रदाद	राजएसवीसी /3129 / 04	2/66, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएडएच / आरएयू/93	11.7.68
715	संजीव मौर्या, पुत्र श्री सी.आर. मौर्या	पंजाबएसवी सी / 2559 / 04	277, कमलानेहरू नगर, भटिडा, पंजाब	बीवीएससीएडएच / पीएयू/04	11.08.76
716	संजीव शर्मा, पुत्र श्री रतिराम शर्मा	एमपीएसवी सी / 2182 / 04	64-बी, गांधी कॉलोनी, मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएडएच / जे.एन.के.वी.वी / 02-03	11.12.76
717	संजीत कुमार राठी, पुत्र श्री ओम प्रकाश	हरिएसवीसी / 1802	ग्राम एवं डाक खरहार टी., बहादुरगढ़, झज्जर, हरियाणा	बीवीएससीएडएच / सी.सी.एस.ए.यू/96	17.4.72
718	संजोय कुमार हौलादर, पुत्र श्री प्रदीप हौलादर	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3138 / 04	ग्राम सुकांतपल्ली, डाक एवं थाना- नोगरा, जिला- हुगली, प.बं.	बीवीएससीएडएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	24.7.81
719	संजू किनजिंग, पुत्र श्री आर.आर. कारलिटल हैवन कॉट	मेघएसवीसी / 225 / 05	द्वारा बी. किनजिंग, न्यू कैंच ट्रेस, बिष्णुपुर, शिलाँग -13	बीवीएससीएडएच / एयू/05	16.9.81
720	संतोष कुमार एस., पुत्र श्री संकरन नायर एन.	केरलएसवी सी / 2986 / 04	रोहिनी कलप्पलीकोनम, अरुवीकारा डाक, थिरुवनंतपुरम -695564	बीवीएससीएडएच / के.एयू/04	10.1.79
721	संतोष बाबू आर.आर., पुत्र श्री रामइयाह	कर्ना / 3662 /	के.एच. नगर, 2 क्रॉस, सेंट एन कॉन्वेंट रोड, मददूर -571428	बीवीएससीएडएच / यूएसबंगलौर/04	5.1.82
722	सरमा नबज्योति, पुत्र स्व. श्री पबिन च. सर्मा	असमएसवी सी / 2194 / 05	रुपनगर, पाठशाला, जिला बारपेटा, असम- 781325	बीवीएससीएडएच / एयू/96	22.11.73
723	सरोजा राना, पुत्र श्री तुलसी कुमार राना	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3148 / 05	बारबाटे गुनबा गांव, डाक कालिमपोंग, जिला- दार्जिलिंग	बीवीएससीएडएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस /	28.12.80
724	सथीशा जी.एम., पुत्र श्री महालिङ्गा जी.के.	कर्ना / 3681 /	रागनाथ नीलया, बासव लेआउट(जीएमलेआउट), तालु होलालकोरे, चित्रदुर्गा जिला	बीवीएससीएडएच / यूएसबंगलौर/04	2.5.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
725	सथयेंदर राव वी., पुत्र मी मदन गोपाल राव	एपीएसवीसी /4157/04	द्वारा वी. राधयेंदर राव, म.न. 17-475, नगर कुर्नूल, महाराष्ट्र नगर जिला, आध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच/ एनजीआरएयू/04	5.6.78
726	सतीश कुमार, पुत्र श्री शिवराज काम्बले	कर्ना/3589 /	बरादपुर, येंकुर डाक, भलकी तालुक, बिदर जिला	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसधारवाड/04	22.7.81
727	सतीश शर्मा, पुत्र श्री आर.के. शर्मा	राजएसवीसी /3171/04	111/89, न्याय पथ, गांधी नगर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/ आरएयू/05	5.4.79
728	सतीश एम., पुत्र श्री एम.एस. साईबाबू	एपीएसवीसी /4183/05	बी-5/एफ 2, उद्योग नगर कॉलोनी, पंजागुटा, हैदराबाद - 500082, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/ एनजीआरएयू/01	14.11.78
729	सत्यब्रत हल्दर, पुत्र स्व. श्री सत्येंद्र नाथ हल्दर	डब्ल्यूबीएसवी सी/3110/ 04	चिंतामोनीपारा, डाक डायमंड हारबर, जिला-24 परगना (द.)	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	16.12.80
730	सौनम कांति पाल, पुत्र श्री अरुण चंद्र पाल	त्रिएसवीसी /159/ 05	द्वारा श्री अरुण च पाल, डाक एवं ग्राम मताई, थाना बेलोनिया, त्रिपुरा दक्षिण	बीवीएससीएंडएएच/ सीएयू/05	23.6.80
731	सीमा सी.जी., पुत्र श्री गंगाधर	कर्ना/3682 /	219/ए, शारदा कॉलोनी, बासवेश्वर नगर, बगलौर -79	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसबंगलौर/04	27.6.81
732	सीमा अग्रवाल, पुत्री श्री रमेश कुमार अग्रवाल	एमपीएसवी सी/2260/ 04	8, गांधी चौक, बड़ी सेमारिया, रीवा, म.प्र.	बीवीएससोएंडएएच/ जेनकेवीवी/03-04	17.5.80
733	सीमा एस., पुत्र श्री चंद्र भान	हरिएसवीसी /1830	म.न. 170, लाजपत नगर, हिसार	बीवीएससीएंडएएच/ सीसीएसएचएयू/04	5.4.80
734	सीमा शर्मा, पुत्री श्री राम स्वरूप	एसवीसी/ 702/04	म.न. 113, वार्ड न. 5, सुखदेव निवास, बृज नगर, हमीरपुर	बीवीएससीएंडएएच/ सीएसकेएचपीके वी/04	4.10.81
735	सीना टी.एक्स., पुत्री श्री जेवियर टी.जे.	केरलएसवी सी/2952/ 04	थाजापल्ली, निकारथिल, इजयुपुन्ना डाक, चेरथला, अलपुजाह - 688548	बीवीएससीएंडएएच/ केरयू/04	23.11.79
736	सेन्नकेशवन वी., पुत्र श्री वेंकटस्वामी	एपीएसवीसी /4289/05	संगम डेरी, वेट.ऑफिस, एनजी ओ होम सेंटर, सेत्तेनापल्ली, गुरुर जिला-522403, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/ टीएनवीएसयू/01	5.6.77

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
737	शबीना हसन, पुत्री मि के हसन	एएडेनएस वीसी / 93 / 04	द्वारा शमीना हसन, ऑफिकल विंग (लाइट हाउस सिनेमा के पीछे), अबरदीन बाजार, पोर्ट ब्लेयर	बीवीएससी / टीएन वीएसयू / 04	14.4.78
738	शादमा फातिमा, पुत्री श्री एम.आई खान	एमपीएसवी सी / 2250 / 04	मोमिनपुरा, मोती मस्जिद के निकट, तुलसी नगर वार्ड, भगवान गंज, सागर, म.प्र.	बीवीएससीएडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	14.5.80
739	शाहिद शेख हनीफ, पुत्र श्री शेख लतीफ	पॉण्डीएसवी सी / 255 / 0 4	44, नैनियप्पा पिल्लई स्ट्रीट, पॉण्डीचेरी - 605001	बीवीएससीएडएच / एपीएयू / 96	1.4.68
740	शैलजा एम., पुत्री श्री नारेंद्र प्रसाद	एपीएसवीसी / 4216 / 05	म.न. 37-114(प्लॉट न.158), श्री कॉलोनी, नेरदमेट एक्स रोड, आर.के पुरम (डाक), सिकंदराबाद 50056, आ.प्र.	बीवीएससीएडएच / एनजीआरएयू / 05	26.8.80
741	शैलेन्द्र चौरसिया, पुत्र श्री लक्ष्मी प्रसाद चौरसिया	एमपीएसवी सी / 2252 / 04	झांसी रोड, छतरपुर (म.प्र.)	बीवीएससीएडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	1.07.77
742	शैलेन्द्र कुमार सोन, पुत्र श्री विनोद कुमार सोन	एमपीएसवी सी / 2268 / 04	कंपनी बाग रोड, ग्वालियर, म.प्र.	बीवीएससीएडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	21.01.79
743	शैलेन्द्र सिंह, पुत्र श्री महेन्द्र सिंह	एमपीएसवी सी / 2220 / 04	बादोबाग, नीम चौराहा, उपवन नगर, रीवा, म.प्र.	बीवीएससीएडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	1.9.78
744	शैलेश तिवारी, पुत्र श्री मदन मोहन	राजएसवीसी / 3105 / 04	वेटेरिनरी हॉस्पिटल, ताथोड, कोटा, राजस्थान	बीवीएससीएडएच / जेएनकेवीवी / 96	16.9.70
745	शामना टी.पी., पत्नी श्री संजीव एच.	केरलएसवी सी / 2968 / 04	खरुविला हाउस, कोट्टुकल डाक, अंचल (वाया), कोल्लम - 2275723	बीवीएससीएडएच / कोएयू / 04	1.1.79
746	शंकर बी.पी., पुत्र श्री जे. पुट्टास्वामी	कर्ना / 3625 /	बयादराहल्ली, मददूर तालुक, माण्ड्या जिला	बीवीएससीएडएच / यूएसबंगलौर / 04	24.5.82

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
747	शंकर एस.के., पुत्र श्री कर्ना. / ऋरियप्पा ए.डी.	कर्ना/3611 /	# 8, चौथा क्रॉस, ए ब्लाफक, देवराज उर्स लेआउट, दावणगेरे -06	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसधारवाड/04	24.5.81
748	शंकर मूर्ति एन.सी. पुत्र श्री चन्नाबासप्पा	कर्ना/3675 /	नेरलाकरे, तारीकरे तालुक, चिक्कमंगलूर जिला— 577228	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसधारवाड/04	12.7.81
749	शांतनु रानू, पुत्र श्री हीरा लाल रानू	डब्ल्यूबीएसवी सी/3144 / 05	द्वारा प्रबीर कुमार मजुमदार, दंगलपाड़ा, सूरी, बीरमूम, पिन-731101	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	1.11.79
750	शरनबासव, पुत्र श्री इरासंगप्पा बी. मारोल	कर्ना/3606 /	एस.आई.मारोल,पुत्र श्री आई. बी.मारोल,डाक तंगाडागी,तालु मुददेबिहाल, बीजापुर जिला	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसधारवाड/04	17.7.81
751	शशि किरन हजारे, पुत्र श्री प्रेम प्रकाश हजारे	एपीएसवीसी /4277/05	द्वारा एम.आर. चारी, म.न. 12-193, श्री नगर कॉलोनी, पाटनेरु, मेडक जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसधारवाड/01	23.6.75
752	शेखर पॉल, पुत्र श्री सुशील पॉल	डब्ल्यूबीएसवी सी/3106 / 04	ग्राम माहीनगर,डाक बलटाला पार्क, जिला—डी/दीनाजपुर, पिन्- 733203	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	9.8.80
753	शेखर टेककनावर, पुत्र श्री हनमंतप्पा	कर्ना/3602 /	नगरल डाक, बिलागी तालुक, बगलकोट जिला — 597116	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसधारवाड/04	15.11.80
754	शिबप्रसाद पात्रा, पुत्र श्री मिहिर कुमार पात्रा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3082 / 04	ग्राम जॉयनगर, डाक गोपालपुर, जिला पुरुलिया, पिन- 723151	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	15.3.82
755	शाइन सी. बाबू, पुत्र श्री नारायणन बाबू	केरलएसवी सी/2967 / 04	कुक्कू, जी.एच.एस. के निकट, अटिगल डाक, त्रिवेंद्रम-695101	बीवीएससीएंडएएच/ केरघ्य/04	20.5.81
756	शाइनी जॉय, पुत्री श्री के.के. जॉय	केरलएसवी सी/2991 / 04	डी-11, टाइप- 111, कृषि कुंज, बजाज नगर, नागपुर, महाराष्ट्र	बीवीएससीएंडएएच/ एमएंडएफएसयू/04	23.6.81
757	शिरिषा यनाला, पुत्री श्री सुदर्शन रेड्डी	एपीएसवीसी /4268/05	म.न. 6-3-152, शिवाजी नगर रोड, रामगिरी, नालगोड़ा-508001, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/ एएनजीआरएयू/05	17.8.79

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अहताएं	जन्मतिथि
758	शिव दत्त, पुत्र श्री रघुनाथ प्रसाद यादव	राजएसवीसी /3141/04	गल्स स्कूल के निकट, स्वार, मरतपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएयू/05	23.6.79
759	शिवागन अनिल तुकाराम, पुत्र श्री तुकारामरावजी पाटिल	कर्ना/3693 /	द्वारा प्रकाश पाटिल, 1640, न्यू विद्या नगर, खानापुर, बेलगाम	बीवीएससीएंडएच/केकेवीपी/97	17.12.74
760	शिव कुमार, पुत्र श्री मालप्पा गुनारे	कर्ना/3598 /	एटी डाक अफजलपुर तालुक, गुलबर्गा जिला	बीवीएससीएंडएच/यूएसधारवाड/04	5.6.78
761	शिवकुमार आर, पुत्र श्री रेख्या नायक	कर्ना/3641 /	कब्बाला चन्नागिरी तालुक, देवणगरे जिला	बीवीएससीएंडएच/यूएसधारवाड/04	2.1.80
762	शिवराज अरालीकट्टी, पुत्र श्री शंकरप्पा	कर्ना/3689 /	एस.बी. अरालीकट्टी, शिवाजी नगर, तीसरा क्रॉस, हावेरी	बीवीएससीएंडएच/यूएसबंगलौर/04	16.11.81
763	शिवजोत कौर, पुत्री श्री हरबंस सिंह	पंजाबएसवी सी/2539/04	1, 301-डी, बैंक कॉलोनी, मुल्लनपुर दाखा, लुधियाना	बीवीएससीएंडएच/पीएयू/04	08.01.81
764	शिवकुमार वी., पुत्र श्री वी. वीरभद्रझियाह	कर्ना/3692 /	द्वारा: डी.आर. ओमकारम्मा (टीचर), रंगनाथ एक्स., मिनि विधान सौधा के निकट, जगलूर — 577528	बीवीएससीएंडएच/यूएसबंगलौर/04	24.9.81
765	शिव राम सिंह सावरिया, पुत्र श्री दयाल	राजएसवीसी /3139/04	ग्राम एवं डाक— कोटरी, थाना - हिंडौन, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/आरएयू/05	20.1.79
766	श्रवण कुमार, पुत्र श्री विजय कुमार	एपीएसवीसी /4210/05	म.न. 9-69, मुस्ताबाद, करीम नगर, जिला— 505404	बीवीएससीएंडएच/एनजीआरएयू/05	30.11.80
767	शुभा मित्रा घौढ़री, पुत्र श्री सुनीति कुमार घौढ़री	डब्ल्यूबीएसवी सी/3128/04	एल—एफ—1, ईस्ट बारिशा, गवर्न. हाउसिंग एस्टेट, कोलकाता— 700063	बीवीएससीएंडएच/डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	1.01.82
768	शुकदेब पाल, पुत्र स्व. श्री धीरेंद्र नाथ पाल	डब्ल्यूबीएसवी सी/3100/04	ग्राम—उनाई, डाक— कालपुर, जिला 24 परगना (उ.), पिन— 743235	बीवीएससीएंडएच/डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	12.6.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
769	श्वेता अग्निहोत्री, पुत्री मी मनोहर लाल अग्निहोत्री	एमपीएसवी सी/2190/ 04	म.न. 191, वृन्दावन वार्ड, अहमद नगर, गोपाल गंज, सागर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ जे.एन.के.वी.वी./03-04	1.09.78
770	श्यामा एस.एम., पत्नी डॉ. शिबु के.वी.	केरलएसवी सी/2979/ 04	कार्सिंगटिटल हाउस, कल्लेटटुमकारा, घिसूर – 680683	बीवीएससीएंडएच/ के.एयू./04	1.6.78
771	सिजि टी.एस., पुत्री श्री टी.एन. ससिधरन	केरलएसवी सी/2951/ 04	थौइकाट्टुसेरी हाउस, इंदु थालोर डाक, ओलूर, घिसूर – 680306	बीवीएससीएंडएच/ के.एयू./04	20.2.80
772	सिजो जोसेफ के., पुत्र श्री के.एल. जोसेफ	केरलएसवी सी/2916/ 04	कोडियान हाउस, क्राइस्ट कॉलेज रोड, इरिजलकुचा डाक, घिसूर– 680125	बीवीएससीएंडएच/ के.एयू./04	3.10.79
773	सिमरन प्रीत कौर, पुत्री श्री दर्शन सिंह	पंजाबएसवी सी/2520/ 04	म.न. 5, ब्लॉक— एच, भाई रणधीर सिंह नगर, लुधियाना	बीवीएससीएंडएच/ पी.एयू./04	18.03.81
774	सीनू पॉल, पुत्र श्री पी.वी. पल्ली	केरलएसवी सी/2892/ 04	पुर्कुनेल हाउस, घिकालंगोडे डाक, माजेरी, मलप्पुरम, पिन– 676127	बीवीएससीएंडएच/ के.एयू./04	15.10.79
775	सिरेशा थेम्बुरु, पुत्री श्री वालया	एपीएसवीसी /4264/05	वी.एस. कॉलोनी, कोठापेट, सोमपेट (डाक), श्रीकाकुलम जिला – 532284, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ ए.एन.जी.आर.एयू./05	15.8.77
776	सिसिर कुमार पॉल, पुत्र श्री श्याम पदा पॉल	डब्ल्यूबीएसवी सी/3084/ 04	ग्राम दातारडीह, डाक– छाटोसागर, जिला– पुरुलिया, पिन–723131	बीवीएससीएंडएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	17.6.81
777	सिवा मूर्ति एस., पुत्र श्री सेनगोटइयां	एपीएसवीसी /4285/05	म.न. 2–145, तिरुपति रोड, पिलेर – 517214, घित्तूर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ टी.एन.वी.ए.एस.यू./98	10.7.74
778	सिवदास के.टी., पुत्र श्री के.ए. थंकप्पन	केरलएसवी सी/2949/ 04	कोल्लमपराम्बिल हाउस, थुरुटिपराम्बु डाक, अन्नालूर, पिन– 680731	बीवीएससीएंडएच/ के.एयू./04	10.10.78
779	सलैंदर कुमार, पुत्र श्री भादर राम	राज. एवीसी /319/04	ग्राम एवं डाक दुरमाना, थाना पीलीभंगा, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आर.एयू./05	11.2.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
780	स्मिथा आर. पिल्लै, पुत्री श्री रामा कृष्णा पिल्लै	केरलएसवी सी / 2932 / 04	बालाकृष्णा (एच), पनाचिकाबु डाक, पेरुन्नल, चंगनाचेरी	बीवीएससीएडएच/ केरयू/04	3.12.79
781	स्नेहलता बोदानदे, पुत्री श्री बी.डी. बोदानदे	एमपीएसवी सी / 2200 / 04	135, श्रीराम कॉलोनी, मिसरोद रेलवे स्टेशन के निकट, होशंगाबाद रोड, भोपाल, म.प्र.	बीवीएससीएडएच/ जे.एन.के.वी.वी./03-04	9.5.79
782	सोहन सिंह राठौड़, पुत्र श्री दौलत	राजएसवीसी / 3107 / 04	299, हिमत नगर, टॉक, रोड, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएडएच/ आरएयू/58	14.12.33
783	सोइबाम सिनयोरिता देवी, पुत्री श्री एस. देवेंद्र सिंह	मणिएसवीसी / 388 / 05	सागोलबंद, टेरा, लुकारम, लेइरेक, इम्फाल	बीवीएससीएडएच/ सीएयू/05	18.2.81
784	सोमेश सिंह, पुत्र श्री अर्जुन सिंह	एमपीएसवी सी / 2195 / 04	भारत भवन, कृषि कॉलेज के निकट, पादरा, रीवा, म.प्र.	बीवीएससीएडएच/ जे.ए.न.के.वी.वी./03-04	7.01.79
785	सोमनाथ रौय, पुत्र श्री रामकृष्ण रौय	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3087 / 04	ग्राम— देवनचक (निशंदा), डाक घोषपारा (बाली), जिला— हावड़ा	बीवीएससीएडएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	16.12.81
786	सोनिया रहेजा, पुत्री श्री के.ए.ल. रहेजा	एपीएसवीसी / 4175 / 04	द्वारा डॉ.आर.पी. शर्मा, क्वा. न.1, टाइप X, पीडीपी कैम्पस, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 30, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएडएच/ सी.सी.एस.एच.एयू/01	18.10.76
787	सोनिका अहलावत	हरिएसवीसी / 1805	म.न. 118, सेक्टर— 15ए, हिसार	बीवीएससीएडएच/ सी.सी.एस.एच.एयू/03	9.2.80
788	सौमेंद्र नाथ चैटर्जी, पुत्र श्री सत्येंद्र नाथ चैटर्जी	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3123 / 04	उत्तमाशा पारा, डाक बलूर घाट, जिला—डी/दीनाजपुर, पिन—733101	बीवीएससीएडएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	19.9.81
789	सौमेन्दु चक्रवर्ती, पुत्र श्री सुधेन्दु बिकाश चक्रवर्ती	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3134 / 04	फ्लेट- न. बी / 8, कलस्टर-3, पूर्वान्ध्रल, सॉल्ट लैक, कोलकाता— 700097	बीवीएससीएडएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	27.05.80
790	सौम्या रमनकुटटी, पुत्री डॉ. वी.के. रमनकुटटी	केरलएसवी सी / 2956 / 04	अमृतु, पोटटोरे डाक, थिरोर, थिसूर — 680581	बीवीएससीएडएच/ केरयू/04	9.6.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
791	सौविक मंडल, पुत्र श्री गौर मंडल	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3083 / 04	ग्राम— मोसिनापुर, डाक जोय रामबत्ती, जिला—बंकुरा, पिन— 722161	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	14.3.81
792	श्रीदेवी एस., पुत्री श्री श्रीधरन सी.एन.	केरलएसवी सी / 2942 / 04	अनुसाग पुथेनपल्ली डाक, गुफ्कयूर, ग्रिसूर — 680103	बीवीएससीएंडएएच / केरयू / 04	13.11.79
793	श्रीधर बासेटी, पुत्र श्री सुबइयाह	एपीएसवीसी / 4233 / 05	म.न. 5-10-86, मेन स्ट्रीट, गिर्डालूर, प्रकासम जिला— 523357	बीवीएससीएंडएएच / एनजीआरएयू / 05	11.8.81
794	श्रीहरि एस., पुत्र श्री के. सत्यनंदन पिल्लै	केरलएसवी सी / 2883 / 04	आल्फा पेटाह, टीसी 30 / 1888-1, शिरवननंतपुरम	बीवीएससीएंडएएच / केरयू / 04	6.8.80
795	श्रीजया एस., पुत्री श्री एन. श्रीधरन नायर	केरलएसवी सी / 2902 / 04	ब्लुमूटिटल पाइन्चटाप्पिल, नेङ्गुमपना डाक, कोल्लम — 691580	बीवीएससीएंडएएच / केरयू / 04	2.2.80
796	श्रीनिवास रेड्डी पुन्नुरु, पुत्र श्री थिरुपल रेड्डी	एपीएसवीसी / 4229 / 05	बेस्तावारी पेटा, मैडला नारायण स्ट्रीट, प्रकासम जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एनजीआरएयू / 05	2.6.82
797	श्रीनिवासु चिंता, पुत्र श्री वैकट रामइयाह	एपीएसवीसी / 4155 / 04	7-80, चिंता स्ट्रीट, यनम— 533464, पू.गो. जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / पॉर्ट्फिलिडि / 04	11.8.79
798	श्री विद्या गुल्लापुडी, पुत्री श्री साम्बया	एपीएसवीसी / 4222 / 05	बोम्मुलूर, बापुलापडु (एम), कृष्णा जिला— 521105, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एनजीआरएयू / 05	15.7.81
799	श्रीधर अट्टुलुरी, पुत्र श्री सुब्बा राव	एपीएसवीसी / 4205 / 05	डी.न. 5-8-29, नरसारावपेट, गुंटूर जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एनजीआरएयू / 05	15.6.78
800	श्रीनिधि के.पी., पुत्र श्री कृष्णामूर्ति जी.	कर्ना / 3596 /	एस.आई.एस.एच., डोर न.86, बी.वी.एस.एफ.सी., हिरियूर तालुक, थिन्दुर्गा जिला	बीवीएससीएंडएएच / यूएसधारवाड / 04	26.3.82
801	श्रीनिवास मंधीकाटला, पुत्र श्री कोमुरइयाह	एपीएसवीसी / 4151 / 04	म.न. 12-109, वारगत रोड, हुजूराबाद, करीमनगर जिला—505488, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू / 04	23.1.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
802	श्रीनिवास जी, पुत्र श्री गोविंद गौडा	कर्ना/3648 /	थोरेकाडनाहल्ली डाक, मलावली तालुक, माणझ्या जिला	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसबंगलौर/04	27.8.80
803	स्टैला एस्थर, पुत्री श्री डी. राजकुमार	एरेंडेनएस वीसी/92/ 04	द्वारा श्री डी. राजकुमार रेडियो टेक, पुलिस रेडियो, 44.ज.रोड, हड्डो पोर्ट ब्लेयर	बीवीएससी/टीएन वीएसयू/04	20.5.80
804	स्टीफन कुमार पलम, पुत्र श्री इश्वर प्रसाद	एपीएसवीसी /4196/05	गुहलक्ष्मी टावर्स,फ्लैट न.203, म.न. 14-33 से 35, पीएंडटी कॉलोनी, दिल सुख नगर, हैदराबाद, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/ एनजीआरएयू/04	23.8.80
805	सुमाक्षीर्ति साहा, पुत्र श्री सृष्टि च साहा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3115/ 04	उत्तरी चकमभानी, डाक- बलूरघाट, जिला-डी/ दीनाजपुर, पिन-733101	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएएफ एस/04	29.4.80
806	सुमंकर साहा, पुत्र श्री बबलू साहा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3078/ 04	ग्राम चंदनपुर, डाक- जंगियापारा, जिला हुगली	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएएफ एस/04	2.1.80
807	सुभाष नाइक, पुत्र श्री हेमु नाइक	कर्ना/3583 /	एटी डाक अंकालगी, तालुक जिला बीजापुर	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसधारवाड/04	14.7.79
808	सुभाष चंदर, पुत्र श्री नारायण चंद	पंजाबएसवी सी/2537/ 04	ग्राम गंजुआना, तहसील एवं डाक फाजिल्का, जिला- फिरोजपुर- 152123	बीवीएससीएंडएएच/ पीएयू/04	31.05.81
809	सुनेदु रौय, पुत्र श्री सुभाष चंद रौय	डब्ल्यूबीएसवी सी/314 05	ग्राम- उत्तरी चकमभानी, डाक बलूरघाट, जिला- डी/दीनाजपुर,पिन-733101	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएएफ एस/04	25.5.80
810	सुबीमल पॉल, पुत्र श्री सुनील च पॉल	डब्ल्यूबी सी/3036/ 04	वागर वार्ड न. 9, डाक मठभागा, जिला- कूचबिहार -736146	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएएफ एस/04	14.7.81
811	सुबित बरुआ, पुत्र श्री मानश कुमार बरुआ	डब्ल्यूबीएसवी सी/1006/ 04	203/1, जैगीरहाट रोड, पानेरारा, थाना ठाकुरपुकुर, कोलकाता-700063	बीवीएससीएंडएएच/ यूएसबंगलौर/04	4.7.80

क्र.सं.	नाम	फंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
812	सुचित्रा बी.आर., पुत्री श्री राजू बी.पी.	कर्ना/3667 /	कोट बासवेश्वर मंदिर रोड, बासप्पा बिल्डिंग, पुराना शहर, मद्रावती तालुक, शिमोगा जिला	बीवीएससीएंडएच / यूएसबंगलौर / 04	15.5.81
813	सुधा ज्योति च., पुत्री श्री वेंकट रेड्डी	एपीएसवीसी /4278/05	म.न.एई/28, पायलोन कॉलोनी, नाराजुन सागर, नालगोड़ा जिला 508203, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू/05	16.2.80
814	सुधाकर बालासाहेब देशमुख, पुत्र श्री बी. देशमुख	एपीएसवीसी /4163/04	द्वारा वी. सत्यनारायण रेड्डी, म.न. 17-166/5, श्रीनगर कॉलानी, साई ग्रामर स्कूल के निकट, सिद्दीपेट, मेडक जिला	बीवीएससीएंडएच / एमएयू/97	22.2.72
815	सुधीर कुमार, पुत्र श्री तारा चंद	हरिएसवीसी /1833	ग्राम माजरा, डाक खुर्द, जिला रिवाडी	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचएयू/04	9.7.80
816	सुदीप्त सांत्रा, पुत्र श्री मानिक लाल सांत्रा	डब्ल्यूबीएसवी सी/3073/ 03	ग्राम दाहरपुर, डाक एवं थाना तमलुक, जिला— पी/मेदिनीपुर	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	10.9.81
817	सुगुमार डी., पुत्र श्री आर. धर्म राजू	एपीएसवीसी /4179/05	द्वारा: डी. नारायण रेड्डी, कमरा न. 1-1189-88, एनजी ओ कॉलोनी, कदीरी, अनंतपुर जिला— 515591, आ.प्र.	बीवीएससी / टीएन वीएसयू/2001	28.6.78
818	सुजीत कुमार शुक्ला, पुत्र श्री आर.पी. शुक्ला	एमपीएसवी सी/2227/ 04	रेस्ट हाउस के निकट, शास्त्री वार्ड, हाता, दामोह, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जे.एन.के.वी.वी./03-04	1.1.79
819	सुजॉय पी.वी., पुत्र श्री पी.वी. सदानन्दन	केरलएसवी सी/2925/ 04	इचिलक वयाल, वेल्लूर डाक, कन्नूर— 670346	बीवीएससीएंडएच / के.एयू/04	1.1.80
820	सुमाबाला चलागली, पुत्री श्री देवा दासू	एपीएसवीसी /4265/05	द्वारा: आर. विमलामा, रिटा, पीईओ, म.न. 26-28-277, दूसरी गली, अगराहरम, गुटूर, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एएनजीआरएयू/05	1.7.79
821	सुमंत चक्रबोर्ती, पुत्र श्री सुबोध च. चक्रबोर्ती	डब्ल्यूबीएसवी सी/3126/ 04	न. ई/372 (चौथी मंजिल), बैशनबघाट, पातुली, कोलकाता— 700094	बीवीएससीएंडएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	9.12.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
822	सुमीना थाहा, पुत्री श्री माहा कोया ए.	केरलएसवी सी/2980 / 04	ए.आर. बिलिंग, डाक थिरुमुलावरम, मुलमकडकम, कोल्लम – 12	बीवीएससीएंडएएच/ केरेयू/04	11.1.78
823	सुमीत शर्मा, पुत्र श्री अश्वनी शर्मा	पंजाबएसवी सी/2508 / 04	3, शक्ति नगर, फाजिल्का	बीवीएससीएंडएएच/ पीएयू/03	28.04.80
824	सुमीना के.बी., पुत्री श्री के.एस. बालाकुमारन	केरलएसवी सी/2946 / 04	कोडारापासेरी हाउस, डाक-कुडफलियर, थिसूर –680616	बीवीएससीएंडएएच/ केरेयू/04	30.5.80
825	सुमेश टी., पुत्र श्री पौष्टी महाराज	केरलएसवी सी/2985 / 04	राजभवन, चेरथाला डाक, सीएमसी XI, चेरथालेम, अलपुजाह – 688524	बीवीएससीएंडएएच/ केरेयू/04	14.2.77
826	सुमी चंद्रन पी., पुत्री श्री पी. चंद्रन	केरलएसवी सी/2960 / 04	पनावलापिल हाउस, मूलककारा, मनन्नथी डाक, थिसूर– 680651	बीवीएससीएंडएएच/ केरेयू/04	27.10.80
827	सुमिल बी.एस., पुत्र श्री ब्राइट सिंह जे.टी.	केरलएसवी सी/2918 / 04	थेकुथेरी हाउस, काजीरामकुलम डाक, थिरुवनंतपुरम–695524	बीवीएससीएंडएएच/ केरेयू/04	26.12.79
828	सुमित हरितवाल, पुत्र श्री रतन लाल शर्मा	राजएसवीसी /3198 / 05	हरितवाल सदन, कृषि उपज मंडी के पीछे, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/ आरेयू/05	28.11.79
829	सुमिता बिस्वास, पुत्र श्री बिकाश कुमार बिस्वास	डब्ल्यूबीएसवी सी/3105 / 04	ग्राम एवं डाक–बाली, थाना–नौउदा, जिला–मुर्शिदाबाद	बीवीएससीएंडएएच/ डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	18.1.81
830	सुंदरी रंजीथ कुमार, पुत्र श्री नागद्वयाह	एपीएसवीसी /4246 / 05	गडडीपल्ली, गरीडेपल्ली (एम), नालगोंडा जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच/ एएनजीआरएयू/05	26.8.81
831	सुनीलउ कुमार जैन, पुत्र श्री बाबू लाल जैन	राजएसवीसी /3149 / 04	ग्राम एवं डाक– शीवार, सवाई माधोपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच/ आरएयू/05	16.7.78
832	सुनील कमार, पुत्र श्री जगदीश चंद्र	पंजाबएसवी सी/2502 / 04	6982, जैसियां रोड, हैबोवाल, लुधियाना	बीवीएससीएंडएएच/ पीएयू/01	18.12.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
833	सुनील कुमार, पुत्र स्व. श्री अर्जुन काम्बले	कर्ना/3623 /	म.न. 16-1-245, गांधी गुजरात, डाक, कुम्बारवाड़ा, बिदर— 585401	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड़/04	03.03.77
834	सुनील मेहरा, पुत्र श्री मान सिंह मेहरा	राजएसवीसी /3189/05	रामपुरा बस्ती लालगढ़, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड़/05	2.6.77
835	सुनीश एम.पी., पुत्र श्री वी. मोहनन नायर	केरलएसवी सी/2894/ 04	सुनीश मंडीराम, कुटटीचल डाक, थिरुवनंतपुरम	बीवीएससीएंडएच/ केरयू/04	4.5.81
836	सुनीता आवाटे, पुत्री श्री बी.एन. आवाटे	कर्ना/3690 /	पुत्री श्री बी.एन. आवाटे, बी. बागेवाडी रोड, विवेक नगर (पूर्व), बीजापुर	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	25.5.81
837	सुनीथा के., पुत्री श्री मंतरइयाह	एपीएसवीसी /4286/05	म.न. 14-52, फ्लैट न. 201, पीएंडटी कॉलोनी, दिल्सुख नगर, हैदराबाद-60, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	15.7.78
838	सुपर्णा खुराना, पुत्र श्री एस.आर. खुराना	हरिएसवीसी /1851	वा.न. 5, म.न. डीई-164, मस्जिद सराय मौह, समालखा, जिला पानीपत	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/93	9.10.71
839	सुरेश हंदीनाल, पुत्र श्री गौडप्पा	कर्ना/3604 /	एटी डाक हुनाशीकट्टी, जामखंडी तालुक, बगलकोट जिला	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड़/04	6.7.81
840	सुरेश, पुत्र श्री शिवालिगप्पा हच्छड	कर्ना/3588 /	प्लॉट न. 127/8, बिद्दापुर कॉलो.अफजलपुर रोड, वीरा तपस्वी इंगिलश मीडियम स्कूल के निकट, गुलबर्गा	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड़/04	28.6.77
841	सुरेश कड्डू, पुत्र श्री कुम्बार कड्डू	कर्ना/3698 /	एटी डाक कुडाची, रायबाग तालुक, बेलगाम जिला	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड़/04	10.10.74
842	सुरेश बी. इतनाल, पुत्र श्री बालाचंद्रा	कर्ना/3599 /	एटी डाक हुनाशीकट्टी, बेलहोंगल तालुक, बेलगाम जिला	बीवीएससीएंडएच/ यूएसधारवाड़/04	1.6.81
843	सूर्य प्रसाद जी., पुत्र स्व. श्री जी.वी. नायडू	कर्ना/3635 /	म.न. 10, तीसरा क्रॉस, डोडानेकुडी, मेन रोड, बंगलौर-37	बीवीएससी/एपीएयू/ 71	1.7.48

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएँ	जन्मतिथि
844	सूर्य संकर जाना, पुत्र श्री मनोरंजन जाना	डब्ल्यूबीएसवी सी/3089 / 04	ग्राम एवं डाक— सारीपुर, थाना दिघा, जिला— पूर्बांचलीपुर	बीबीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस/04	21.4.82
845	सुशील कुमार, पुत्र श्री कृष्ण	हरिएसवीसी /1846	म.न. 589 / 29, तिलक नगर, रोहतक	बीबीएससीएंडएएच / सीसीएसएचएयू/04	22.4.80
846	सुधा ए., पत्नी श्री के. पी. चंद्रशेखर	एपीएसवीसी /4291 / 05	बी 2-68, बी.के. एन्कलेव, मियापुर, हैदराबाद, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच / टीएनवीएसयू/95	15.6.71
847	सुजी किनडीह, पुत्री श्री गोर्डन डी. पीडीई	मेघएसवीसी /230 / 05	द्वारा: सी.एस. किनडियाह, लुलोंग जोवइ, जयन्तिया हिल जिला, मेघालय—793150	बीबीएससीएंडएएच / एएयू/05	11.12.80
848	स्वना मोहन, पुत्री डॉ. एस. मोहन	केरलएसवी सी/2896 / 04	मेनोनपराम्बिल हाउस, 11/110 पार्क व्यू रोड, टाउन हॉल के पीछे, उत्तरी परुर, अर्नाकुलम	बीबीएससीएंडएएच / के.एयू/04	2.4.80
849	स्थामंतक मणि त्रिपाठी, पुत्र श्री योगीश्वर मणि त्रिपाठी	एमपीएसवी सी/2231 / 04	डॉ. कौशलेन्द्र मणि त्रिपाठी, इंदिरा नगर कॉलोनी, बाड़ा, रीवा, म.प्र.	बीबीएससीएंडएएच / जे.एन.के.वी.वी./03-04	21.7.76
850	सैयद अफसर पाशा, पुत्र श्री सैयद अकबर	कर्ना/ 3676 /	हिंडीग्राल, होसकोट तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला	बीबीएससीएंडएएच / यूएसबंगलौर/04	16.6.80
851	टी. किरन, पुत्र श्री रामना रेड्डी	एपीएसवीसी /4152 / 04	इंडापल्ली, वेलागटूर (एम), करीमनगर जिला— 505526, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू/04	11.4.81
852	टी. मोहन राव, पुत्र श्री रंगइयाह	एपीएसवीसी /4161 / 04	म.न. 6-11-22, नेहरू नगर, नरसारावपेट (डाक), गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश	बीबीएससीएंडएएच / एपीएयू/92	30.6.68
853	टी. सिवासुब्रमनी, पुत्र श्री जी. थुलासिंगम	पॉण्डीएसवी सी/222 / 04	84, इजाइमरियम्मम कोडल स्ट्रीट, मुथियल पेट, पॉण्डीचेरी-3	बीबीएससीएंडएएच / पॉण्डीचेरी/02	12.4.80
854	टी. सिमता नायर, पुत्र श्री जी. कमलकृष्णन नायर	केरलएसवी सी/2970 / 04	पार्थी मदिरम, नेदुमपुराथुम विला, पुन्नमूदू जंक्शन, डाक वरकला, त्रिवेंद्रम—695141	बीबीएससीएंडएएच / के.एयू/04	7.7.81

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
855	टी. विनोद कुमार, पुत्र श्री थंडवरयन	पॉण्डीएसवी सी / 234 / 04	162, मेन रोड, पक्कामुदयनपेट, पॉण्डीचेरी -8	बीवीएससीएंडएएच / पॉण्डीविवि / 03	20.9.81
856	ताखेलाम्बाम झानेश्वरी देवी, पुत्री श्री गौराबिधु टाखेलम्बाम	नणिएसवी सी / 382 / 04	सेगा रोड, ताखेलाम्बाम लेहकई, हम्फाल	बीवीएससीएंडएएच / सीएयू / 03	2.1.80
857	तालुकदार उत्तल, पुत्र श्री मुनाहरि, तालुकदार	असमएसवी सी / 2201 / 05	ग्राम एवं डाक—दुलकुथी, ज़िला —कामरूप, थाना— रंगिया, पिन— 781325	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 05	1.5.80
858	तमन्य साहू, पुत्र श्री तरुण साहू	डब्ल्यूबीएसवी सी / 3091 / 04	थिरिमरसाई, भोलामोयरेर चौक, डाक मेदिनीपुर, ज़िला— पी / मेदिनीपुर, पिन—721101	बीवीएससीएंडएएच / डब्ल्यूबीयूएफ एस / 04	29.5.81
859	तरनजीत, पुत्री श्री रूप सिंह बठ	पंजाबएसवी सी / 2550 / 04	हीरा सिंह नगर, कोटापुरा ज़िला, फरीदकोट	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू / 04	20.08.81
860	तरुण बालानी, पुत्र श्री बी.डी. बालानी	एमपीएसवी सी / 2247 / 04	द्वारा श्री बी.डी. बालानी, 609, छोटी उमटी, जबलपुर, म.ग्र.	बीवीएससीएंडएएच / आईजीकेवीटी / 03—04	15.4.79
861	तेहलंग देखार, पुत्र श्री विवेम विशाओर पहमरियोह	मेघएसवीसी / 236 / 05	पहमरियोह, डाक नॉगपोह, रिमोह ज़िला, मेघालय— 793102	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 05	8.8.77
862	ठकुरिया डिम्पल, पुत्र श्री रजनी ठकुरिया	असमएसवी सी / 2184 / 05	ग्राम बैंगशार, ज़िला कामरूप, असम, पिन—781103	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 05	5.3.79
863	थिक टाइट्स लालरोलिएन, पुत्र स्व. श्री थिलहलुन थिक	असमएसवी सी / 2189 / 05	ग्राम रिजॉल, डाक हाफलौंग, एन.सी. हिल्स, असम	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 05	25.11.76
864	थिप्पेस्थामी एच.एस., पुत्र श्री सानासिद्ध्या एच.एम.	कर्ना / 3629 /	हिरेनल्लूर डाक, काढुर ज़िला, थिक्कमगलूर ज़िला—577562	बीवीएससीएंडएएच / यूएएसबंगलौर / 04	1.6.81
865	ट्रेसी एम. संगमा, पुत्री स्व. श्री कोरनेश डी मारक	मेघएसवीसी / 232 / 05	द्वारा श्रीमती एफ.एम. संगमा, फोरेस्ट टीला, तुरा प. गारो हिल्स, मेघालय	बीवीएससीएंडएएच / एएयू / 05	28.9.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
866	द्रेवोर फ्रासिस, पुत्र चॉ. गिलबेर फनॉडीज़	पॉण्डीएसवी सी / 208 / 04	30, अंगलाम्बन नगर, मुथियंलपेट, पॉण्डीचेरी -7	बीवीएससीएंडएच / पॉण्डीविवि / 02	24.10.79
867	उदया भास्कर, पुत्री श्री भास्करन नाथर पी.टी.	केरलएसवी सी / 2964 / 04	वी.पी. 2 / 889, बीजीआरए— 131, नंदनम, डाक पेरुरकाडा, इंदिरा नगर, त्रिवेंद्रम-695005	बीवीएससीएंडएच / केरेयू / 04	15.5.80
868	उदय सिंह महेश्वरी, पुत्र श्री अमर सिंह महेश्वरी	एमपीएसवी सी / 2249 / 04	चिंचवालिकापुरा डाक, चैना, तह. जोरा, जिला— मोरैना (म.प्र.)	बीवीएससीएंडएच / आईजीकेवीवी / 03-04	1.02.76
869	उदयावर प्रियादर्शिनी, पुत्री श्री मोहन	एपीएसवीसी / 4267 / 05	द्वारा 303, एबोनी, अमृत वैली, रोड न.12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद—500032, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच / एमएएफएसयू / 03	15.1.81
870	उमेद सिंह मेहरा, पुत्र श्री धनपत राय	हरिएसवीसी / 1822	ग्राम एवं डाक—कलानौर, निगना मोड के निकट, रोहतक	बीवीएससीएंडएच / सीसीएसएचयू / 04	1.4.75
871	उमेश कुमार कोरी, पुत्र श्री मूलचंद कोरी	एमपीएसवी सी / 2239 / 04	अब्दुल्ला वार्ड, हिंडोरिया, जिला दामोह, म.प्र., पिन- 470771	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	25.10.80
872	उमेश कुमार गौतम, पुत्र श्री रामावतार गौतम	एमपीएसवी सी / 2255 / 04	डाक— बीरसिंघपुर, बाघान टोला, जिला— सतना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	25.3.74
873	उमेश तिरलापुर, पुत्र श्री हनुमा रेड्डी	कर्ना / 3603 /	एटी मदगनूर, किटटूर डाक, गडग जिला एवं तालुक —582201.	बीवीएससीएंडएच / यूएसधारवाड / 04	30.8.81
874	उत्तम लुवांग, पुत्र श्री उदय लुवांग	मणिएसवीसी / 380 / 04	सेगा रोड, ताखेलाम्बाम, लेइकई, इम्फाल	बीवीएससीएंडएच / सीएयू / 03	1.4.79
875	उत्तम यादव, पुत्र श्री यशवंत यादव	एमपीएसवी सी / 2224 / 04	404-बी, संवाद नगर, स्कीम न. 98, इंदौर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच / जेएनकेवीवी / 03-04	30.5.66
876	वी. कल्याणी सिरमलसेट्टी, पुत्री श्री साइबाबा	एपीएसवीसी / 4272 / 05	डी.न. 3-312, लाइन न. 5, गंगाराजू नगर, काकीनाडा, पू.गो. जिला	बीवीएससीएंडएच / एनजीआरएयू / 05	12.8.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पला	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
877	वी. आनंद भास्करन, पुत्र श्री बी. वेंकादासलम	पॉण्डीएसवी सी/214/04	न. 105, मुथु मरियम्मन कोइल स्ट्रीट, पॉण्डीचेरी -1	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/02	9.5.78
878	वी.बी. सिद्दाराजू, पुत्र श्री बोरेगौडा	कर्ना/3685/ /	ए.वी. हल्ली, सुलेरी डाक, चन्नापट्टना तालुक, बंगलौर ग्रामीण जिला— 571501.	बीवीएससीएंडएच/यूएसबंगलौर/04	20.5.81
879	वी. भवानी, पुत्री श्री टी. विजय रंगन	पॉण्डीएसवी सी/211/04	न. 6, चौथा क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पॉण्डीचेरी-5	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/02	6.11.78
880	वी. चिन्नी प्रीतम, पुत्र श्री योसेफ	एपीएसवीसी/4185/05	प्लॉट न. 73/ए, प्रीतम एन्कलेव, अत्तापुरु राजेंद्र नगर, हैदराबाद-30, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/एपीएयू/93	5.3.65
881	वी. जमुनारानी, पुत्री श्री एन. वीरा राघवन	पॉण्डीएसवी सी/254/04	न. 9, आवाई नगर, 23 वां क्रॉस, लॉसपेट, पॉण्डीचेरी-8	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/04	20.5.82
882	वी. कल्याण चक्रवर्ती, पुत्र श्री दशरथ रामझयाह	एपीएसवीसी/4171/04	द्वारा पी. सुबरायुडी, चंडलूर, वाया: इंकोलू, प्रकासम जिला-523167, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/एनजीआरएयू/04	19.11.78
883	वी. सुमा, पुत्री श्री के. विनयगम	पॉण्डीएसवी सी/225/04	41, सलाई स्ट्रीट, मुथियलपेट, पॉण्डीचेरी-3	बीवीएससीएंडएच/पॉण्डीविवि/02	7.7.78
884	वागीश पंडित एस., पुत्र श्री सिद्ध नाथ स्वामी एस.	कर्ना/3610/ /	एटी डाक सोलापुरा, तारीकेरे तालुक, चिकमगलूर जिला	बीवीएससीएंडएच/यूएसधारवाड/04	2.3.82
885	वलीबाशा एच., पुत्र श्री हुसैन पीरा	कर्ना/3605/ /	द्वारा: म्बू सुबानी एच., 10वां वार्ड, डोर न. 10/79, विट्टोबा मंदिर के सामने, संदूर-583119, बेलारी जिला	बीवीएससीएंडएच/यूएसधारवाड/04	4.6.79
886	वंदना चौधरी, पुत्र श्री नामदेव चौधरी	एमपीएसवी सी/2196/04	सुर्खी कॉलोनी, चंदन गांव, चंडीगढ़	बीवीएससीएंडएच/जेएनकेवीवी/03-04	18.7.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
887	वंदना यादव, पुत्र श्री नी के. यादव	हरिएसवीसी / 1838	ग्राम एवं डाक-बातल, जिला—रिवाड़ी	बीबीएससीएंडएएच/सीसीएसएचएयू/04	21.2.82
888	वनिता शर्मा, पुत्री श्री राजेंद्र शर्मा	हरिएसवीसी / 1818	म.न. 965, सेक्टर-13, हिसार	बीबीएससीएंडएएच/सीसीएसएचएयू/04	20.4.79
889	वंशराज पटेल, पुत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल	एमपीएसवी सी/ 2205 / 04	एलआईजी 1/15/208, इंद्रा नगर, बाड़ा, रीवा, म.प्र.	बीबीएससीएंडएएच/जेएनकेवीवी/03-04	20.2.77
890	घरुण, पुत्र श्री संसार घंड	पंजाबएसवी सी/ 2512 / 04	5—पटेल नगर, गली न. 1, पठानकोट	बीबीएससीएंडएएच/पीएयू/03	30.05.81
891	धासा श्रीनिवास, पुत्र श्री रघु रामइयाह	एपीएसवीसी / 4240 / 05	डी.न. 2-20, मासापेट बाजार, रायाचोटी, कडप्पा जिला— 516270, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच/एएनजीआरएयू/05	1.6.80
892	दीना के., पुत्री श्री कृष्णप्पा वी.	कर्ना/ 3684 /	काडीरेगौडाना कोटे, कम्मासांदा डाक, वाया ऊर्गमपेट, के.जी.एफ—563121	बीबीएससीएंडएएच/यूएसबंगलौर/04	2.5.81
893	वैकट रमन मूर्ति रायी, पुत्र श्री रामइयाह	एपीएसवीसी / 4192 / 05	बालीग्राम, हरिपुरम (एम), श्रीकाकुलम जिला— 532243, आ.प्र.	बीबीएससीएंडएएच/एएनजीआरएयू/05	15.5.82
894	विजय कुमार, पुत्र श्री बासागोड	कर्ना/ 3597 /	द्वारा बी.एम.अजुर, बासवेश्वर निवास, हनुमानमंदिर के निकट, नेहरु नगर, झानबंडी, बीजापुर	बीबीएससीएंडएएच/यूएसधारवाड/04	8.10.81
895	विजय कुमार मंडोवेरा, पुत्र श्री बाबू	राजएसवीसी / 3127 / 04	आर. आर. अस्पताल के निकट, अलवर रोड, बरोड, अलवर, राजस्थान	बीबीएससी/टीएन वीएसयू/04	25.8.79
896	विजय कुमार, पुत्र श्री खयाती राम	एचवीसी / 692 / 04	ग्राम—लाका, थाना—सरकाधाट, जिला—मंडी—175024	बीबीएससीएंडएएच/सीएसकेएचपीके वी/04	23.4.75
897	विजय पोडिया, पुत्र श्री राज पोडिया	हरिएसवीसी / 1835	419/12, मेहम रोड, गोहाना, सोनीपत्त	बीबीएससीएंडएएच/सीसीएसएचएयू/04	20.11.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक आईटारं	जन्मतिथि
898	विजेंद्र श्रीमल, पुत्र श्री कैलाश चंद	राजएसवीसी /3184/04	23, शिवा कॉलोनी, टॉक फाटक, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / आरएयू/05	9.11.79
899	विजेंद्र सिंह वर्मा, पुत्र श्री संत राम	राजएसवीसी /3123/04	वार्ड न. 34, नई जाटव बस्ती, हिंडौन शहर, करौली, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू/04	15.8.80
900	वीजू कुमार वी.एस., पुत्र श्री एन. सोमन नायर	केरलएसवी सी/2924/04	वयालुविलाकतु वीडु, कुथालूर, चिरायिकिल डाक, त्रिवेंद्रम-695346	बीवीएससीएंडएएच / केरएयू/04	31.7.79
901	विकास, पुत्र श्री गौरीशंकर	राजएसवीसी /3120/04	10/41, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, शिवशिंग पुरा, सीकर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू/04	22.3.82
902	विकास शर्मा, पुत्र श्री आर.पी. शर्मा	हरिएसवीसी /1811	1438/21, प्रेम नगर, रोहतक	बीवीएससीएंडएएच / सीसीएसएचएयू/03	29.12.78
903	विक्रम सिंह, पुत्र श्री वी.के. दौकिया	राजएसवीसी /3122/04	प्लॉट न. 1, लक्ष्मी नगर, जालौर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएएच / एमएंडएफएसयू/04	17.12.78
904	विनीथा दिवाकर, पुत्री श्री ए. दिवाकर	केरलएसवी सी/2976/04	कविथा, पाडिंजटिकारा डाक, थेवलाक्कारा, कोल्लम-690524, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरएयू/04	20.5.79
905	विनोद कुमार शर्मा, पुत्र श्री रामेश्वर दयाल शर्मा	एमपीएसवी सी/2189/04	एमआईजी-996-ए, दर्पण कॉलोनी, थाटीपुर, घालियर, म.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / जेएनकेवीवी/02-03	8.4.76
906	विनोद एस.,पुत्र श्री के. सिवसंकरन	केरलएसवी सी/2947/04	कोडुकट्टू वीडु, मंगड डाक, कोल्लम-691015, केरल	बीवीएससीएंडएएच / केरएयू/04	26.5.79
907	विनोद शंकर राव धोले, पुत्र श्री शंकर राव	एपीएसवीसी /4206/05	द्वारा रवि कुमार, म.न. 7-2-113, मंकम थोटा, करीमनगर, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएएच / एमएयू/98	24.6.75
908	विपन कुमार, पुत्र श्री वेद पौल	पंजाबएसवी सी/2514/04	म.न. 49, गली न. 23, त्रिपरी टाउन, पटियाला, पंजाब	बीवीएससीएंडएएच / पीएयू/03	28.01.80

क्र.सं.	नाम	फैजी सं.	पता	शैक्षणिक अहंतारं	जन्मतिथि
909	विपस कुमार गुप्ता, पुत्र श्री अमिल कुमार गुप्ता	राजएसवीसी /3162/04	कलौंथ मर्यैट, पीएनबी के निकट, मेन बाजार, मनिया, धौलपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	3.5.80
910	वीरेंद्र कुमार, पुत्र श्री चंद्र भक्त	हरिएसवीसी /1815	ग्राम एवं डाक गुहना, जिला—कैथल, हरियाणा	बीवीएससीएंडएच/ सीसीएसएचएयू/04	16.4.81
911	वीरेंद्र कुमार शर्मा, पुत्र श्री कमलती लाल शर्मा	एमपीएसवी सी/2251/ 04	ग्राम एवं डाक—सबलगढ़, जिला—मोरैना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी/03-04	13.12.78
912	विशाखा अहिरवार, पुत्री श्री आर.के. अहिरवार	एमपीएसवी सी/2225/ 04	म.न. 55, बिलागड़या वार्ड, बीना, म.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ जेएनकेवीवी/03-04	15.8.81
913	विश्वामीत सिंह बरार, पुत्र श्री प्रताप सिंह बरार	पंजाबएसवी सी/2516/ 04	मॉडल टाउन, सीतो रोड, गली न. 8, अबोहर 152116, जिला फिरोजपुर	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/03	26.08.80
914	विशिम आर. अम्बवानी, पुत्र श्री रूपचंद	राजएसवीसी /3106/04	60/35, रजत पथ, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/58	17.9.33
915	विश्वामीत सिंह, पुत्र श्री रतन सिंह	राजएसवीसी /3133/04	बी-71, कर्णी नगर, नागेची मंदिर के निकट, बीकानेर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	13.2.81
916	विश्वकर्मा ज्ञानेश बाबूराम, पुत्री श्री बदूषा एस	कर्ना/3615 /	# 8-11-575/13, मौनेश्वर कृष्ण, ए.एफ. रोड, वैकटेश्वर कॉलो., बिदर585401, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/ नागपुरविवि/04	1.6.80
917	विश्वामीत कल्पेश, पुत्र श्री कल्पेशस्त्रू कल्पेश	कर्ना/3659 /	पहली मजिल, डोर न. 11, 17वां मेन, 15वां क्रॉस, जे.पी.नगर, II फेस, बंगलौर-78, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	10.11.81
918	दिलेक्षण एक्टेस, पुत्र श्री वी. कुमारपाल	केरलएसवी सी/2888/ 04	आयमियराकुन्नेल, लालकपाला डाक, कोट्टायम-688575, केरल	बीवीएससीएंडएच/ केरएयू/04	6.5.81
919	दिवेक राठौड़, पुत्र श्री कृष्ण सिंह	एचवीसी/ 691/04	म.न. 55, हीरानगर, थाना एवं जिला—हमीरपुर, हि.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ सीएसकेरचपीके वी/04	2.6.80

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	मता	सेवानिक आर्हताएँ	जन्मतिथि
920	वोर्कमैन लीटिंग, पुत्र श्री फुर लिंगशियांग	मेघएसवीसी /222/05	द्वारा नियांगती फेयर ग्राउन्ड शॉप, बौलाई, नौंगडेंग, ब्लॉक सी, शिल्लौंग-793008	बीवीएससीएंडएच/ सीएयू/05	18.10.80
921	वाई. संजीवा रेड्डी, पुत्र श्री गंगा रेड्डी	एपीएसवीसी /4248/05	द्वारा शीनिकस इसन्ना वीडियो, अब्बेडकर चौक, आदिलाबाद-504001, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एससीएसएयू/05	8.9.79
922	यदुनंदन टी.वी., पुत्र श्री आर. वैंकट चलइयाह	कर्ना/3649 /	थोरे होसूर, मयनाकन्नाहल्ली डाक, घन्नापटना तालुक, बंगलौर	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	20.7.81
923	यप्पुरवार पंढारी नाथ, पुत्र श्री नागनाथ राव	एपीएसवीसी /4147/04	म.न. 3-1-197, अयप्पा नगर, सिरसिला रोड, कामा रेड्डी, निजामाबाद जिला, आंध्र प्रदेश	बीवीएससीएंडएच/ एमएस्टेट्सएयू/03	28.6.80
924	येरागुंटला श्री कांत, पुत्र श्री चीना पालइयाह	एपीएसवीसी /4230/05	द्वारा वाई.जी. स्टीवेन्सन, लांकाजंडापल्ली रोड, दारसी, प्रकासम जिला, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	5.8.80
925	येरागुंटला स्वाथलथा, पुत्री श्री सायदुलु	एपीएसवीसी /4260/05	म.न. 6-3-107, बैंक कॉलोनी, खम्मम-507002, आ.प्र.	बीवीएससीएंडएच/ एनजीआरएयू/05	19.8.78
926	यश पाल सिंह जांगीर, पुत्र श्री रण सिंह	राजएसवीसी /3182/04	नए सरकारी अस्पताल के सामने, सुभाष नगर, सदूलपुर, चुरु, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	1.7.80
927	योगदत्त शुक्ला, पुत्र श्री कुबेर दत्त शर्मा	राजएसवीसी /3187/04	वार्ड न. 39, म.न. 65, सुरसिया, हनुमानगढ़, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	12.11.79
928	यशवंथ कुमार सी., पुत्र श्री चिक्काठिमा गौडा	कर्ना/3658 /	त्यागराज मौह, चामुँडेश्वरी मंदिरगली, बन्नूर, टी.एन.पुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक	बीवीएससीएंडएच/ यूएसबंगलौर/04	13.3.81
929	योगेन्द्र सिंह राजावत, पुत्र श्री प्रभु सिंह रावत	राजएसवीसी /3135/04	746, देवीनगर, नया सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ पीएयू/04	21.8.80
930	योगेश कुमार, पुत्र श्री एल.सी. सोमवर्षी	राजएसवीसी /3188/05	बी-6, सरस्वती कॉलोनी, टॉक फाटक, जयपुर, राजस्थान	बीवीएससीएंडएच/ आरएयू/05	11.9.78

क्र.सं.	नाम	पंजी. सं.	पता	शैक्षणिक अर्हताएं	जन्मतिथि
931	योगिता तिवारी पुत्री श्री मुरलीधर तिवारी	एमपीएसवी सी/2240/ 04	म.न. 29, स्नेह नगर कॉलोनी, सेंट्रल जैल के पीछे, सागर, म.प्र.	बीघीएससीएंडएच/ जेनकेवीवी/03-04	30.6.80
932	गोगराज सिंह तोमर, पुत्र श्री शिशुपाल सिंह तोमर	एमपीएसवी सी/2243/ 04	38, गांधी कॉलोनी, मोरैना (म.प्र.)	बीघीएससीएंडएच/ जेनकेवीवी/03-04	24.9.77

डॉ. अनुप भौमिक, सचिव

[विज्ञापन II/IV/141/2005/असा.]

### VETERINARY COUNCIL OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2006

**F. No. 10-7/2005-VCI.**— Whereas the Veterinary Council of India in pursuance of sub-section(1) of Section 23 of Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) is required to maintain a register known as Indian Veterinary Practitioners Register which shall contain the names of all persons who possess the recognised veterinary qualification and who are for the time being enrolled on State/UT Veterinary Council of the State to which this Act extends.

Now, in exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 23 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984) the Secretary, Veterinary Council of India, directs that Supplements to Indian Veterinary Practitioners Register, 2005 shall be published in the Gazette of India for general information.

<b>S/N</b>	<b>NAME</b>	<b>REGN#</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
1	A .Satheesha S/o Appaji	KARNA/365 5/	Annur Bharathinagar post,Maddur Taluk,Mandy Dt.5714222,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	2.6.81
2	A. Senthu S/o Arugam.M.	KARNA/357 9/	No. 14/1, Venugopal Nagar, H.M.T. Layout, Nagasandra post, Bangalore-73	B.V.Sc./TNVAS UJ/03	19.3.79
3	A.Armsaveni D/o M.L.Annadoura	PondiSVC/2 27/04	No.24 Vallalar Street, Kosapalayam, Pondicherry	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	9.6.82
4	A.K. Santosh, S/o A.Kotappa	KARNA/368 8/	Hiraheggadahai post,Kudligi Taluk,Bellary Dt,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	6.3.82
5	Aashish Bansal S/o Ashok Kumar	RajSVC/319 2/05	437, Devi Nagar, New Sanganer Road, Sodala Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	5.11.80
6	Abdui Rais S/o Sh Sharfuddin	RajSVC/315 2/04	3416 Luharon Ka Khurra Near Masjid Ghat Gate Jaipur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	2.6.77
7	Abdulla.K,S/o Hydru.K	KeralaSVC/ 2936/04	Kinangatil House,Thiruvegapura PO,Patambi (Via),Palakkad- 679304,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	1.12.79
8	Abhijit Samanta S/o Sri Madan Mohan Samanta	WBSVC/308 0/04	Vill&PO-Lakshmisagar, Dt- Bankura, Pin-722160.West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	11.1.82
9	Abhilash.R S/o Remanan	KeralaSVC/ 2995/04	Puthumangalasseril (H), Kulangara Bhagom Chavara PO, Kollam,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	21.1.80
10	Abhilasha D/o Sh. Kewal Krishnan	Pb SVC- 257D/04	H.No.1221,St.No.6,Ahata Badan Singh,Moga ,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	6.7.79

<b>SLN#</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>MIS</b>
11	Abhishek Joshi S/o N.K. Joshi	RajSVC/319 4/05	Marudhar Printers Kabutar Chowk, Jodhpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	1.8.78
12	Abitha Ramachandran D/o P.E. Ramachandran	KeralaSVC/ 2907/04	Puthusseri Kunel, Opp Police Qtr Muvattupuzha Pin- 686661, Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	18.2.79
13	Achorn Reena Devi D/o A.Tikendrajit Singh	ManiSVC/39 0/05	Sagolband Bijoygovinda, Imphal, Manipur	BVSc&AH/CAU/ 05	1.3.81
14	Addanki Sucharita D/o Veera Swamy	APSVSC/42 50/05	D.No.64-13-8/3, Pratapnagar, Kakinada, E.G.Dt., AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	25.6.78
15	Afsha Firdous Mansuri D/o Shri Abdul Masjeed Mansuri	MPSVC/225 3/04	Plot No 433 H.NO.1982 Narmada Nagar, Raddi Chowki, Jabalpur (MP)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	25.5.79
16	Ahana Maitra S/o Shri S.K.Mitra	WBSVC/311 2/04	43 W.F.F.The Park PO-Ichapur Dt-24 Prgs (N), West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	18.12.81
17	Ahoka.H.S. S/o Siddamallegowda. H.M.	KARNA/359 2/	Honnenahalli, Hanike Post, Belur Taluk, Hassan Dt., Karnataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	5.8.81
18	Ajay Garg S/o Murari Lal Garg	HarSVC/180 7	858 Huda Sector-1, Rohtak	BVSc&AH/CCS HAU/03	21.3.79
19	Ajay Kumar S/o Sh. Gurbax Ram	Pb SVC- 2510/04	VPO Pholriwal Tehsil & Distt. Jalandhar, Punjab	BVSc & AH/PAU/00	08.08.74
20	Ajmal C.H,S/o C.H.Ibrahim	KeralaSVC/ 2966/04	Cholasseri House, Nooradi Vadakkemanna, Kodur PO, Malappuram-676504, Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	20.5.81
21	Ajmeera Jaggulal S/o Ajmeera Somla	APSVС/422 0/05	Garlavoddu, Enkoor(M), Khamman Dt-507 168 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	1.4.80

STUDY NAME	REGN	ADD	QUALIF	DOB
22 Akhila S.J.,W/o Boby Mohan	KeralaSVC/2957/04	Akhilam 15/923,Vazhuthacadu, Sasthamangalam,Thiruvananthapuram-695010,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	9.4.81
23 Akhilesh Sharma S/o Shri Mahesh Chandra Sharma	MPSVC/223 6/04	Vill&PO-Tavlai,Tehsil Manavar,Dt-Dhar (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	14.10.82
24 Alok Gaur S/o Krishna Gopal Sharma	RajSVC/319 7/05	Ward No.11, Badiyal Road, Bandikui, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	10.11.77
25 Amandeep Singh S/o Sh. Sukhdev Singh	Pb SVC-2544/04	Vill Phallar,P.o Sekhu ,Distt.Bathinda 151301,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	01.05.81
26 Amarendra Chowdhury S/o Late Sukumar Chowdhury	WBSVC/309 2/04	Vill-Barwa PO-Barwa Mohesh P.S.-Memari,Dt-Burdwan,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	7.8.81
27 Aramadh Reddy B.V. S/o Venkataravana Reddy	APSVC/416 8/04	Burlapalle(Via), b.Kothakota, Chittoor Dt-517370, Andhra Pradesh	BVSC&AH/U.A. S'P'lcore/04	16.6.80
28 Amit Kumar Mittal S/o Prem Kumar	RajSVC/315 7/04	M/s Deep Chand Prem Kumar Bajaj Nagar, Bharatpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA H/05	5.5.79
29 Amit Rai S/o Sh Jai Prakash Rai	HarSVC/184 1	Telephone Exchange Fatehabad Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	15.8.81
30 Amit S/o Sh Shobha Ram	HarSVC/183 4	VPO Bhalouth,Dt-Rohtak	BVSc&AH/CCS HAU/04	27.4.79
31 Amit Sen S/o Sh.B.S. Sen	HVC/697/04	V&PO-Drahal The-Joginder Nagar,Dt-Mandi,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	9.12.79
32 Amitabha Basak S/o Shri Abhilash Ch Basak	WBSVC/310 7/04	Khadipur Masterpara,PO&P.S.- Balurghat,Dt-D/Dinajpur,Pin-733101,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	22.12.81

SR#	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
33	Amrit Singh Gajebasia S/o Sh. Jagwant Singh	Pb SVC-2579/04	22,Ajit Nagar Patiala 147001,Punjab	BVSc & AH/PAU/02	14.09.78
34	Amritpal Kaur D/o Sh. Buta Singh	Pb SVC-2546/04	VPO Ghuman Kalan Distt. Bathinda,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	20.08.81
35	Anamika Chakraborty S/o Shri Arinal Bhattacharjee	WBSVC/314 3/05	Sabinara Bye Lane,Ratharsadak,PO-Chandannagar,Dt-Hooghly,Pin-712136,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	22.6.73
36	Anand Kumar Pandey S/o Shri Ram Prasad Pandey	MPSVC/220 4/04	C/o Dr.R.P.Pandey,Near Kapoor Bangla, Dhavari, Satna (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03+04	5.7.80
37	Anand Kumar S/o Mahadevappa	KARNA/360 7/	House No.147, Gundoor post, Basavakalyan Taluk, Bidar-585419,Kamataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	1.6.82
38	Anand Prakash S/o Sh Ramanand Chohan	HarSVC/184 7	W.No.8VPO Bawani Khere Bhiwani,Haryana	BVS&AH/CCS HAU/04	20.9.81
39	Anand Prakash Vyas S/o Sh Jethmal	RajSVC/310 8/04	28 Janakpuri I Inside Imli Phatak Jaipur Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/58	9.5.34
40	Ananda Kumar.B.S., S/o N. Sriramareddy	KARNA/365 3/	Bannahalli Kaiwara post Chinthamani Taluk,Kolar Dt-Kamataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	24.9.80
41	Anantha Lekshmy.C,D/o C.P.Anantha Krishnan Nair	KeralaSVC/ 2908/04	Lekshmy Vihar, Vencode,PO-Vattappara,Thiruvananthapuram-695028,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	30.5.80
42	Anil Gattani S/o H.C. Gattani	RajSVC/316 1/04	157, Gattani Sadan Dadabari Extension Kota, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	13.10.80
43	Anil K S/o T.R. Kesavan	KeralaSVC/ 2963/04	Aiswarya Bhavan, Chalunkal,Keezhvaipur PO, Pathanamthitta,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	18.5.79

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
44	Anil Kumar Maharshi S/o S.P. Sharma	RajSVC/317 5/04	5-C-18 J.N.V. Colony, Bikaner, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	21.6.79
45	Anil Kumar S/o Sh Rajender Singh	HarSVC/182 1	166/35 Naya Padav Near Manav Sewa Sangh Despensary Rohtak,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	17.9.81
46	Anil Kumar S/o Sh Satyanarayan	HarSVC/182 3	VPO-Kothal Khurd Distt- M/garh,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	13.6.77
47	Anil Kumar S/o Sh.Surinder Kumar Sethi	Pb SVC- 2557/04	Gali No 1,Adarsh Nagar,H.No.1039-A,Fazilka ,Dt- Ferozepur,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	26.04.82
48	Anil Kumar Sharma S/o Shri Virendra Kumar Sharma	MPSVC/226 1/04	Sabzee Mandi,Sainik Tent House, Porsa, Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.1.80
49	Anil Rana S/o Sh P.C.Rana	HVC/686/04	V.P.O.Lower Bhambla,The- Sarkaghat Distt,Mandi, H.P.	BVSc&AH/CSK HPKV/04	27.2.81
50	Anil Shripatrapo Kendre S/o Shripatrapo Kendre	APSVC/415 3/04	Agri Gold Farms Ltd., Amruthavarishini Project, Keesara, Gandepalli, Kanchikacherla(M), Krishna Dt-	BVSC&AH/MAU /95	18.1.72
51	Animesh Dhara S/o Sh Ranjit Kumar Dhara	WEISVC/310 8/04	Kalinagar, Diamond Harbour,Dt- 24 Prgs(s),Pin-743331,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	15.1.81
52	Anitha.K.V. D/o Chandrashekhar	KARNA/366 3/	Sr.Lakshmi Nilaya,Opp.Police Quarters,Banavara Post,Arskere Taluk,Hassan Dt,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	25.5.81
53	Anju Krishna Kumar Nair D/o Krishna Kumar Nair	KeralaSVC/ 2989/04	B-57 Aakar Ng, Near Friends Colony,Kotal Rd, Nagpur, Maharashtra	BVSc&AH/MA& FSU/04	8.2.82
54	Anju Vig D/o Sh.Subhash Vig	Pb SVC- 2534/04	Krishna Avenue,Ward No 8,Dasua,Distt Hoshiapu,Punjab.	BVSc & AH/PAU/04	22.11.80

<b>SLN#</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALF</b>	<b>DOB</b>
55	Ankur Shrivastava S/o Shri Hari Om Shrivastava	MPSVC/225 8/04	52, Shastri Nagar, Shivpuri (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	4.3.79
56	Ankush Reddy, S/o Sanjeev Reddy	KARNA/360 8/	Kitta post, Basavakalyan Taluk, Bidar-585327,Karnataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	19.3.82
57	Annie Thomas	GoaSVC/13 2	23,Sagar Corop.Housing Society, Dona Paula-Goa	BVSc&AH/MAF SU/04	
58	Anoop John Peeris S/o J. Baptist Peeris	KeralaSVC/ 2889/04	T.C.31/720(1),St.Antony Villa,Moonammanakkal Petch,Thiruvananthapuram- 695024	BVSc&AH/KAU/ 04	1.2.80
59	Anoop Kumar Nayak S/o Shri D.P. Nayak	MPSVC/223 5/04	Near Head Post Office, Datia (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	19.12.79
60	Anshu RajS/o Sh Desh Raj	HVC/696/04	VPO-Ustehar,The-Bajnath,Dt- Kangra,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	13.5.82
61	Anshul Chandel S/o Hoshiaj Singh	HVC/687/04	V.Baddu,P.O.-Bari- Mjherwan,The- Ghumarwin,Bilaspur,H.P.	BVSc&AH/CSK HPKV/04	1.6.81
62	Anuj Chauhan S/o Sh.Y.P.Singh	HarSVC/184 3	29 Ashoka Enclave (Main) Faridabad	BVSc&AH/CCS HAU/04	25.5.81
63	Anup Kumar.P.K. S/o Kushalappa.P.A	KARNA/364 6/	No 49,Amco Layout,Kodigenahalli Sahakamagar post,Banglore-92	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	11.12.81
64	Anuradha Menon.E W/o S.Bhagat	KeralaSVC/ 2917/04	T.C.House,Kuruppam Road, Thrissur-680001,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	18.11.04
65	Anuradha Menon.E. D/o T.C.Balachandran	KARNA/369 1/	470,8 A Main ,Ist A Cross,Fourth Clock,Koramangala- 560034,Karnataka	B.V.Sc. & A.H./KAU/04	18.11.79

SNM NAME	RNUM	ADD	QUALF	DOB
66 Aparna Das S/o Sri Raghunath Das	WBSVC/307 5/04	Vill &PO- Ratanpur Dt-Hooghly,Pin-712614.West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	10.4.82
67 Arun Kumar Rooj S/o Sri Asok Kumar Rooj	WBSVC/307 7/04	Nazrul Sarani Saithia Dt-Birbhum,Pin-731234,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	5.4.82
68 Arun Maurya S/o Shri Mannulal Maurya	MPSVC/221 1/04	H-17/24,Darpan Colony, Murar, Gwalior, M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	2.10.81
69 Arun V. S/o E.M.Velayudhan	KeralaSVC/ 2953/04	Ezhupurathu House, Kuttichira PO, Chalakudy, Thrissur- 680724,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	11.4.81
70 Arun.S S/o Sh Sasidharan Nair	KeralaSVC/ 2900/04	Saran Niwas,T.C.34/511 Konathukulangar,Gandhimath Rd,Vattiyoorkkavu,Trivandrum,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	5.4.80
71 Arunkumar.G.B. S/o basavarajappa.G.	KARNA/358 7/	Bada (At Post), Davanagere Taluk & District, Bada- 577514,Kamataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	10.5.81
72 Arvind Kumar Methania S/o Shri Murali Singh Methania	MPSVC/226 7/04	Mahakal Maidan, Ujjain (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	28.4.79
73 Arya Alphonse,D/o L.Alphonse	KeralaSVC/ 2897/04	Kakkariyil House,Punnapra PO,Alappuzha-688004,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	23.5.79
74 Ashalatha .K. D/o Krishne Gowda.R	KARNA/367 4/	#6500,6th Cross,Salagame Rd,Saraswathipuram,Hassan - 573201,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	8.9.81
75 Ashim Sarkar S/o Sh Abhimanya Sarkar	WBSVC/309 7/04	Vill&PO- Bhandari,P.S.- Dhupguri,Dt-Jalpaiguri,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	15.5.78
76 Ashish Jain S/o Shri A.K.Jain	MPSVC/226 2/04	P-173 Shiv Nagar, Damoh Naka, Jabalpur (MP)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.10.76

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALI	DOB
77	Ashish Kumar Dubey S/o Shri Sushil Kumar Dubey	MPSVC/226 5/04	Veterinary Colony,Agra Mohalla Panna (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	27.1.80
78	Ashish Kumar Godani S/o Shri G.D.Godani	MPSVC/218 5/04	Nutan Medical Store, Udaipura,Raisen (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/02-03	1.07.78
79	Ashish R. MarakS/o Shri Promud Gagra	MeghSVC/2 33/05	C/o Dr.Bibha R.Marak Willimnagar Civil Hospital East Garo Hills Meghalaya-794111	BVSc&AH/AAU/ 05	19.7.77
80	Ashish Sachdeva S/o Sh Subash Sachdeva	RajSVC/315 0/04	1/3 Housing Board Colony Sawaimadhopur Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	25.7.78
81	Ashish Tiwari S/o Late Shri Sadashiv Tiwari	MPSVC/221 8/04	Junior MIG 65 Old Subash Nagar, Bhopal,M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	12.4.77
82	Ashok Kumar Arean S/o Suresh Chand	RajSVC/317 8/04	Near Police Thana main market, Bansur Alwar, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	12.8.80
83	Ashok Kumar Devarasetti S/o Punnaiah	APSVC/419 8/05	Santhinagar-II Lane, Chuttugunta, Guntur Dt-522 004 A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/05	22.3.80
84	Ashok Kumar Mittal S/o Sh Ram Mittal	RajSVC/312 1/04	Mahaveer Hotel,Near Polovictory Cinema,Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/Uni of Udaipur/80	7.3.54
85	Ashok.K.R. S/o B.K.Raju	KARNA/363 3/	House No.7/4,"A" Arkanath Road,A Block ,Kamataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	29.4.81
86	Ashokashetty,S/o Mohan Shetty	KARNA/363 4/	Degadekodi House,Karambaru(V),Tenkakara ndoar post,Belthangady,Dakshina	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	25.1.81
87	Ashutosh Wadhwa S/o Sh Suraj Wadhwa	RajSVC/313 2/04	45 E Block Sri Ganganagar,Rajasthan	B.V.Sc&AH/CSA UA&T/04	16.5.80

STUDY NAME	REG. NO.	ADD.	QUALIF.	DOB
88 Asim Kumar Nandi S/o Shri Dhananjoy Nandi	WBSVC/313 1/04	Vill-Baghason,PO-Maladanga Dt-Burdwan,Pin-713145,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	25.01.81
89 Asish Kumar Maiti S/o Sh Ajit Kumar Maiti	WBSVC/309 9/04	Vill-Danichak PO- Jasorajpur Dt-Midnapore,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	12.11.81
90 Asma Sheikh D/o Shri Shakil Ahmed Sheikh	MPSVC/219 7/04	22,Khari Baodi,Dewas (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	18.6.82
91 Aswathy.G, D/o C.C.Gopi	KeralaSVC/ 2954/04	Iyyani House, Anjumoorthy PO, Mangalam,Palakkad- 678682,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	16.4.79
92 Atal Bahadur S/o sh. Subhash Chander	Pb SVC- 2526/04	C.o Joginder Paul Subhash Chander VPO Lambra .Jalandhar,Punjab	BVSc & AH/PAU/98	19.07.76
93 Atul Singh Parihar S/o Sh Roop Singh Parihar	MPSVC/220 9/04	Block Colony, Tehsil Lahar, Dist- Bhind (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	7.4.81
94 B. Rajesekhar Reddy S/o Virupaksha Reddy	APSVC/424 4/05	Pullapuram, Ternakal(P.O), Devanakonda(M), Kurnool Dt., AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	4.6.79
95 B.C.L. Gnana Sravanthi D/o B. Y. Sarath Chandra	APSVC/428 1/05	21/275-4-2, Railpet, Machilipatnam - 521 001: Krishna Dt., A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	28.11.80
96 B.Gobu S/o E. BalaSubramanian	PondiSVC/2 09/04	23 Block,Door No.10,Govt. Quarter Lawspet,Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	14.10.80
97 B.Shubba Lakhsmi D/o K.P.Bhaskaran	APSVC/421 5/05	MIG-81, Phase-I, Madhava Nagar, BHEL, R.C.Puram, Hyderabad-502 032 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	16.6.80
98 B.Velmurugan S/o Balaraman	PondiSVC/2 28/04	K- 28,O.K.Palayam,T.M.Nagar,Pon dicherry-4	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	9.10.81

<b>SL. NO.</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
99	Babu Lal Meena S/o Danna Ram Meena	RajSVC/316 9/04	Vill Gator near Jawahar Circle, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	2.3.77
100	Bakul Deo S/o Krishan Deo	RajSVC/318 5/04	Ashadeep Piprali Road, Sikar Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	10.7.80
101	Balasaheb Pawar S/o Sh Bhagwan	RajSVC/311 9/04	Veterinary Hospital,Hire Ki Dhani,The-Baytu,Barmer, Rajasthan	B.V.Sc&AH/Kon kan Agril Uni/96	24.4.73
102	Baldev Ram Jakhar S/o Sona Ram	RajSVC/318 6/04	Swaraj, 135 Golf Course Scheme Jodhpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	26.9.75
103	Balendra Prsand Shukla S/o Shri Yaduvansh Prasad Shukla	MPSVC/222 1/04	Vill-Awera,PO-Hanumangarh,Dt-Sidhi (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	13.10.61
104	Baljinder Singh S/o Sh.Ujagar Singh	Pb SVC- 2572/04	Moti Bagh Colony,St.No.2 Nabha,Patiala,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	16.09.81
105	Balwan Singh S/o Munshi Ram	RajSVC/311 7/04	Vill Leekhwa,Jhunjhunu Rajasthan	B.V.Sc&AH/CC SHAU/93	6.4.68
106	Balwant Singh S/o Sh Bakhtawar Singh	HarSVC/181 2	V Rajpura,PO-Gulkani Dt-Jind,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/03	16.1.73
107	Banomali Roy S/o Shri Bajra Kanta Roy	WBSVC/312 9/04	Vill&PO-Dhunerkhata,P.S.Sitai,Dt-Coochbehar,Pin-736167,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	5.4.80
108	BanShaolang Kupar Blah S/o (L) Mr. A.M.Rapthap	MeghSVC/2 31/05	C/o Mrs.J.M.Blah Jaiaw, Lumpylon Shillong-793002,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/ 05	3.10.79
109	Barnali Chandra S/oLate Sh Tamal Kanti Chandra	WBSVC/311 7/04	Rabindrapally (Pirtala),PO-Suri,Dt-Birbhum,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	13.5.81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
110	Barowa Manikee Maduri D/o Mr. S.S. Barowa	AssamSVC/ 2196/05	Mathur Bhawan, Uzan Bazar, M.G Road, Guwahati- 781001, Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	27.8.80
111	Baruah Samprity S/o Sh Narayan Ch Borah	AssamSVC/ 2176/05	Directorate of Physical Plant, AAU, Jorhat-13, Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	31.8.81
112	Barun Biswas S/o Sri Kisori Mohan Biswas	WB SVC/307 9/04	Vill-Chilakhali PO- Karraigachi, Dt- Nadia, West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	22.10.81
113	Basavaraj S. Sajan, S/o Sangappa	KARNA/362 1/	Kuntoji post, Muddebihal Taluk, Bijapur Dt-586245, Karnataka	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	22.07.81
114	Basavarajendra Biradar, S/o Shidramappa Gowda	KARNA/362 2/	Gabasavalgi post, Shindagi Taluk, Bijapur-586123, Karnataka	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	31.12.79
115	Ballamkonda Nagamani D/o Narayana	APSVC/422 8/05	H.No.11-18, Bonakal, Khammam- 507 204, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	25.6.81
116	Bhaskar.M S/o Adinarayana Reddy	APSVC/427 9/05	H.No.19-4-3R/3, Venkatreddy Colony, II cross, Tirupati - 517501, Chittoor dt., A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	26.10.79
117	Bhatt Sanket Kumar Mahimbhai	Gujsvc/2528 /04	5, Trupti Society, Near Bus Stand, Jitodia, Pin-388345, Anand, Gujarat	BVSC&AH/GAU /01	10.11.78
118	Bhawan Deep Kaur Kaler D/o Sh. Nachhatter Singh Dhillon	Pb SVC- 2522/04	H.No.58-B, Bhai Randhir Singh Nagar, Ludhian, Punjab.	BVSc & AH/PAU/04	16.05.81
119	Bhupinder Singh S/o Sh. Sohan Singh	Pb SVC- 2558/04	VPO Banbhaura, Tehsil Malerkotla, Distt. Sangrur, Punjab	BVSc & AH/PAU/04	30.09.82
120	Bhupinder Singh S/o Sh. Tirath Ram	Pb SVC- 2509/04	Vill Duggan P.o Domeli, Distt. Kapurthala, Punjab	BVSc & AH/PAU/04	31.07.74

<b>SLN#</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALF</b>	<b>DOB</b>
121	Biju.S. S/o C.E.Sivan	KeralaSVC/ 2899/04	Chirangara House,Methala PO, Kuruppampady(Via), Ernakulam- 683545,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	28.11.77
122	Bikya Banavath S/o Anthiya	APSVC/421 9/05	Seetharamnagar, Koonapar(P), Via: Kadthal, Mahboobnagar dt- 509 321,A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/05	3.2.79
123	Bimal C.B. S/o Bhaskaran C.M.	KeralaSVC/ 2944/04	Chakkingal House,Nadathara PO, Iyka Nagar, Thrissur- 680751,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	6.11.79
124	Binesh K. S/o Vijayan M	KeralaSVC/ 2975/04	Muthukatti House, Gramakkalam,Uppada Po- Chungathara,Malappuram- 679354,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	1.8.77
125	Bini V.R. D/o Rajappan V.R.	KeralaSVC/ 2941/04	Vanibhapurakkal House, Mudiyoorkonam PO, Pandalam,Pathanamthitta- 686516,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	30.5.79
126	Binjoy Chacko S/o Sh Chacko Joseph	KeralaSVC/ 2906/04	Pazhayachira House, Mammoodu PO,Changanassery,Kottayam- 686553,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	2.5.81
127	Birender S/o Sh Mehar Singh	HarSVC/181 6	1375/31,Shastri Colony,Sonipat, Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	3.2.80
128	Birender Singh S/o Sh Kalu Ram Yadav	HarSVC/184 9	393/22 Shivaji Park, Gurgaon,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/03	15.3.78
129	Birendra Pratap Singh S/o Shri Ramhet Sharma	MPSVC/224 5/04	Behind Jain Mandir,Purani Basti,Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/04-05	7.7.80
130	Birpal Singh S/o Sh. Ranjit Singh	Pb SVC- 2523/04	H.No.779.W-5,Dr.Garcha St, GT Road ,Moga,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	07.02.81
131	Biya Ann Jose S/o Leon Ittiachen	KeralaSVC/ 2898/04	3/133 Merli, Vazhapilla House, Nellikunna PO, Thrissur-680 005,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	28.6.79

SLNO	NAME	REGNUM	ADD	QUALIF	DOB
132	Blessa Meritha Ch Momin D/o Mr. Bimal Ch Hajong	MeghSVC/2 28/05	C/o Shri Bimal Hajong AB Mission Compound Tura,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/ 05	13.10.78
133	Boddana Sri Devi D/o Jagannadha Rao	APSVC/422 5/05	Bhavaji Nagar, Balage(Near Hospital Jn) Srikakulam, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	9.5.81
134	Bollapragada Swathi Ayyappa D/o Narayana Rao	APSVC/427 3/05	D.No.51-10-7, Puram vari Street, Jagannaikpur, Kakinada - 2. E.G. Dt., A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	21.1.79
135	Bonigala Suchitra D/o Mohana Rao	APSVC/425 3/05	Retd. Principal, Ramnagar, Addanki Prakasam Dt-523 201, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.8.80
136	Borah Krishna Prashad S/o D. Borah	AssamSVC/ 2166/04	Vill-Kawoimari,PO- Haiborgaon,Dt-Nagaon, Assam	BVSc&AH/AAU/ 04	31.12.78
137	Borah Lakhya Jyoti D/o H.N. Borah	AssamSVC/ 2179/05	Vill-Chalchali Rangiagaon,PO- Chalchali,Nagaon,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	24.11.80
138	Borah Mukul S/o Mr. Naren Borah	AssamSVC/ 2193/05	PO-Pathalipam,Vill-Kanandi,Dt- Lakhimpur,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	1.1.78
139	Bordoloi David S/o Atul Ch Bordoloi	AssamSVC/ 2197/05	No.- 2,Panigaon,Luihitpur,Nagaon,As- sam	BVSc&AH/AAU/ 05	1.2.80
140	Bordoloi Sanjib Kr S/o Sri P.R. Bordoloi	AssamSVC/ 2163/04	Vill-Hugaltoli, PO-Dighalbori,Dt- Morigaon,Pin-782105,Assam	BVSc&AH/AAU/ 04	31.3.76
141	Bostami Bayjut S/o Ali Ahmed	AssamSVC/ 2187/05	Town-Mangaldoi, Ward No.- 2,PO-Mangaldoi,Dt-Darrang,Pin- 784125	BVSc&AH/AAU/ 05	3.4.80
142	Brightstar Langbang S/o Shemminot Shadap Manner	MeghSVC/2 34/05	31/2 Mile Upper Shillong Meghalaya-793005	BVSc&AH/AAU/ 05	13.7.81

SL. NO.	NAME	RNUM	ADD	QUALIF.	DOB
143	Brijesh Kumar Niwaria S/o Shri L.P.Niwaria	MPSVC/221 6/04	B_41,S.P.M.Colony,Hoshangababu,M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	2.11.78
144	Buduri Subramanyam S/o Venkateswarlu	APSVC/423 6/05	VDO(Retd), Kondapi, Prakasam, Dt- 523 270 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	31.8.79
145	Bulbul Bakchi S/o Shri Vivekananda Bakchi	WBSVC/311 9/04	Vill&PO-Bharatpur,P.S.- Bongaon,Dt-24Prgs (N),West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	6.12.80
146	C. Rajendran S/o A. Chellaiah	AssamSVC/ 2169/05	Parasitology Lab Defence, Research Laboratory,P.B.No.- 2,Tezpur,Pin-784001,Assam	BVSc/TNVASU/ 89	28.11.73
147	C.Srinivas Rao S/o C.Balram	APSVC/417 0/04	Rahimanpuram, Harischandrapuram(P.O.), Srikakulam Dt- 532 430, Andhra Pradesh	BVSC&AH/U.A. S Dharwad/04	13.11.81
148	Ch. Leela Swarna D/o Ch. Koti Nagaiah	APSVC/429 0/05	H.No.6-11/3, Sri Priya Complex, Flat No. 4, Kakutpally, Hyderabad. A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	24.5.79
149	Ch. M.K. Reddy S/o Ramana Reddy	APSVC/422 1/05	South Mopuru, Nellore Dt., AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	5.5.78
150	Ch.Lakshmi Bai W/o T.Narasimha Murthy	APSVC/415 0/04	C/oT.Narasimha Murthy,Makenapalem,Mamidikud ur(M),E.G.Dt. A.P	BVSC&AH/TNV ASU/93	23.11.69
151	Chalapati Rao Challa S/o Venkata Subbaiah	APSVC/420 1/05	A. Kothapalem, Vinukonda(M), Guntur Dt- 522 647 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	27.2.79
152	Chamaraju S/o Sambaiah	KARNA/363 6/	Anegalli,K.G. Halli Post,H.D.Kote Taluk,Mysore Dt.,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	1.6.80
153	Chandan Chatterjee S/o Late Sh Mahendra Nath Chatterjee	WBSVC/313 7/04	5/1 Kashiram Das Road, B- Zone,Durgapur-5,Dt- Burdwan,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	5.12.81

SLN#	NAME	INUM	ADD	QUALF	DOB
154	Chandan Kumar Singh S/o Smit Vijay Saini	HVC/705/04	Near Telephone Exchange, PO-Saproon, Distt-Solan, H.P.	BVSc&AH/CSK HPKV/04	14.7.78
155	Chandan Mukherjee S/o Sri Debidas Mukherjee	WBSVC/310 9/04	Vill&PO-Bejdih(Loco Side Colony), Dt-Burdwan, Pin-713359, W.B.	BVSc&AH/WBU AFS/04	2.01.81
156	Chandini Herman D/o Herman Andrews	KeralaSVC/ 2972/04	TC.XIII/434-1, Thampuran Juction, Kunukuzhy PO, Trivandrum-695037, Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	21.3.79
157	Chandrakant Asati S/o Shri R.C.Asati	MPSVC/221 7/04	Tawa Colony, Near Railway Station, Sohagpur, Dist-Hoshangabad (M.P)	BVSc&AH/JNKV 2.7.79 V/03-04	
158	Chandrani Saha S/o Shri Ashis Kumar Saha	WBSVC/310 2/04	Rental Housing Estate, Flat No. B-1/12, PO-Islampur Dt-Uttar Dinajpur, W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	3.6.81
159	Chandrashekhar.M. S/o Mahadevaih. T.S.	KARNA/359 3/	Thamadi halli, Yalandu post, C.N Halli Taluk, Tumkur Dt., Karnataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	4.4.81
160	Chandrashekhar Siddappa Buradikatte, S/o Siddappa	KARNA/359 0/	Veerapur Post, Hirekerur Taluk, Maveri-Dt - 581210, Karnataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	2.8.80
161	Charan Singh Sharma S/o Shri Kilendra Sharma	MPSVC/221 0/04	Vill&PO-Barkhedi, Dt-Bhind (M.P.)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	15.12.76
162	Charanjit S/o Sh Hoshiar Singh	HVC/699/04	Vill&PO- Ruanda, The-Sunder Nagar, Distt-Mandi, H.P.	BVSc&AH/CSK HPKV/04	2.2.80
163	Charlette Elvina Fernandes	GoaSVC/13 4	SF-1, Kiran Apartments, Airport Road, Chicalim, Goa-403711	BVSc&AH/MAF SU/04	
164	Charlie Chhansanga Chawngthu S/o C.Ramthianghlima	MizSVC/149 /04	Bazar Veng, PO-Lawngtlai, Mizoram	BVSc&AH/AAU/ 04	10.8.78

SR. NO.	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
165	Chaturbhuj Nagar S/o Shri Gayaram Nagar	MPSVC/223 2/04	Vill-Rasodhana(Haar)PO-Baghel,Tehsil Jore,Dt-Moren (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.12.71
166	Chetai Medulkumar Chandulal	Gujsvc/2554 /05	To Gondal "Aksharkunj", Punit Nagar Society,Gondal,Gujarat	BVSc&AH/GAU/ 02	16.7.80
167	Chillara Nageswar Rao S/o C. Subba Rao	APSVC/428 0/05	Flat No. G2, Parimala Brindavan Apts., Alkapuri, Hyderabad - 35, A.P.	BVSC & AH/APAU/74	23.6.51
168	Chitithoti Jyothi Sree D/o Madhava Rao	APSVC/425 2/05	Behind Sarma College, Sanjay Gandhi Colony, Ongole-523 001, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	1.8.81
169	Chitwan Kawatra S/o Sh Ganesh Das	RajSVC/312 6/04	Ghanshyam Das Ganesh Das Punjabi Cloth Merchant, Kotputli, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/JNK VV/04	1.3.79
170	D Panneer S/o Devarasupillai	PondiSVC/2 37/04	14, Thiruvalliuvan Street, Pakkammudayanpet, Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	2.1.82
171	D.R. Ashoka S/o K.Ramachandra Reddy	KARNA/365 6/	K.Devanahalli Korlapurthy post,Chinthamani Taluk,Kolar Dt,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	2.4.81
172	D.S. Kumara Wodeyar,S/o D.S.Anandagiri Wodeyar	KARNA/368 0/	Mylara post,Hadagali Taluk,Bellary Dt 583217,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	21.9.81
173	D.SaranyaD/o Dhanasekaran	PondiSVC/2 33/04	No.18 West Main Road, Brindavan, Pondicherry-13	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	19.7.82
174	Daisy Saha S/o Shri Shantanjeev Pathak	WBSVC/311 6/04	North Chakhabani PO-Balurghat,Dt-D/Dinajpur,Pin-733101,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	15.3.80
175	Dajeet Singh S/o Sh Amar Singh	HarSVC/182 4	313 Water Works Road Kalanwali Sirsa,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	4.11.80

SLNO	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
176	Das Bikash Ranjan S/o Dr. L.C.Das	AssamSVC/ 2168/04	Nizarapar Chandmari Colony,Guwahati-3,Assam	BVSc&AH/AAU/ 03	11.4.78
177	Das Daisy D/o Late Prafulla Ch Das	AssamSVC/ 2175/05	Gandhibasti Tipam Enclave A 403 Guwahati-3,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	1.9.79
178	Das Raja S/o Late Bijoy Ranjan Das	AssamSVC/ 2173/05	Sowjipar, Diffloo Road, PO-Bokakhata Dt-Golalghat, Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	2.8.78
179	Dayananda.T.S. S/o Siddappa	KARNA/364 5/	Thimmanahalli post,Chikkanayakanahalli Taluk, t umkur Dt,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	20.4.81
180	Debanu Jit S/o Shri Benugopal Jit	WBSVC/312 5/04	Vill-Dulalpur,PO-Basudebpur,Dt-Purab,Midnapore,Pin-721452,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	7.01.82
181	Debashis Roy S/o Shri Kashi Nath Roy	WBSVC/312 4/04	Vill-Apurbapur,PO-Singur,Dt-Hooghly,Pin-712409,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	01.01.81
182	Deborah M.Rodrigues	GoaSVC/13 0	C/o Maria Goretti,Confraria Candolim,Bardez-Goa-403515	BVSc&AH/MAF SU/04	
183	Deep Kumar S/o Sh Kalu Ram	HVC/707/04	Vill&PO- Gumma,The-Joginder Nagar, Distt-Mandi, H.P.	BVSc&AH/CSK HPKV/04	30.1.81
184	Deepa P.K.D/o K.Viswanathan	KeralaSVC/ 2934/04	Krishnaprasadam,Chirakkad,Kun-nathurmedu,Palakkad-678013,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	24.12.80
185	Deepak Dhapke S/o Shripat Rao Dhapk	RajSVC/313 1/04	Jamna Lal Jat V&P Lasdawan, Nimbahare,Chittorgarh, Rajasthan	B.V.Sc&AH/Dr.P DKVP/97	10.3.74
186	Deepak E.V. S/o E.S. Velayundhan	KeralaSVC/ 2965/04	Ettungalpadi House, Kalady PO, Emakulam-683574,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	10.4.81

SLNO	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
187	Deepak Gupta S/o Shri Suresh Babu Gupta	MPSVC/220 1/04	H.No.179 Usha Colony, Dabra Dist, Gwalior (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	17.8.80
188	Deepak Kumar S/o Sh Rajender Singh	HVC/689/04	Amman-Patwarian, The-Bhoranj, Distt-Hamirpur, HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	2.11.79
189	Deepak Kumar Sisodiya S/o Sh Keshavrao	RajSVC/311 3/04	Vety Hospital,Jhinjhiwali,Jaiselmer,Rajasthan	B.V.Sc&AH/MA U/96	20.9.72
190	Deepmala Agrawal D/o Shri K.P.Agrawal	MPSVC/220 3/04	Deepak Collection, Gopal Market, Bijuri, Dist-Shahdol (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	24.3.80
191	Deepthi.L,W/o Arun John Thottapilly	KeralaSVC/ 2983/04	Arun Jyothy/Thottapilly House,Bypass Rd,Ollukkara PO,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	20.5.79
192	Deka Parul D/o Karuna Kanta Deka	AssamSVC/ 2180/05	C/o Karuna Kanta Deka, 24 Sanganaya Path,Sarvey, Beltola Ghy-28	BVSc&AH/AAU/ 05	22.9.81
193	Devendra Kumar S/o Yadram	RajSVC/317 0/04	Ward No. 13, Teh Nadbai, Bharatpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	28.2.79
194	Devesh Virag S/oSh Mangi Lal Virag	RajSVC/314 3/04	Satsang Bhawan Marg,Baran Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	2.9.74
195	Devi Archana Tarigoppula D/o Siva Kumar	APSVC/415 4/04	D.No.7-13-18/A, Vallurivari Thota, 6th Lane, Guntur, Andhra Pradesh	BVSC&AH/ANG RAU/04	12.11.79
196	Devi Sagarika D/o Sri T.C.Nath	AssamSVC/ 2162/04	Vill&PO-Madhupur,Dt-Nagaon,Assam	BVSc&AH/AAU/ 04	8.5.79
197	Devinder Singh S/o Sh.Kuldeep Singh	Pb SVC- 2567/04	VPO Manupur Tehsil & Distt. Fatehgarh Sahib,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	25.04.81

STUDY NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DATE
198 Devraj Mohan S/o Manickam	APSVC/417 6/05	Sangam Dairy, Milk Chilling Centre, Gurazala, Guntur Dt- 522 415,A.P.	BVSC&AH/Pond U/01	18.9.78
199 Dhananjaya Singh S/o Raghu Bansh Singh	KARNA/368 6/	H.No.2,Raja Colony,Maheshwari Nagar,Mahadevapura Po,Nr White Field, Main	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	21.6.81
200 Dhanya V.R. D/o V.Raju	KeralaSVC/ 2988/04	Venkalath House, Krishna Iyer Lane, Chembukkavu,Thrissur- 680020,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	7.1.79
201 Dharmendra Chharang S/o Sushil Kumar	HarSVC/180 9	2 Civil Line,Merta City,Distt- Nagpur,Rajasthan	BVSc&AH/RAU/ 01	2.10.76
202 Dharmendra Kumar S/o Chhotey Lal	RajSVC/314 5/04	H.No.2 N 19 Talwandi,Kota Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	27.3.74
203 Dheeraj Dhingra S/o R.N. Dhingra	RajSVC/319 3/05	4 E 153, J.N. Vyas Colony, Bikaner, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	6.2.79
204 Dheeraj Mehta S/o Sh Subhash Mehta	HarSVC/182 9	Ward -9,VPO Barwala,Dt- Hisar,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	26.7.80
205 Dheeraj Pratap Singh S/o Bhudeo	RajSVC/318 3/04	Pathariya House Mansa Colony, Sikar, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	11.12.78
206 Dhiraj Kumar Gupta S/o Banwari Lal	RajSVC/315 8/04	C/o Ramcharan Cloth Merchant Subhas Bazar, Shop No.6, Gangapur city Sawal Madhopur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	15.12.79
207 Dhiraj Sharanappa Mankari, S/o Prof. S.N. Mankari	KARNA/358 2/	Mukkam post Hulsurkhed Taluk,Aurad(B) Dt, Bidar (Kar.)	BVSc&AH/ MAU,Parabani/9 8	23.3.76
208 Dhirendra Choudhary S/o Shri Ramesh Chandra	MPSVC/224 1/04	Raghunandan Medical Store, Behind Kotwali,Padav,Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	18.4.77

SR. NO.	NAME	REG. NO.	ADD.	QUALIF.	DOB
209	Dilip Kumar Hajra S/o Shri Subal Hajra	WBSVC/311 4/04	Vill-Kripanandapur,PO- Kripanandapur,Dt-Purba Midnapur,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	23.2.82
210	Dilip Kumar Kala S/o Shri Kedarmal Kala	MPSVC/224 8/04	Jagdev Mohalla Tehsil Jhalsor,Dt-Ratlam (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	14.8.79
211	Dinesh Kumar Kanwerzay S/o Sh Kanheya	RajSVC/314 4/04	Near Hanuman Temple,Lanka Colony,Baran,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	20.12.74
212	Dinesh Kumar Meena S/o Sh Om Prakash	RajSVC/314 6/04	Vill-Derpura,The- Digod,Kota,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	30.10.79
213	Dinesh Kumar Sharma S/o Shri Ramhet Sharma	MPSVC/224 6/04	M.S.Road,Basant Nagar, Opp New Bus Stand, Jora, Dist- Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	7.7.80
214	Dineshwar Singh Tyagi S/o Shri Dataram Tyagi	MPSVC/218 1/04	Veterinary Hospital Campus, Icchavar, Dist- Sehore (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/78	20.11.54
215	Dipan Das S/o Sh Swapan Kumar Das	WBSVC/308 5/04	Vill-East Sekhpura,PO- Mogra, Dt- Hooghly Pin-712148,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	23.11.80
216	Divakar Rajaram Malvankar	GoaSVC/13 3	At-Kadshiwada,Post- Mopa,Pernem-Goa	BVSc&AH/MAF SU/04	
217	Dr. Ramesh Kumar Saini S/o Bhagwana Ram	RajSVC/319 5/05	D 9/150 Chitrakoot Scheme Vaishali Nagar, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	1.7.80
218	Duli Chand Arya S/o Sh BiL.Arya	RajSVC/311 4/04	Vill&PO-Balapura,Falodi,Swai Madhopur Rajasthan	B.V.Sc&AH/JLN KVV/99	2.4.73
219	Dutta Bhaba Jyoti S/o Sh Mahendra Nath Das	AssamSVC/ 2182/05	Upper Luitpur Road, Upper Luitpur Kharghuli, Guwahati- 781004, Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	17.6.81

<b>SR#</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DIS</b>
220	Ebebeni s/o Sh.Thungbemo	NSVC/0198/ 05	C/o Mrs.Lily Murry, Lecturer Modern College, Kohima,Nagaland	BVSC&AH/AAU/ 05	30.8.80
221	Edara Murali Mohan S/o Venkateswara Rao.	APSVC/426 9/05	Senior Asstt., MRO Office, Gudlur, Prakasam Dt., A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	22.8.78
222	Emie Roy D/o Roy Varghese	KeralaSVC/ 2912/04	Puthukunnath House,Kottappady PO, Thrikkariyoor (Via),Ernakulam- 686695,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	20.3.79
223	Fakkeeraappa Kaginielli ,S/o Basavantappa	KARNA/362 6/	Nelogal(p).Haveri Taluk & District,Haveri,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	1.4.80
224	Faseelamol M.A D/o M. Alavi	KeralaSVC/ 2937/04	Mundail House, Chokkad PO, Malappuram-679355,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	25.5.79
225	Femina Shrivastava S/o Dr.R.K. Shrivastava	MPSVC/226 9/04	Punjab Bank Colony, Infront of Neeraj Nursery, Jabalpur (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	19.7.80
226	G.Sacraverty S/o A. Govindarajalou	PondiSVC/2 23/04	33,Ponnambala Mudaliar Street, Muthialpet, Pondicherry-3	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	7.6.78
227	G.Sivakumar S/o Gnanapragasam	PondiSVC/2 46/04	14,Thiruvalluvar Street, Kamaraj Nagar, Pondicherry-11	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	13.9.81
228	G.Venkatesan S/o Giritharagopalan	PondiSVC/2 40/04	BG-5, Govt. Quarters,Lawspet, Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	25.10.81
229	Gajendrakumar.P.K. S/o Krishnamurthy.P.H.	KARNA/361 8/	S/o Sharadamma.G., Tekalavatti post, Holalkere Taluk,Chitradurga District- 577526,Karnataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	15.04.81
230	Ganesh Datta S/o Shri Sankar Ch Datta	WBSVC/312 0/04	Vill- Ghanarajpur,PO&P.S.- Dhaniakhali,Dt-Hooghly,Pin- 712302,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	5.12.81

<b>SLN. NO.</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
231	Ganga singh Shekhawat S/o Jai Singh	RajSVC/317 4/04	VP baragaon, Jhunjhunu, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	5.7.80
232	Ghan Shyam Das Bhati S/o Sh Radheysham	RajSVC/311 1/04	Vety Hospital,Bhikhodai,Jaiselmer,Raj asthan	B.V.Sc&AH/H.A U/93	9.11.68
233	Ghhotan Kumar Ghosh S/o Sh Asit Kumar Ghosh	WBSVC/308 8/04	Vill-Kankardanga P.O. Krishnanagar P.S.- Patrasayer,Dt- Bankura,West Bengal	BVSc&AH/WBU AFS/04	7.1.82
234	Giddi Lokesh S/o Sri Hari Rao	APSVC/428 3/05	D.No.2-6, Ambedkar Nagar, Yanam - 533 464 E.G. Dt., A.P.	BVSC & AH/Pond.U/200 3	30.8.80
235	Gini George D/o T.T.George	KeralaSVC/ 2914/04	Thazhatha House,Elamthuruthy,Kuttanellure ,Thrissur-680014,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	13.2.80
236	Girish Karisiddappa Ramgirikar, S/o karisiddappa.A.	KARNA/358 6/	Door. No. 799/9, Vidyanagar, Davanagere-577005,Karnataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	17.7.81
237	Girish Kumar Mishra S/o Shri Mani Prasad Mishra	MPSVC/223 0/04	C/o Sh Babulal Mishra Medical Store,Infront of All'bad Bank,Semaria,Rewa,M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	25.8.80
238	Gogoi Pulak S/o Mr. Ghana Gogoi	AssamSVC/ 2174/05	Vill-Nalanipam, PO&Dt- Dhjomaji,Pin-787057,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	31.12.80
239	Gohain Rinku S/o Sh Jajneswar Gohain	AssamSVC/ 2190/05	Janakpur,Junaki Path, Kahilipara, Guwahati,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	18.5.76
240	Gopakumar.T S/o Thfankappan.C	KeralaSVC/ 2955/04	T.C.36/1624,Mudumbil Veedu,Sreevaraham,Vallakkada vu PO,Trivandrum- 695008,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	17.4.79
241	Gopal Naik Vankudavath S/o Bhikya Naik	APSVC/419 5/05	C/o R.Swamy Naik, Agri.Dept. Muppalla, Guntur Dt. A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.6.81

SLN. NO.	NAME	RNUM	ABD	QUALF	DOB
242	Goswami Deepak Kumar S/o Sri Jai Narayan Goswami	AssamSVC/ 2167/04	Word No.6,G.F.Road,Golaghat Assam	BVSc&AH/AAU/ 03	11.9.76
243	Gudluri Sambasiva Rao S/o Venkateswarlu	APSVC/423 9/05	H.No.29-130, Kothapet, Vinukonda, Guntur Dt-522 467,AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	26.6.79
244	Gunalakshmi R. S/o Rathinavel	KARNA/357 8/	No. 14/1, Venugopal nagar, H.M.T. Layout, Nagasandra PO, B'lore-73,Karnataka	B.V.Sc/ TNVAS Ui/03	8.6.79
245	Gupt Ravi Shastry S/o Nawin Kr Gupta	AssamSVC/ 2183/05	PO&Dt-Dhemaji, Vill-Milan Nagar,Pin-787057,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	10.1.80
246	Gurbir Sarao D/o Sh.Chhota Singh	Pb SVC- 2568/04	Vill Rauni Kalan, P.o Chaklan,Dt. Ropar - 140102,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	04.05.79
247	Gurbrinderjit Singh Chuman S/o Sh. Jasprel Singh Ghuman	Pb SVC- 2515/04	Jande Sarai Rd,Opp SGAD Public School,Kartapur,Punjab	BVSc & AH/PAU/03	18.03.80
248	Gurpreet Singh S/o Sh. Swaran singh Gagnea	Pb SVC- 2552/04	National Diagnostic and X-ray Clinic ,Old Tehsil Rd,Abohar- 152116,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	04.08.80
249	H.C. Indresh S/o Cholurappa	KARNA/366 1/	Huchchmanadoddi,M.G.Palya Po,Kailancha(HB),Ramanagara m Taluk,B'lore Rural Dt- 562109,Karna	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	4.3.81
250	H.Masthan S/o B.Hajamohideen	PondiSVC/2 24/04	48,V.O.C.Street,Pondicherry-1	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	26.12.78
251	H.S. Basha S/o B.K. Mohammed Hussain	KARNA/358 0/	No.57, Behind S.T.Check PO, Magadi Rd, Kamakshi playa, Bangalore--79	B.V.Sc/UAS, B'lore/75	13.3.53
252	Haloi Sangita D/o Mr. Bhupendra Haloi	AssamSVC/ 2173/05	R.A.R.S.Titabor,Dt-Jorhat,Pin- 785630,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	31.8.81

SLN#	NAME	RNUM	ADD	QUALF	DOB
253	Harbans Lal S/o Sh. Pyara Lal	Pb SVC- 2574/04	Vill.Mehram Pur,Po Khan Khana,The & Dt.Nawan Shahr,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	15.07.79
254	Harinder S/o Sh Balwan Singh	HarSVC/183 2	332/14,Indergadhi Dist- Sonipat,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	2.12.78
255	Harinderpal Singh Judge S/o Sh. Amarjit Singh Judge	Pb SVC/2576/0 4	H.No.1,Mahjor Sher Singh colony,Majitha Rd,Amritsar.SCF 39,Front side C-Block,Market Ranjeet Avenue,Amritsar	BVSc & AH/PAU/01	15.08.77
256	Harish Yadav S/o Sh Dalip Singh	HarSVC/183 6	982,Sec-3,Huda,Part- 1,Rewari,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	30.9.80
257	Harjeet Singh S/o Sh. Nanak Singh	Pb SVC- 2513/04	13,Jagat Jit Park,Kapurthala,Punjab	BVSc & AH/CCS HAU/95	07.10.72
258	Harmandeep Kaur Batra D/o Sh.Parsotam Singh Batra	Pb SVC- 2549/04	H.No 315.C,Nabha ,Mohalla Ripudamanpura,Dt. Patiala,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	26.11.81
259	Harpreet Singh S/o Sh.Dhanwant Singh	Pb SVC- 2525/04	H.No.311-A,near Civil Hospital ,Baba Bakala,Amritsar,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	13.04.81
260	Harpreet Singh S/o Sh.Karnali Singh	Pb SVC- 2580/04	St.No.7-B,Sunder Nagari,Abohar, Distt Ferozepur,Punjab	BVSc & AH/RAU/00	15.10.74
261	Harpreet Singh S/o Sh.Ram Singh	Pb SVC- 2535/04	29 Azad Nagar,Near Harjit Palace Sultan -wind Rd,Amritsar 143001,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	25.08.80
262	Harsh Deep S/o Sh. Raghu Nath Dogra	Pb SVC- 2573/04	H.No.278,ward-4,Gopal Nagar,Gurdaspur,Punjab	BVSc & AH/PAU/01	16.03.78
263	Harsha Kumar Mavilla S/o Surya Prakash Rao	APSVC/417 2/04	23/375,Thombaram vari Street, Fathekhanpetta, Nellore, A.P	BVSC&AH/U.A. S B'Lore/04	5.2.80

<b>SR/NM NAME</b>	<b>INUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALF</b>	<b>DOB</b>
264 Harsha.G.V. S/o Aswatha Reddy.C	KARNA/363 0/	Thokala halli,Gowribidanur Taluk,Kolar Dt - 561228,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	21.7.81
265 Harsha.G.V. S/o Gange Gowda.K.	KARNA/362 7/	S/oGange Gowda.K.,Lecturer in Economics,Kripa Nidhi,Po-office Rd,T.B.Exten,Nagamangala,Man dya-571432,Karna	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	11.05.81
266 Harwinderjit Singh S/o Sh. Lakha Singh	Pb SVC-2519/04	Vill Bhagian ,P.o Sekhwan , Distt . Gurdaspur 143516,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	18.12.79
267 Hazarika Dhrubajit S/o Sh Dwijendra nath Hazarika	AssamSVC/ 2199/05	Vill-Tanigaon,PO-Purana,Titabor,Dt-Jorhat- 785632,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	15.10.80
268 Hazarika Homanjali D/o Sri Muhidhar Hazarika	AssamSVC/ 2198/05	C/o Mr.M.Hazarika Dhomaji Ward No.-2,Dt-Dhomaji- 787057,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	25.2.81
269 Heera Lal Bairwa S/o Sh Shiv Narain	RajSVC/313 8/04	V&P TORDA,The-Sikrai,DAUSA,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	1.9.78
270 Helma Johnson D/o M.R. Johnson	KeralaSVC/ 2904/04	C/oK.K.Jose(Retired Headmaster),Thanissery PO,Irinjalakuda (Via),Thrissur- 680701	BVSc&AH/KAU/ 04	29.11.79
271 Hemant Kumar Mehta S/o Shri Krishna Vallabh Mehta	MPSVC/222 3/04	H-14,Veterinary College Campus, Mhow (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	22.5.61
272 Hemant Kumar S/o Ratan Lal	RajSVC/319 1/05	Pavata Ki Road, Jodhpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	2.6.76
273 Himadri Sekhar Roy S/o Sh Ranjit Kumar Ray	WBSVC/309 8/04	PO&PS-Arambagh(Indira Pally),Dt-Hooghly Pin-712601	BVSc&AH/WBU AFS/04	4.1.82
274 Himanshu BhatiaS/o Sh Duni Chand	HVC/685/04	Vill-Basdera,PO-Dugha,The&Dist-Hamirpur,H.P.	BVSc&AH/CSK HPKV/04	16.9.79

SLN NO.	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
275	Hiralal Hembram S/o Shri Ramchand hembram	WBSVC/313 2/04	Vill-Pithagaria,PO-Ranibandh,Dt- Bankura,Pin-722148	BVSc&AH/WBU AFS/04	6.12.80
276	Hiremath Mahntesha, S/o Malaiah Hiremath	KARNA/360 1/	C/o Mahesh Hiremath, At post Kotyal, Bijapur District.	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	1.6.82
277	Hirok Kumar Ghosh S/o Sh Chandi Charan Ghosh	WBSVC/308 1/04	Vill-Rukmini PO-Sarai,Dt- Hooghly,Pin-712149	BVSc&AH/WBU AFS/04	30.10.80
278	Hyndavi.L D/o Mohan Rao	APSVC/421 7/05	Plot No.89, Raghavendra Colony, Hyderabad Road, Nalgonda, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	10.1.80
279	Iftekarali S/o Mohammad Dastagiri Sab	KARNA/365 7/	Main Road,Basavapatna post,Channagiri Taluk,Davanagere Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	8.4.81
280	Ilavazhagan.M S/o E.Muniswamy	APSVC/414 8/04	2-836, S.V.Colony, Kongareddypalli, Chittoor Dt., Andhra Pradesh	BVSC/TNVASU/ 97	7.5.73
281	Imran Khan S/o Abdul Latif	HarSVC/182 8	H.No.2096, Sector-16, Faridabad,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	22.9.81
282	Inderdeep Singh S/o Sh. N.Singh	Pb SVC- 2528/04	H.No.2467,Phase -XI,SAS Nagar,Punjab.	BVSc & AH/PAU/04	02.02.81
283	Indira.D D/o Venkata Subbaiah	APSVC/423 4/05	Guddipallipadu, Nellore Rural(M), Nellore-524 002, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	2.6.79
284	Indrajeet Bakalwar S/o Shri Govind Prasad Bakatwar	MPSVC/225 4/04	M.P.Colony Chappara,Dt-Satna, M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	20.7.79
285	Indrajit Kumar Paul S/o Sri Bimal Krishna Paul	WBSVC/314 1/04	Vill-Debjpur,PO-Digha,P.S-Barasat, Dt-24 Prgs (N),W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	2.05.80

SNM	NAME	RNUM	ADD	QUALF	
286	Irsaduden Quzy S/o Sh Nasruden Quzy	RajSVC/315 3/04	Gali No.9, M.G.Colony,Mala Phatak, Kota Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	22.4.77
287	Islam Md. Baharul S/o Md Ahmed Ali	AssamSVC/ 2164/04	C/o Ahmed Ali, Mangaldoi Ward No-2, Dist-Darrang Assam	BVSc&AH/AAU/ 04	31.3.80
288	Islam Nurul S/o Abdus Sahid Ali Ahmed	AssamSVC/ 2202/05	Vill-Paharpur,PO-Habidonra,Via-Mandia,Dt-Borpeta-781308	BVSc&AH/AAU/ 05	28.2.76
289	J.K.Nagarajan S/o J.Krishna Murthy	APSVC/418 1/05	D.No.29-1771, 4th Street, Vinukonda, Guntur Dt. A.P.	BVSC/TNVASU/ 2001	19.4.77
290	Jackin Jayaram S/o D. Jayaram	KeralaSVC/ 2987/04	Pramrtha,Palayamkunnu,Varkala Trivandrum	BVSc&AH/KAU/ 04	11.5.80
291	Jacob Mathew S/o K.K.Jacob	KeralaSVC/ 2962/04	Kalyan Keril, Pampady PO, Kottayam-686502,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	11.6.76
292	Jagannath Prasad Tiwari S/o Shri Indrajeet Prasad Tiwari	MPSVC/222 9/04	G-212 Block Colony, Sidhi M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	10.1.51
293	Jagdish Chander S/o Sh Hanuman	RajSVC/311 6/04	Veterinary Hospital Pallu,Hanumangarh,Rajasthan	B.V.Sc&AH/CC SHAU/93	4.3.66
294	Jagjeevan Reddy. P S/o Ranga Reddy	APSVC/414 9/04	Q-2-46, Damancha(P), Birkoor(M), Nizamabad Dt - 503 321, Andhra Pradesh	BVSC&AH/ANG RAU/04	28.11.78
295	Jagveer Singh Kanesh S/o Late Shri Pavaliya Kanesh	MPSVC/220 6/04	Vill-Madhalia PO- Menpur Tehsil-Alirajpur Dt-Jhabua (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	2.6.75
296	Jaibi K D/o K.K. Paily	KeralaSVC/ 2923/04	Kalarickal House, Kidangoor PO,Angamaly,Ernakulam-683572,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	27.5.81

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
297	Jaideep Bhadauriya S/o Sh Uday Bhan	RajSVC/313 4/04	V.H.Saindwa,The-Chautan,Barmer,Rajasthan	B.V.Sc&AH/GB4 PA&T/99	
298	Jamine Rani.K D/o T.U. Kumaran	KeralaSVC/ 2943/04	Thacholil House, Vengola P.O., Perumbavoor Ernakulam - 683554	BVSc&AH/KAU/ 04	28.5.78
299	Jasbir Singh Bedi S/o Sh Prem Singh Bedi	HarSVC/184 0	Near Gurudwara Sohna Distt-GGN,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	21.6.81
300	Jaskaran Singh S/o Sh. Manjit Sirigh	Pb SVC- 2555/04	Shivalic Enclave,Gali No.2,Chandigarh Rd ,Nawan Shehar,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	17.04.80
301	Jaskaran Singh S/o Sh. Sukhdev Singh	Pb SVC- 2551/04	Village Phaghuwala,Teh & Dt.Sangrur.Khalifa Bagh,St.No.5,Dhuri Rd ,Sangrur,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	06.10.80
302	Jasmin Thomas D/o P.M. Thomas	KeralaSVC/ 2939/04	Puthanaprakunnel Teekoy PO, Kottayam-686580	BVSc&AH/KAU/ 04	16.2.79
303	Jaswant Singh S/o R. L. Faroda	RajSVC/318 1/04	V & P Kataysni Merta City, Nagpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	3.12.78
304	Jatinder Pal Singh Chahal S/p Sh. Darshan Singh	Pb SVC- 2521/04	H.No.350,St.No.10, Link Road ,Mullanpur Mandi,Distt.Ludhiana	BVSc & AH/PAU/04	23.07.81
305	Jatinder Pal Singh S/o Sh. Ajit Singh	Pb SVC- 2547/04	H.No.231,Opp Guru Nanak Bagh,Jail Road,Gurdaspur 143521.	BVSc & AH/PAU/04	22.03.81
306	Jawahar Singh Sagar S/o Shri Ram Dayal Sagar	MPSVC/224 4/04	Gautam Nagar,Murar Gwalior M.P.	BVSc&AH/IGKV V/03-04	12.7.76
307	Jawahar.K S/o S. Kandasamy	KeralaSVC/ 2990/04	Kannathanam House Cumbummethu PO,Vandanmedu, Idukki-685551	BVSc&AH/TNV &ASU/04	12.1.78

<b>SNOM NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALF</b>	<b>DOB</b>
308 Jaya Kishore M S/o Siva Rudraiah	APSVC/422 3/05	H.No.13-5-530, Tata Nagar, Opp:City Veterinary Hospital, Tirupati-517 501 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	14.6.79
309 Jayachandra .K.C. S/o Chikkanna.K.	KARNA/364 0/	No.151,2nd Cross,UAS Layout,RMV 2nd Stage,Banglore	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	10.5.81
310 Jayakumar. S S/o S. Sadhanandham	APSVC/428 8/05	Sangam Dairy Milk Chilling Centre, gurazala - 522 415. Guntur Dt., A.P.	BVSC & AH/TNVASU/01	15.6.76
311 Jayakumar.K,S/o R.Gopalakrishna Pillai	KeralaSVC/ 2927/04	Kumpazhathuputhen Veedu, Muthupilakadu (west) PoruazhyPO, Kollam -690520	BVSc&AH/KAU/ 04	20.5.74
312 Jibi M.G D/o M.R. Govindan	KeralaSVC/ 2940/04	Manalikkattil House, Kesavappadi, PO- Ollur, Pin- 680306	BVSc&AH/KAU/ 04	12.5.79
313 Jitender Kumar Meena S/o Sh Sukhlal	RajSVC/310 4/04	Plot No.29C,Vidhut Abhinta Colony,Malvia Nagar, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/AN GRAU/04	28.3.74
314 Jitesh Kumar Thoshariwal S/o Bajranglal Toshariwal	APSVC/425 5/05	H.No.14-4-364, Multanipura, Begumbazar, Hyderabad-12	BVSC&AH/ANG RAU/05	9.5.81
315 Jonnalagadda Ram Reddy S/o Yadagiri Reddy	APSVC/424 7/05	H.No.18-973, Shivaji Nagar, Miryalguda, Nalgonda Dt- 508 207, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.6.79
316 Jouher Sulhana.C.M. D/o Mohamad Wazir	KARNA/366 5/	D/o Mohamad Wazir,Teacher, South Extn,C.N.Halli,Tumkur Distt. 572214	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	30.5.82
317 Joycee Gill D/o Shri James Gill	MPSVC/226 6/04	M.E.S.Colony,Ambedkar Nagar,Mhow,Indore (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	2.7.81
318 Jugal Kr Giri S/o Ranjit Singh Giri	MeghSVC/2 23/05	Villi-Gandhipara,PO-Garobadha, West Garo Hills, Meghalaya	BVSc&AH/CAU/ 05	2.5.78

<b>SLN# NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
319 Jyothi Surendran,D/o T.A.Surendran	KeralaSVC/2893/04	Thottipully,Opp- Municipal Staff,Qtr,Chiyaram,Thrissur-680026	BVSc&AH/KAU/ 04	5.7.79
320 Jyothi Sreedharan S/o Sreedharan K.K.	KeralaSVC/2945/04	Kuttala House, PO-Vadanapally,Thrissur-680614	BVSc&AH/KAU/ 04	14.8.76
321 Jyoti Agrawal D/o Shri A.K.Agarwal	MPSVC/220 2/04	Near Saraswati School, Krishna Nagar,Satna (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	16.4.79
322 K. Prasad S/o Babu Rao	APSVC/419 3/05	Tamarakolu, Kaikalur(M),Krishna Dt. AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.6.75
323 K.Bargavi D/o S.Krishnasamy	PondiSVC/2 05/04	17,Throupathi Amman Koil Street, Dharmapur,Pondicherry-9	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	4.3.81
324 K.C.Umesh S/o Channabasappa K.S.	KARNA/369 6/	S.B.S. Coir Industries, Kyathanahalli, Arsikere Taluk, Hassan District	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	1.8.75
325 K.Mahendran S/o M.Katunandhi	PondiSVC/2 13/04	No.32 Villianur Road,Moolakulam,Pondicherry-10	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	24.10.78
326 K.Muthupandian S/o Karthikairajan	PondiSVC/2 26/04	40 Kannia Koil Street, Bahour,Pondicherry-607402	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	7.2.81
327 K.Natchimuthu S/o N. Kandasami	PondiSVC/2 21/04	26,I Main Road, Kaveri Nagar, Reddiarpalayam,Pondicherry-10	BVSc/TNV&AS U/91	16.6.67
328 K.Porteen S/o M. Kannan	PondiSVC/2 53/04	64 Sanjay Gandhi Nagar, VOC Street, Pondicherry-13	BVSc&AH/PU/0 2	2.12.79
329 K.Prabhakar Rao S/o Yohant	APSVC/419 0/05	Kothauppalapadu, Nuzendia(M), Guntur Dt AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	9.4.79

<b>SN</b>	<b>NAME</b>	<b>NUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
330	K.Pritha D/o Karthikeyan	PondiSVC/2 48/04	222 LIG (HB) Kurumbapet, Pondicherry-9	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	9.11.81
331	K.Rajendran Pillai	KeralaSVC/ 2992/04	Bindu House,Puzhavath, Changanachery PO, Kottayam- 686101	BVSc&AH/AAU/ 63	12.8.41
332	K.Rajesh Babu S/o Gopal Rao	APSVC/416 4/04	H.No.3-2-89, Nimboli Adda, Kacheguda, Hyderabad - 500 027	BVSC&AH/ANG RAU/04	5.9.81
333	K.Savitha D/o Balappa	APSVC/422 6/05	H.No.8-1-67/2/1, Vidyanagar Colony, Mahboobnagar- 509 002, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	6.8.78
334	K.Thangamani D/o P.Kathirveli	PondiSVC/2 06/04	54,Subramani Koil Street,Pethuchettipet,Pondicherr y-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	2.2.81
335	K.V.Saritha D/o Venkateswarlu	APSVC/423 8/05	C/o Rathnam Medicals, Bazaar Street, Palamaner,Chittoor Dt- 517 408, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.8.80
336	K.Vanitha D/o Kaliappan	PondiSVC/2 31/04	39,A Gundu Salai ST Marie, Oulgaret, Pondcheery-10	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	15.6.80
337	Kadam Hemchandra Housaji S/o Housaji	APSVC/414 5/04	Om Sai Eng.Works, Opp:Bus Stand Bhainsa, Adilabad Dt., Andhra Pradesh	BVSC&AH/MAU /77	2.7.71
338	Kailash Thakur S/o Sh Ram Chander	HVC/698/04	V&PO-Ahah-Devi,Distt- Hamirpur,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	16.8.81
339	Kakani Vijaya Prakash S/o Venkateshwara Rao	APSVC/419 7/05	PWD Workshops, Seethanagaram, Guntur Dt-522 501 A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/05	13.10.80
340	Kaku Sree Devi D/o Ramaiah	APSVC/424 2/05	H.No.18-1-3/8, Ramachandra Nagar, K.T.Road, Tirupati-517 501, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	28.8.77

<b>SNM NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALF</b>	<b>DOB</b>
341 Kallesh.D.J. S/o Jayappa.D.S	KARNA/366 0/	KalleshwaraNilaya,Pandarahalli post,Chiradurga Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	24.10.81
342 kalyani Ginjupalli D/o Seshagiri Rao	APSVC/427 4/05	Gopinenipalem, Vastavai (M), Krishna Dt., A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	26.5.81
343 Kalyani Putty D/o Sesha Rao	APSVC/420 9/05	H.NO.3-28-46/2, 5th Lane, Brindavan Garndens, Guntur-6 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	6.8.81
344 Kamal Singh S/o Shri B.Lal	MPSVC/227 2/04	K.V.NO.-1,Teachers Qr.NO.6,Shakti Nagar,Gwalior (M.P)	BVSc&AH/JNKV	27.3.77 V/03-04
345 Kamal Deep S/o Sh Ramesh Bhanot	HarSVC/183 9	H.No.304 Ram Nagar,Ambala City	BVSc&AH/CCS HAU/04	25.2.81
346 Kamal Kumar Maurya S/o Sh Parshuram	RajSVC/312 5/04	Maurya Bhawan Fathpur Road, Ward No.43,Sikar Rajasthan	B.V.Sc&AH/JLN KVV/04	3.4.80
347 Kamalanathan.P S/o T.G.Perumal Naidu	APSVC/416 9/04	C/o Shankar Naidu, Gajulapalli, Mapashi(P), Chittoor Dt., Andhra Pradesh	BVSC/TNVASU/	10.11.76 02
348 Kamaljit Deb Barma S/o Sri Kshirode Deb Barma	TriSVC/158/ 04	Vill-Kainta Kobra Para, Post Office- Wakhinagar,P.S.-Jirania, Tripura West	BVSc&AH/WBU A&FS/04	2.6.78
349 Kamaljit Singh S/o Sh.Charanjit Singh	Pb SVC- 2529/04	H.No.223.9,New Sainik Vihar,Fazalpur,Meerut Cantt.	BVSc & AH/PAU/02	15.05.77
350 Kantaraja.C S/o Omkarappa Chindera	KARNA/367 8/	Chindera ,Belligavi post,Shikaripura Taluk,Shimoga Distt-577 450	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	22.7.81
351 Kantepudi Archana D/o K.S.Vijay Kumar	APSVC/422 7/05	H.No.5-3-209, Mission Hospital Road,Khammam, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	3.5.80

SIRIM - NAME	NUM	ADD	QUALIF	DOB
352 Kapil Dev Sant S/o Late Shri M.D.Sant	MPSVC/223 8/04	B-4 Civil Lines Kotma Colary, Bhalumada, Dt-Anuppur (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	14.6.80
353 Karanbir Singh Dosanjh S/o Sh. Kulbir Singh Dosanjh	Pb SVC- 2540/04	56-5F ,Ranjit Avenue,B- Block,Amritsar -143001	BVSc & AH/PAU/04	15.08.80
354 Karikalai.S S/o G.P. Subbiah	APSVC/417 7/05	C/o M.Rama Rao(Retd RTC Driver), 29/308, Near NSP Canal, Kothapet, Vinukonda- 522 647 Guntur Dt., AP	BVSC/TNVASU/ 2000	10.6.74
355 Katha Kavitha D/o Mohan Rao	APSVC/421 3/05	Q.No. SD-533 J.K. Colony, Yellandu, Khammam Dt-507 123 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	1.4.79
356 Katta Kanaka Swarna Latha,D/O Satyanarayana	APSVC/427 5/05	Plot No. 15, R.K. Nagar, B.S. Layout Ext., Visakhapatnam - 530 013 A.P.,	BVSC & AH/ANGRAU/05	26.8.81
357 Katta Satish Kumar S/o Vighneswara Rao	APSVC/418 9/05	C/o Aluri Kumar Babu, Krishna Temple Street, Near Post Office, Nidamanur, Vijayawada Rural (M), Krishna Dt, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	4.4.80
358 Kavitha Rajagopal D/o P.N. Rajagopalan Acharya	KeralaSVC/ 2969/04	Puthan Veedu, Peringara PO, Thiruvalla, Pathanamthitta- 689108	BVSc&AH/KAU/ 04	5.5.80
359 Keerti Meena D/o Shri Ram Meena	APSVC/428 4/05	National Research Centre for Sorghum (NRCI), Rajendranagar, Hyderabad. A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	25.12.81
360 Khalid Ali Nadaf, S/o Mabusab Nadaf	KARNA/359 5/	At post Salapur, Ramadurg Taluk, Belgaum-591123	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	22.7.81
361 Khanderao Atmaram Patil	Gujsvc/2525 /04	Baroda Dairy Bodali chilling Centre, tal-Sankheda,dt-Baroda, pin- 391135	BVSc&AH/PKV/ 87	1.6.65
362 Khatun Arjuma W/o Dr.Abdur Rezzaque Choudhury	AssamSVC/ 2191/05	C/o Md.Jakir Hussain, Vill- Kadamoni Pathar,Po-Juria,P.S. Juria, Dt-Nagaon, Pin-7825124	BVSc&AH/AAU/ 05	30.6.78

SL. NO.	SURNAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIF.	DOB
363	Khaund Meenmi S/o Ghana Kanta Khaund	AssamSVC/ 2200.05	South Haiborgaon A.R.B.Road,Dt- Nagaon, Pin- 782002,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	18.12.80
364	Kiran Babu Sesha Reddy S/o M.Sesha Reddy	APSVC/425 4/05	Flat No.501, Raghavendra Residency, Vidyanagar Colony,Saidabad,Hyderabad- 59, A.P	BVSC&AH/ANG RAU/05	19.7.81
365	Kiran Maye Maradani D/o Bhaskara Rao	APSVC/423 7/05	H.No. 283-3-22/2, Dr. Sanjeeva Rao Hospital Street, R.R.Pet,Eleru-2, W.G. Dt-534 002 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	8.7.80
366	Kishore Mathew S/o Sh Mathews Thomas	KeralaSVC/ 2890/04	Padinjare Nelluveli House, Vazhapare PO,Ramankary,Alappuzha- 689600	BVSc&AH/KAU/ 04	25.5.80
367	Konde Mahender S/o Mallaiah	APSVC/427 0/05	H. No. T1/460, 8 Inclive Colony, Godavarikhani, Karimnagar - 505 211. A.P.	BVSC & AH/MNGRAU/05	27.1.76
368	Koshal Kishor Gupta S/o Sh Mohan Lal	RajSVC/314 2/04	Satya Medical Store,K.Patan,Bundi,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	13.7.79
369	Krishan Gopal Nama S/o Nrising Lal	RajSVC/318 0/04	House No. 1/144, Housing Borad Colony, Sawai Madhopur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	13.5.76
370	Krishna Das.P.S/o K.K.Peethambaran	KeralaSVC/ 2909/04	Parikkannithanam,Puthenpurayil House,Peruva PO,Kunnappilly Kottayam-686	BVSc&AH/KAU/ 04	5.6.79
371	Kishan Kumar Gupta S/o Shri SK Gupta	MPSVC/227 1/04	Vill-Sidhi Tehsil Jaysingh Nagar, Dt-Shahdol (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	5.11.79
372	Krishna Murthy Duppadepudi S/o Rama Swami	APSVC/416 5/04	4209, Sriia Towers, Hydemagar, Kukatpally, Hyderabad-500 072. Andhra Pradesh	BVSC&AH/APA U/66	2.8.43
373	Krishna Murthy.P S/o Papanna	KARNA/364 7/	Madabai post,Magadi Taluk,Banglore(Rural Distt)	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	25.8.80

STUDY NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DATE
374 Krishna Praveen.Y S/o Narasimha Rao	APSVC/425 9/05	Ravinuthala, Korisapadu, Prakasam Dt-523 213, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	4.8.80
375 Krishne Gowda.C.J S/o Javaregowda	KARNA/367 3/	Chattenahally,K.R.Pet Taluk,Seelanere(H),Mandy Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	20.6.80
376 Krishnendu Sinha S/o Sri Bejoylal Sinha	WBSVC/314 0/04	Dr.Sachin Sen Road, PO- Krishnanagar, Dt-Nadia	BVSc&AH/WBU AFS/04	12.12.80
377 Krupavathi.M D/o Chenna Reddy	APSVC/422 4/05	Electrical Sub-Station, Siddavatam, Kadapa Dt, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	14.7.80
378 Kulbhushan S/o Sh Chetan Das	HarSVC/181 3	Inderpuri Gali No.- 10,18/566,Sirsia,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	13.10.79
379 Kuldeep Singh S/o Rajender Singh	RajSVC/316 7/04	31, Udaipur B Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	3.7.79
380 Kuldeep Singh S/o Sh.S.Gurcharan Singh	HarSVC/182 5	VPO Nawch Dist-Kaithal Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	5.6.81
381 Kulkarni Prasad Purushotham S/o P.Y.Kulkarni	APSVC/416 6/04	C/o K.KamaInadh, H.No.9-8-3, Marutinagar, Opp: New Santosh Nagar, Champapet, R.R.Dt., Hyderabad - 500 059. A.P	BVSC&AH/MAU /97	11.3.75
382 Kulvinder Singh S/o Sh. Surjit Singh	Pb SVC- 2504/04	Vill Gaunspura P.o Umarpura ,Batala ,Gurdaspur,Punjab	BVSc & AH/PAU/03	29.09.77
383 Kumar Amit S/o Mr. Santosh Sahu	AssamSVC/ 2170/05	PO- Karra, Dt- Ranchi,Jharkhand,Pin-835209	BVSc&AH/AAU/ 05	27.2.82
384 Kumarswamy S/o Shrikantswamy	KARNA/362 8/	Kamalanagar post,Aurad(B) Taluk,Bidar District-585417	BVSc &AH/ UAS Dharwad/04	9.1.82

SR. NO.	NAME	REGN. NO.	ADD.	QUALIF.	DOB.
385	Kuntal Roy S/o Sh Birendra Chandra Roy	WBSVC/313 9/04	K.V.Teachers Quarter,PO-Nilukuthi(Baburhatt)Dt-Coochbehar	BVSc&AH/WBU AFS/04	7.07.81
386	Kunwar Singh Hayaria S/o Shri Chandan Singh	MPSVC/221 3/04	Vill-Jambukheda PO- Udaigarh	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.04.75
387	Kurumurthy Athukuri S/o Jammulaiah	APSVC/421 1/05	C/o N. Sanjeeva Reddy, H.No.35-350/A2/1, VIKAR SECTION, Venkateswara Nagar Colony, Jagadgirigutta,	BVSC&AH/ANG RAU/05	1.6.77
388	Kuzenyi Wideo s/o Sh. Zacuyi Wideo	NSVC/0199/	C/o Ruyosuyi Wideo Nagaland Legislative Assembly Secretariat, Kohima, Nagaland	BVSC&AH/AAU/ 05	8.8.80
389	Lalmuankimi D/o L.C. Thanga	MizSVC/152 /05	B/1 Macdonal Hill,Zarkawt,Mizoram	BVSc&AH/CAU/ 05	8.9.78
390	Lalzaidami D/o P.S.Chhuasa	MizSVC/148 /04	College-Veng,Po-Saiha,Mizoram	BVSc&AH/CAU/ 04	9.4.79
391	Lasna Sahib D/o A.K.Sahib	KeralaSVC/ 2926/04	Valeya Veettii House,Opp:ASMM High School,Alaithur PO, Palakkad- 678541	BVSc&AH/KAU/ 04	15.9.79
392	Lathamani.V.S., D/o Shekharaih	KARNA/366 8/	C/o T.Basavanna, Tarabenahalli,J.C.Pura post,Chikkanayakarni halli Taluk,Tumkur Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	4.7.81
393	Lekha Chacko K D/o K.P.Chacko	KeralaSVC/ 2913/04	Kelamkunnel House,Pantheerankava PO,Kozhikkode-673019	BVSc&AH/KAU/ 04	12.5.80
394	Liresh Kumar Temre S/o Shri Tilak Chand Temre	MPSVC/219 3/04	Prem Nagar Ward No.26, Balaghat (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	3.3.80
395	Lingam Balaswamy S/o L.K.Obanna	APSVC/426 1/05	H.No.2-7-8, Dhanielpuram Street, Alagadda, Kurnool Dt.	BVSC&AH/ANG RAU/05	1.6.76

STUDY NAME	INSTITUTION	ADDRESS	QUALIF	DOB
396 Lokenendra Singh S/o Shri Trilok Singh	MPSVC/225 6/04	PO-Talakpura, Via- Oon, Dist- Khargone (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.05.75
397 Longing Pale D/o Shri Hopeful Pohteng	MeghSVC/2 24/05	C/o SMT T.L.Paleialong-Mission Compound Jaintia Hills Dist- Meghalaya-793150	BVSc&AH/AAU/ 05	17.1.81
398 Lourenco Alvita Sharmila W/o Roshen Joseph C.R.	KeralaSVC/ 2993/04	2/3425-C,Balika SadanamRoad, Civil Station, Calicut-676030	BVSc&AH/MA& FSU/97	9.3.71
399 M Mahantesh Kadabgeri, S/o Muniyappa	KARNA/362 0/	Navanagar, Hunugund Taluk, Bagalakot District-587118	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	20.06.81
400 M. Sudha Madhuri D/o M.V.Subbaiah	APSVC/423 2/05	D.No.16-3/688-A, Harnadhapuram-III Street Near Saibaba Road, Nellore, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	23.8.79
401 M.A.Sivarajan S/o M.D.Annamalai	APSVC/418 0/05	C/o V.K.Babu, 28-153/1, 'C' Cross,Ramnagar Colony,Chittoor-517 001 A.P.	BVSC/TNVASU/ 2000	15.7.75
402 M.Gopinath S/o P.Mohandass	PondiSVC/2 20/04	76, IV Cross, MOH Farook Salai MMG Nagar, Karaikal-609602	BVSc/TANUVA S/93	26.6.70
403 M.H. Sadashivaiah S/o P Hanumanthappa	KARNA/369 9/	H.no.116/3, Venkateshwara Nilaya, vinayaka Extension, Hosadurga Taluk, Chitradurga District - 577524	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	21.2.66
404 M.I.Manoj S/o Ittira M.M.	KeralaSVC/ 2996/04	Madavana House,Near Govt. Boys School Ground Po	BVSc&AH/KAU/ 04	30.5.75
405 M.K.Muhammad Aslam S/o Kather	KeralaSVC/ 2997/04	Munchakkal House,Market PO,Muvattupuzha,Ernakulam- 686673	BVSc&AH/KAU/ 04	28.1.78
406 M.K.Srinath S/o Kistaiah	APSVC/423 1/05	H.No.7-121, Rudra Colony, Shamshabad- 501 218, R.R.Dt., AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	19.11.79

SNOM	NAME	SNOM	SNOM	SNOM	SNOM
407	M.S.Feroz Mohammed S/o Dr. M.M.Shek Dawood	PondiSVC/2 07/04	13,Main Road, Sri Ram nagar, Ariyankuppam,Pondicherry	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	2.9.79
408	Machiya Padmewati D/o Sri Bhagadutta Deori	AssamSVC/ 2181/05	Sonapur Deori Gaon, PO- Phillebari,Dt-Tinsukia	BVSc&AH/MAU/ 05	16.2.78
409	Madhu Priya K D/O Narsimhaiah	APSVC/421 4/05	E-7, IICT Quarters, Habsiguda, Hyderabad-500 007 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	18.1.81
410	Mathukar Namdeo Gavali \$/o/Namdeo. G	APSVC/420 7/05	C/o T.Kantha Rao, H.No.3- 666/14, Chandragiri Colony, Shrigouri Enclave, Safioguda, Secundrabad-56 AP	BVSC&AH/MAU /95	11.7.72
411	Madhusudhan J.R. S/o Rajanna	APSVC/416 7/04	11-72/41-B, Bypass Road, B.Kothakota, Chittoor Dt., Andhra Pradesh	BVSC&AH/J.A. S'Blore/01	1.7.76
412	Madhusudhana .K.C. S/o K.T Chittaranjaiah	KARNA/363 8/	Kereyalahalli,Hanehihalli post,Koratagere Taluk,Tumkur Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	19.2.81
413	Mahadev Bhagwat Gavali S/o Bhagwat Babu	APSVC/420 0/05	Hyderabad Race Club, Malakpet, Hyderabad, A.P.	BVSC&AH/MAU /98	1.6.75
414	Mahantesh, S/o Mallanagouda Hosamani	KARNA/361 9/	At post Benakanadoni, Hunugund Taluk, Bagalkot District-587125	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	22.07.81
415	Mahaveer Magowdhamavar,S/o Magayutte Magouttamevar	KARNA/368 7/	Yetimunnoli post,Hukkeri Taluk,Balagaum Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	11.8.82
416	Mahaveer Prasad S/o Lal Chend	RajSVC/316 0/04	VPO Lunawali Dhandi Teh - TIBI, Hanumangarh, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	10.4.80
417	Mahavir Prasad Mathuria S/o Sh Birraj	RajSVC/315 1/04	Before Road Jyoti Kiran Stosre Khandar Sawaimadhopur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	17.5.77

STUDY NAME					
418 Mahesh Kumar Sharma S/o Sh Shyam Mur	RajSVC/315 4/04	77,Shaketi Nagar,Gopal Pura By Pass,Jaipur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	27.8.76	
419 Mahesh S/o Subash Babu	KARNA/361 6/	CADA-Colony, H.No.B/2, TBP, Munirabad, Koppal District	BVSc&AH/ UAS Dhanwad/04	15.5.81	
420 Mahesh.V. S/o Veeranna.G	KARNA/364 2/	#330,Dasarahalli,BMGBA/AH/ post,Banglore-24	UAS Bangalore/04	20.6.81	
421 Malla Reddy.P S/o Venkata Reddy	APSVC/420 3/05	Near Petrol Bunk, Gurazala, Guntur Dt-522 415 A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/05	3.7.81	
422 Mallappa Kerutagi, S/o Balappa Kerutagi	KARNA/361 4/	At post Donur, Basavana- Bagevadi Taluk, Bijapur District	BVSc&AH/ UAS Dhanwad/04	11.6.81	
423 Mallikarjuna Patil,S/o Basavarajappa Patil	KARNA/366 9/	Yaraona post, Gangavathi Taluk ,Koppla Distt.	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	5.6.73	
424 Mallikarjuna.A.r. S/o Rajeshekharappa.A.M.	KARNA/363 9/	Arethoulu,Bhadravathi Taluk,Shivamoga Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	20.2.82	
425 Malsawmluangiralte D/o R. Zoramthanga	MizSVC/151 /05	H.No.B/1/10 Bethlehem,PO- Aizawl, Mizoram	BVSc&AH/CAU/ 05	23.11.80	
426 Manas Kamal Roy S/o Late Kamini Krishna Roy	WBSVC/314 2/04	"Chitrakut" Flat No.4,50/B,P.G.H.,Shan Road,Jadavpur,Kolkata-700 032	BVSc&AH/WBU AFS/04	1.03.45	
427 Manas Kumar Patra S/o Shri Bimala Pada Patra	WBSVC/309 5/04	Vill&PO- Paksara, Dt- Bankura, Pin-722101	BVSc&AH/WBU AFS/04	8.1.82	
428 Manav Gularia S/o Sh Ranjit Singh	HVC/690/04	Vill-Darkati,The- Jawali,Kangra,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	19.9.81	

<b>SLN. NO.</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
429	Manda Ramana Rao S/o Thirupal	APSVC/417 4/04	H.No. 14, Vivekananda Nagar Colony, Medical Society Colony, Kukatpally, Hyderabad	BVSC/APAU/79	1.6.54
430	Mangesh.N.S. S/o B.Seenu Naidu	APSVC/428 6/05	C/o The Manager, Sangam Dairy Milk Chilling Centre, Narasaraopet, Guntur Dt - 522 601. A.P.	BVSC & AH/TNVASU/01	27.8.76
431	Manik Dattatray Patil	GoaSVC/13 1	740-A Behind Textile Mill, Near Railway Gate, Nessai Salcete-Goa-403709	BVSc&AH/MAF SU/04	
432	Maninder Sandey S/o Sh. Surinder Sandhey	Pb SVC- 2565/04	H.No.B-IX-328,Gandhi Street,Sunam,Sangrur 148028	BVSc & AH UAS,Dharwad/0 4	21.03.80
433	Manish Kumar S/o Sh Jagdish Chandra Gupta	HarSVC/181 0	94,Gupta Bhawan,Shiv Vatika Park Sadul Shahar Distt,Sri Ganga Nagar	BVSc&AH/RAU/ 00	13.12.77
434	Manish Vashishtha S/o bajrang lal	RajSVC/318 4/04	Radhakishan Pura, Sikar, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	6.2.79
435	Manish Yadav S/o Sh Mahabir Singh	HarSVC/184 5	80/11-B Shivaji Park Shanti Ngr. HSR	BVSc&AH/CCS HAU/04	2.2.81
436	Manjeet Singh Katatia S/o Sh J.R. Kataria	HarSVC/182 0	1539/21,Chunipara Near Saini Girl Sr School	BVSc&AH/CCS HAU/04	2.7.78
437	Manjinder Kaur S/o Sh.Gumam Singh Sidhu	Pb SVC- 2533/04	V.Maujpur,Distt Ropar,Tehsil Kharar .House No.3563,Sector 38-D,Chandigarh	BVSc & AH/PAU/04	20.03.81
438	Manjsha P.L. W/o K.Jayan	KeralaSVC/ 2982/04	Kochukunnumpurath House, Kallara (s) PO,Kottayam-686611	BVSc&AH/KAU/ 04	16.4.78
439	Manjulata Patel D/o Shri M.R.Patel	MPSVC/219 8/04	1,Sarawati Nagar, Barwaha,Dist- Kahrgone (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	16.09.80

SNUM	NAME	RNUM	ABD	QUALF	DOB
440	Manjunatha.B S/o Byra Reddy.G	APSVC/418 2/05	C/o D. Narayana Reddy,D.No.1- 1189-88, NGO Colony, Kadiri, Anantpur Dt.	BVSC&AH/U.A. S B'Lore/2000	20.7.76
441	Manjunatha .K.N. S/o Nanjappa.K.R	KARNA/363 2/	Ketumaranahalli,Kadur Taulk,Chikkamagalore Distt- 577168	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	4.5.82
442	Manjunatha Reddy.G.B. S/o Bayappa.G.V	KARNA/367 2/	Vingimallu(v),Kadadanamari post,Chintamani Taluk,Kolar Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	9.6.80
443	Manjusha.A D/o M.Prabhakarakurup	KeralaSVC/ 2971/04	Arambachalil House,Pantheerankava PO,Kozhikkode-673019	BVSc&AH/KAU/ 04	25.3.80
444	Manjusha.M D/o M.Bhaskaran	KeralaSVC/ 2919/04	Gokulam,Muthukuttyparambil House, Vadama PO,Mala,Thrissur-680736	BVSc&AH/KAU/ 04	28.9.79
445	Manoj Kumar Maity S/o Sh Swapan Kumar Maity	WBSVC/309 4/04	Vill-Sultanpur.PO-Hat Sultanpur Dt-Paschim Medinipur,Pin- 721149	BVSc&AH/WBU AFS/04	31.1.81
446	Manoj Kumar Sharma S/o Shri Prabhu Dayal Sharma	MPSVC/218 4/04	Vill-Shikarpura,PO-Rari,Tehsil- Mihona,Dt-Bhind (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/02-03	26.6.76
447	Manoj Kumar Soni S/o Radhey Shyam	RajSVC/317 9/04	Post Gachhipura Nagpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	5.11.79
448	Manpreet Singh S/o Sh. Vir Singh	Pb SVC- 2500/04	427,Kot Atma Ram,sultanwind Road,Amritsar	BVSc & AH/PAU/03	29.01.79
449	Marie Dennis Marcus Leo S/o Marie Joseph Leo	PondiSVC/2 32/04	4, II Cross, Gandhiji Nagar,Ariyakuppam,Pondicherry -7	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	29.6.82
450	Marjorie Dimachi G. Momin D/o Mr.Grithson A.	MeghSVC/2 27/05	Sangma Modynagar Tura, PO- Araimile Meghalaya	BVSc&AH/AAU/ 05	5.12.76

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
451	Marreddy Katyayani Reddy D/o Prabhakar Reddy	APSVC/415 8/04	#406, Sree Krupa Apts-A, Srinagar Colony, Road No.1, Mohan Nagar, Hyderabad-500 035. Andhra Pradesh	BVSC&AH/APA U/98	24.2.74
452	Maruthi.S. S/o T.Sreenivasaiah	KARNA/364 3/	Thondebhavi Railway Station,Gowribidanur Taluk,Kolar Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	1.6.82
453	Mathapati Santosh Sadashiv D/o Matapathi Sadashiv mally	KARNA/358 1/	Shivaganga, C.C.B.-46, Mahadwar Road, IInd Cross, Belagaum-590001	BVSc &AH/UAS B'llore/04	14.3.81
454	Mayank Patel S/o Shri Rajendra Singh Patel	MPSVC/227 3/04	C/o Smt. Ranjana Patel Civil Lines, Narsinghpur (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	26.9.80
455	Md. Salehin S/o Md. B.Ali	WBSVC/312 1/04	Vill &PO- Mitrapur,Dt- Birbhum,Pin-731221	BVSc&AH/WBU AFS/04	12.1.82
456	Md.Ziaul Hassan S/o Md Saiful Hassan	WBSVC/313 5/04	Vill-Hoglabari,PO-Kankuria,Dt- Murshidabad,Pin-742202	BVSc&AH/WBU AFS/04	5.08.81
457	Medhi Khanjit Kumar S/o Sri Sadananda Medhi	AssamSVC/ 2195/05	Vill&PO-Sarupeta,Dt-Barpeta	BVSc&AH/AAU/ 05	21.1.76
458	Mediteranean Khongngain D/o Shri Klarsingh Khongrymmai	MeghSVC/2 26/05	C/o Mrs.S.Khongngain Thomas Jones School of Mission & Evangelism L.W. Cherrapunjee- 793108,Meghalaya	BVSc&AH/AAU/ 05	12.9.80
459	Meduru Sarath S/o Kutumba Rao	APSVC/425 8/05	Gudivada(P.O),Tenali(M), Guntur Dt-522 307	BVSC&AH/ANG RAU/05	27.1.79
460	Mejo K.R. D/o K.K.Remanan	KeralaSVC/ 2959/04	Kuzhitharalel, Pullad PO, Thiruvalla-689548	BVSc&AH/KAU/ 04	16.9.79
461	Meka Dhananjay Appa Rao S/o Ramgopal Appa Rao	APSVC/427 1/05	20/174, Telepolu Estate Building, Nuzvid - 521 201. Krishna Dt.,	BVSC & AH/Pond.U/04	6.9.80

<b>SNUM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
462	Menka Sharma S/o Shri K.N.Sharma	MPSVC/219 1/04	C/o Shri Manoharla Agnihotri,H.No.191 Vrindavan Ward,Ahmad Nagar,Gopal Ganj, Sagar (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	10.6.78
463	Michelie 'C' Lallawmkimi D/o Lalengmawia	MizSVC/147 /04	Saron Veng,PD- Aizawl, Mizoram	BVSc&AH/CAU/ 04	3.1.80
464	Milind Govindrao Gacche S/o Malhari Rao	APSVC/418 7/05	H.No.5-172, Hanuman Colony, Koilkonda, Mahaboobnagar Dt., A.P.	BVSC&AH/MAU /97	1.6.73
465	Mingma Tshering Bhutia S/o Shri Pemba Tshering Bhutia	WBSVC/307 6/04	D.B.C.C Road,PD-Kalimpong,Dt- Darjeeling pln- 734301	BVSc&AH/WBU AFS/04	10.7.79
466	Mohamad Basim Khan S/o Shri Mohamad Jagir Khan	MPSVC/218 8/04	Kurwat Dist-Vidisha (M.P)	BVSc&AH/IGKV V/02-03	19.3.77
467	Mohammed Raziuddin S/o Naseeruddin	APSVC/414 6/04	H.No.2-1-214, N.G.D.Colony, Zaheerabad, Andhra Pradesh	BVSC&AH/MAU /99	18.5.77
468	Mohan Kumar. T.R. S/o Ramalah. T.R.	KARNA/361 2/	Shivananda Colony, Opposite to Parameshwara Dil Mill, Arsikere Taluk, Hassan District	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	9.6.81
469	Mohan Lal Meena S/o Dungar Lal Meena	RajSVC/317 2/04	Vill. Ahmedpura Chowk, Harchandera, Tonk, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	1.7.78
470	Monalisa Goswami Pyngrope,D/o D.C.Goswami	MeghSVC/2 21/04	C/o K.M.Roy,Upper Laban, Shillong-793004	BVSc&AH/AAU/ 04	2.7.78
471	Monika Goyal D/o Dr.Rajeev Goyal	MPSVC/223 4/04	C/o Dr.Rajeev Goyal,Goyal Clinic, Near Nehru Park, Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	13.8.80
472	Moninder Kaur D/o Sh. Vijay Kumar	Pb SVC- 2541/04	#21830,Shiv Mandir Street,St.No.4,100 Feet Road,Bathinda 151001	BVSc & AH/PAU/04	27.08.82

<b>SLN#</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
473	Moti Lal S/o Sh Hanumana Ram	RajSVC/314 7/04	Ram Laxman Colony, Nawa City, Nagaur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	2.4.76
474	Mude Nagamani D/o M.Narayana	APSVC/425 1/05	Krishnapuram Colony, Near Raju Junior College, Rayachoty, Kadapa Dt., AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	214.80
475	Mudoi Amrit Jyoti S/o Mr. Chandra Mudoi	AssamSVC/ 2165/05	Meleng Lakhan Gaon, PO-Barkhelia Jorhat, Assam	BVSc&AH/AAU/ 04	1.3.81
476	Mukesh Gupta S/o Sh.Vinod Kumar Gupta	Pb SVC- 2536/04	H.No.10-C.5,Shivpuri Mohalla,Dhuri, Distt.Sangrur	BVSc & AH/PAU/04	30.05.82
477	Mukesh Kumar Parti S/o Sh. Raj Kumar Parti	Pb SVC- 2530/04	VPO Rormazara,Tehsil Garhshankar,Distt.Hoshiarpur	BVSc & AH/PAU/03	05.11.78
478	Munna Singh Sengar S/o Shri Birbal Singh Sengar	MPSVC/223 3/04	Vill&PO-Matol,Dt- Tikamgarh (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	4.2.67
479	Muruganatham. P S/o M. Palaniappan	APSVC/428 7/05	D.No.8-6-79/2, Regional Veterinary Officer, Sangam Dairy, NGO Home Centre, Sattenappalli, Guntur Dt 522403	BVSC & AH/TNVASU/01	7.5.78
480	Murugavel.V S/o Veeraswamy	APSVC/417 8/05	C/o D.Narayana Reddy, Room No.1-1189-88, NGO Colony, Kadiri, Anantapur Dt-515 591, A.P.	BVSC/TNVASU/ 2000	13 5.. 5
481	Muthuselvi.R S/o A.Murugan	APSVC/418 6/05	C/o O.Chitti Babu, Beside Syndicate Bank, Thada Kandriga, Thada (M), Nellore Dt.	BVSC/TNVASU/ 95	25.7.70
482	Mythily V.V. D/o V.Vijayan	KeralaSVC/ 2921/04	A-12 T.C.C.Main Colony Udyogamandal, Eloor,Ernakulam	BVSc&AH/KAU/ 04	10.8.79
483	N.Babu Ramachandra S/o N.K Ramachandra	APSVC/424 1/05	9/107 A1, Gandhi Road, Vempalli, Kadapa Dt-516 329, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	8.4.80

<b>SNM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
484	N.Sree Rama Chandra Sastry S/o N. Patanjali Sastry	APSVC/426 3/05	303, Vinayagar Mansion, 9-21-1/8, C.B.M.Compound, Vishakapatnam-500 003 A.P.	BVSC&AH/APA U/65	23.10.44
485	Nachiketa Bhattacharya S/o Shri Amamath Bhattacharya	WBSVC/313 0/04	Vill&PO-Monteswar Dt-Burdwan,Pin-713145	BVSc&AH/WBU AFS/04	5.08.80
488	Naimi Chand S/o Sh. Radhey Shyam	Pb SVC- 2578/04	Vill Jajau Post.Fatehpur Sikri Distt.Agra UP	BVSc & AH/GBPUA& T/99	15.04.75
487	Nailanti Uma Kumar D/o Nagaiah	APSVC/414 2/04	C/o Mudigallia Krishnaiah,RTC Conductor, Ramaiyam Street, Sathupally,Khammam Dt., A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/04	15.4.78
488	Namita Bhalerao D/o Shri R.P.Bhalerao	MPSVC/218 3/04	H.No.413 Sanjivani Nagar, Garha Jabalpur (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/02-03	23.10.79
489	Nansingh Akhare S/o Shri Gopal Singh Akhare	MPSVC/221 2/04	Vill-Baktala PO&The-Gandhwani,Dt-Dhar,M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	12.6.75
490	Narasimha Murthy S/o Govindappa.G.K	KARNA/365 0/	Shanti Nilaya,Nagappa Block,Gowribidanur Taluk,Kolar Distt.	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	10.3.82
491	Narender Kumar S/o Sh Bhagat Ram	HVC/893/04	C/o Sh Devi Ram Verma, VPO Basantpur, The-Suni,Shimla	BVSc&AH/CSK HPKV/04	14.10.76
492	Narendra Kumar S/o Purshotam	RajSVC/315 6/04	Purani Mandi, Hindaun City, Karauli, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	19.7.80
493	Narendra Laxman Rao Wankhade	Gujsvc/2527 /03	Baroda Dairy Savali Centre, V.O. Savali, Gokul Vatika, B/24, To. Savali, Distt.-Baroda Pin-391770	BVSc&AH/PKV/ 89	30.9.83
494	Narendra Verma S/o Dr. H.D.Verma	MPSVC/227 0/04	Krishnapuri,Murar, Gwalior (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	13.4.78

SNM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
495	Nataraju. S.M. S/o Mariyappa	KARNA/365 2/	Sege Kote,Shivanahalli post,Kanakapura post,Kanakapura Taluk,Banglore Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	18.5.80
496	Nath Mridul Kumar, S/o Late Mahindra Ch Nath	AssamSVC/ 2172/05	Vill-Dakshin Petborha,Dt-Nagaon,PO-Uttar Petberha	BVSc&AH/AAU/ 05	1.12.79
497	Nath Mrinal Kumar S/o Mr. Cheniram Nath	AssamSVC/ 2186/05	Vill-Kawaimari, PO- Dalonghat Dt-Darrang	BVSc&AH/AAU/ 05	20.8.80
498	Navdeep Kaur D/o Sh. Balbir Singh	Pb SVC- 2507/04	VPO Kanech ,Distt. Ludhiana	BVSc & AH/PAU/03	05.06.79
499	Navdeep Kumar S/o Sh. Jagdish Kumar	Pb SVC- 2569/04	H.No.1221,St.No.6,Ahata Badan Singh,Moga ,Punjab	BVSc & AH/PAU/03	13.04.79
500	Naveen Kumar. V.S., S/o Sannaiah. V.N.	KARNA/359 4/	Chennangai Village, Polibetta-571215, Viraj pet Taluk, Coorg District	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	17.12.80
501	Naveen S, S/o Surendran R.	KeralaSVC/ 2929/04	Purnami House, Padukkad,Viyur PO,Thrissur-680010	BVSc&AH/KAU/ 04	9.5.80
502	Navjot Kaur D/o Sh.Amrik Singh Sohi	Pb SVC- 2543/04	73-B,Rajguru Nagar,Ludhiana	BVSc & AH/PAU/04	07.01.81
503	Navjot Singh S/o Sh. Tek Singh	Pb SVC- 2511/04	Vill Mallomazra ,P.o Passiana ,Tehsil & Distt. Patiala	BVSc & AH/PAU/03	10.08.79
504	Navneet Sharma S/o Sh. S.R.Sharma	HVC/704/04	Near Govt.School,K.B.Dharmasala,Kan gra,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	21.1.81
505	Navpreet Kaur D/o Sh. Harmail Singh	Pb SVC- 2518/04	Sardar Colony, St.No.5, Sangrur ,Punjab	BVSc & AH/CCSHAU/04	26.09.80

<b>SR#</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
506	Navpreet Kaur D/o Sh. Mohinder Singh	Pb SVC-2554/04	H.No.1740.32,C-II,Bank Colony,Haibowal Kalan,Ludhiana.	BVSc & AH/PAU/04	30.12.80
507	Neeraj Kumar S/o Sh Govind Ram	HVC/703/04	VPO-Lehka,The-Palampur,Distt-Kangra,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	4.6.82
508	Neeraj Sharma S/o Sh VidyaSagar	HVC/688/04	Vill-Gogar,PO-Dhumhar The-Arki,Distt-Solan,H.P.	BVSc&AH/CSK HPKV/04	2.5.80
509	Nelson M.Mathew S/o Mathew Joseph	KeralaSVC/2911/04	Mappila Kunnel House, Chittady PO-Chottiy,Kottayam-686524	BVSc&AH/KAU/ 04	7.3.80
510	Nesbalyne Marwein D/o H.Bollindar Roy	MeghSVC/29/05	Lyngdoh Nonglait C/o H.B.Lyngdoh Mawhai Nongkwar Shillong-8	BVSc&AH/AAU/ 05	16.1.78
511	Nibash Deb Barma S/o Sri Nakul Debbarma	TriSVC/157/04	C/o Sri N.Deb Barma,Vill-Murabari,PO,P.S.-Takarjala,Dt-Tripura (W)	BVSc&AH/WBU AFS/04	21.4.79
512	Nidhi Ravat S/o Shri R.N.Ravat	MPSVC/225 7/04	Ty H-27/B Eastern Railway Colony, Bina, Dist-Sagar (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	19.7.78
513	Nidhi Singh D/o Shri Jagpal Singh	MPSVC/220 8/04	02, Kamla Gram Rasalpura, Mhow (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	15.8.81
514	Niranjan Kumar Agrwal S/o Sh Om Prakash	RajSVC/312 4/04	Vinod Agencies,Vyapar Mandal Hospital Gangapurcity Sawaimadhopur, Raj	B.V.Sc&AH/MA &FSU/04	29.11.80
515	Nirmala.G.C. D/o G.M. Chinnappa Reddy	KARNA/366 6/	Gummareddypur,Srinivasapur Taluk,Kolar Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	4.4.82
516	Nisanth.S S/o R. Sasidharan	KeralaSVC/ 2974/04	Krishna Bhavan, S.R.P.Market PO,Kollam-690539	BVSc&AH/KAU/ 04	19.1.78

SLN	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
517	Nishachandran W/o Sh Rajul Raj	PondiSVC/2 52/04	Shree Sylam, Near R.C. Church Mahe, Pondicherry -673310	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/04	26.10.80
518	Nishant Kumar Ojha S/o Mahesh Kumar	RajSVC/316 6/04	178 D New Railway Colony, Lalgarh, Bikaner, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	27.2.80
519	Nithya Quintail D/o Quintail Mohandassee	PondiSVC/2 10/04	98,Mariamman Koil Street, Boomiyanpet, Nellithope PO, Pondicherry-5	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	22.7.80
520	Nitin,S/o Sh Krishan Dass	HVC/706/04	Vill&PO- Dari, The-Dharam- Sala,Distt-Kangra, HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	25.4.77
521	O.Srinivasa Rao, S/o O. Ramanaiah	APSVC/426 2/05	17-552 Rajaka Street, Nellore-1.	BVSC&AH/ANG RAU/05	26.8.73
522	Olekar Jakkeenra Husen S/o Ahmmadasharifa K. Olekar	KARNA/369 7/	Dr. Olekar Jakkeenra Husen. A. Olekar, Hirur, Muddebihal, Bijapur	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	22.7.81
523	Om Kumar S/o Sh.Ruldu Ram	Pb SVC- 2556/04	H.no.2844,Mohalla Mohan Nagar,bhawanigarh,Distt. Sangrur 148026	BVSc & AH/PAU/04	03.03.82
524	Om Pratap Singh Kushwaha S/o Shri Krishnapal Singh	MPSVC/225 9/04	Virendra Nagar,Gwalior Road, Bhind (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	5.5.77
525	P. Raveender Reddy S/o Srinivasa Reddy	APSVC/414 3/04	H.No.5-11-1095/5, Idgha Road, Pochammakunta, Naimnagar(P), Hanamkonda, Warangal Dt - 506 001, Andhra	BVSC&AH/ANG RAU/04	6.10.77
526	P. Sravanthi D/o Sivanand	APSVC/428 2/05	H.No.8-6-243, Padmavathy Colony, Mahabubnagar - 509 001. A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	6.3.79
527	P.Anandan S/o V.A.Paul Durai	PondiSVC/2 18/04	NO.3,Kulathumedu Street, V.Thattanchavady,Arumbarthapu ram PO,Pondicherry-605110q	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	31.01.81

STUDY NAME	INSTITUTION	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
528 P.Anuradha D/o Purushothman	PondiSVC/2 30/04	19 Nehru Street, Sendhamarai Nagar, Muthialpet, Pondicherry-3	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	24.8.79
529 P.Beeshmi D/o T. Pandiyan	PondiSVC/2 12/04	22,MGR Street,Rajiv Gandhi Nagar,Pondicheery-11	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	28.10.79
530 P.Cholan S/o Panner Selvam	PondiSVC/2 45/04	No.28, IIrd Main Road, Navasakthi Nagar, Thattanchavadi Pondicherry-9	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	10.9.81
531 P.K.Kapoor S/o Sh Mukand Mohan	HarSVC/185 3	Prem Deep,59-E Gali No-11,Jawahar Nagar, Hisar	BVSc&AH/Udai pur University/79	10.7.58
532 P.Madhuri D/o Ramachandra Reddy	APSVC/414 4/04	12-5-32-12, Sai Mijra Apartments, Vijayapuri Colony, Chenna Reddy Street, Tarnaka, Secundrabad. Andhra Pradesh	BVSC&AH/ANG RAU/04	16.8.80
533 P.Padmapriya W/o B.Rubashanthan	KeralaSVC/ 2984/04	Flat No.B.30 Shantinikethan Apartments Anna Nagar, Madurai,Tamil Nadu	BVSc&AH/KAU/ 04	14.9.75
534 P.Parvady Devy D/o Pasupathy	PondiSVC/2 29/04	No.18,Mariammam Koil Street,Kundupalayam Pondicherry-9	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	12.2.79
535 P.T.Chitra D/o P. Thangarasu	PondiSVC/2 16/04	No.38,Killas Street,Neravy PO,Karaikal-609604	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	2.11.76
536 P.Vithya D/o Panneer Selvam	PondiSVC/2 39/04	No.11 Subbiya Nagar,Fourth Cross (Mass Hotel Back Side) Pondicherry-1	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	20.8.81
537 Pallab Ghosh S/o Sh Amit Kumar Ghosh	WBSVC/309 0/04	Sarbamangola Pally (N), PO&Dt- Malda Pin- 732101	BVSc&AH/WBU AFS/04	12.12.80
538 Pandit Abhayendra Kumar S/o Mahendra Pandit	AssamSVC/ 2171/05	Shastri Nagar,PO-Meendih ,Dt- Dhanbad State-Jharkhand	BVSc&AH/AAU/ 05	22.2.80

REG. NO.	NAME	REG. NO.	ADDRESS	REG. NO.	DATE
539	Papa Rao.M S/o Gaddeyya	APSVC/418 4/05	Podugupadu, Jarjangi (P.O), Kotabommale (M), Srikanthapuram Dt- 532 195 A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/05	2.7.79
540	Paramasivan.M S/o Madaswamy	APSVC/424 5/05	C/o Sk.Muzeer Hussai, B-64, NSP Colony, Vinukonda, Guntur Dt., AP	BVSC/TNVASU/ 95	23.4.69
541	Parasappa Tele, S/o Shrishail	KARNA/361 3/	P.S. Tele, Halingali post, Jamakhandi Taluk, Bagalkot District-587327	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	12.7.81
542	Parmod Rath S/o Sh. Tarsem Lal	Pb SVC- 2503/04	204 Gobind Pura Phagwara, Distt. Kapurthala	BVSc & AH/PAU/03	15.06.78
543	Partha Pratim Ray S/o Manik Ch Ray	WBSVC/312 2/04	S.P.Mukherjee Road,Shivmandir PO- Kadamtalao Dt-Darjeeling,Pin- 734433	BVSc&AH/WBU AFS/04	17.8.81
544	Parvesh Kumar S/o Sh Hoshiar Singh	HVC/701/04	Vill-Bajuri(Khala),PO-Teh&Distt- Hamirpur,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	8.1.80
545	Patel Himanshu Ramanlal	Gujsvc/2529 /04	At. PO. Sabalpur Ta - Vadnagar Dist - Mehsana (U.G.)	BVSC&AH/GAU /04	11.11.79
546	Pathak Nabaneeta D/o Sri Matilal Pathak	AssamSVC/ 2177/05	Gandhinagar,Barpeta,PO&DT- Barpeta,Pin-781301	BVSc&AH/AAU/ 05	23.11.79
547	Patil Narayanaswami Shankar Rao	Gujsvc/2526 /04	Asst. Manager (Vet.) Dabhoi, Baroda Dairy	BVSc&AH/PKV/ 86	7.6.64
548	Pawas Diwan Raghavendra S/o Late Shri Shrivendra Singh Raghav	MPSVC/220 7/04	Vill- Kharah Tehsil-Kolaras Distt- Shivpuri (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	2.2.81
549	Pawas Kumar Yenduri S/o Channakeshvara Rao	APSVC/420 4/05	D.No.3-15-3/C, Flat No.51, Venkata Baleji House, Pattabhiupuram, 1 Line, Guntur- 522 006 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	9.8.80

राज्य नाम	मुक्ति	अधि	विवर	दिनांक
550 Pavit Pal Singh S/o Sh.Tarsem Singh Randhawa	Pb SVC-2571/04	92,Golden Avenue,Amritsar 963,Phase-4,Mohali	BVSc & AH/PAU/04	24.10.80
551 Pawan Kumar S/o Chander Bhan	KARNA/368 3/	C.U.P.A., Veterinary Hospital and Shelter,U.A.S Campus,Hebbal,Bangalore-24	B.V.Sc& A.H/CCSHAU/2000	19.7.76
552 Pawan Kumar S/o Sh Tek Chand	HarSVC/184 4	VPO Bapora, Distt-Bhiwani	BVSc&AH/CCS HAU/04	4.4.80
553 Pawanjit Singh Cheema S/o Sh Kashmir Singh Cheema	Pb SVC-2501/04	62, Sudarshan Park ,Jalandhar 144 002	BVSc & AH/PAU/03	30.11.78
554 Pentyala Vidyasagar S/o Sreenivasa Rao	APSVC/420 2/05	Chandalur(P),I.Pangulur(M), Prakasam Dt. AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	12.7.80
555 Peraiah Ballikuru S/o Anjaiah	APSVC/421 2/05	Santhanuthalapadu Prakasam Dt-523 225 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	16.7.81
556 Phani Madhuri Mummareddi D/o Venkata Appa Rao	APSVC/420 8/05	Yernagudem, Devarapalli(M), W.G.Dt-534 313 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	8.7.80
557 Pooja Raipuria D/o Shri R.D.Raipuria	MPSVC/223 7/04	42,Anand Nagar,Thatipur Bajaria, Murar, Gwalior (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	7.11.79
558 Pouison Joseph S/o T.K.Joseph	KeralaSVC/ 2958/04	Thuruthel House, Koliyadi Nenmeni PO, Sultan Bathery,Wayanad-673592	BVSc&AH/KAU/ 04	16.11.78
559 Prabhjot Kaur D/o Sh. Harpal Singh	Pb SVC-2566/04	H.No.146,Arjun Colony,Ward No.8,Near DAV College Ground ,Dasuya Distt.Hoshiarpur 144205	BVSc & AH/PAU/01	03.05.77
560 Prabhjot Kaur Sekhon D/o Sh. Daljit Singh Sekhon	Pb SVC-2517/04	Calcutta House VPO Isewal (Near Mullanpur Dakha),Distt.Ludhiana.	BVSc & AH/PAU/04	21.04.78

SL. NO.	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DATE
561	Prabir Roy S/o Shri Provash Ch. Roy	WBSVC/310 3/04	Paschim Ichapur, Nabapally,Barasat Dt- 24 Prgs (N), Pin- 700126	BVSc&AH/WBU AFS/04	18.10.80
562	Pradeep Kr. Singhal S/o Khem Chand	RajSVC/319 6/05	Shiv Colony, Mandawar Road, Mahwa Dausa, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	5.2.80
563	Prakash S/o Hanamantappa Choori	KARNA/361 7/	C/o H.S. Hakki (Jr.Asstt.KPTCL),AT post Hanamasagar, Kushtagi Taluk, Koppal-584114	BVSc&AH/ UAS, Dharwad/04	20.07.81
564	Pramod Jindal S/o Haridutt Gupta	RajSVC/317 3/04	71/109, Mansarovar Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	25.8.79
565	Pranay Kumar Das S/o Shri Prafulla Das	WBSVC/313 3/04	Vill-Pashoya PO- Batun,Dt- D/Dinajpur	BVSc&AH/WBU AFS/04	18.10.81
566	Praneet Raj.N S/o Punya Raj	APSVC/415 6/04	H.No. 350. S.R.Naik Nagar, I.D.A, Jeedimetla, Hyderabad- 500 055, Andhra Pradesh	BVSC&AH/ANG RAU/04	28.11.78
567	Prasad.B S/o Devadanam	APSVC/421 8/05	H.No.6-10-172,Singalagunta, Tirupathi,Chittoor Dt-517 501, A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/05	23.11.79
568	Prasada Ningappa Durappanavar, S/o Ningappa Doddappa Dur	KARNA/359 1/	At post Hulikatti, Bailhongal Taluk	BVSc&AH/ UAS, Dharwad/04	28.4.82
569	Prasanna Kumar Patil S/O Sh Kademanne S.G	Pb SVC- 2498/04	I-299 BRS Nagar,Ludhiana	BVSc/UAS 'Dharawad/97	02.06.71
570	Prathiush P.R.,S/o C.Prathapachandran	KeralaSVC/ 2903/04	Thoppil Veeu,Thazhassery Lane, Palkulangara,Thiruvananthapuram,Pin-695024	BVSc&AH/KAU/ 04	29.5.78
571	Pratul Bhunia S/o Late Mantu Charan Bhunia	WBSVC/312 7/04	Vill-Phulbari,PO-Sagar Phulbari,P.S.Sagar,Dt-24 Prgs(S),Pin-743373	BVSc&AH/WBU AFS/04	15.7.80

STUDY NAME	INSTITUTION	ADDRESS	QUALIF	DOB
572 Praveen Kumar Chandupatla S/o Rama Murthy Chandupatla	AFSVC/424 9/05	C/o Dr. Pawan Kumar, Computer Programmer, Q.No.B- 3/2, NIT(REC) Quarters, Khajipet, Warangal-506 004, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	18.3.77
573 Praveen Kumar S/o Sh Indra Kumar	RajSVC/313 7/04	Ward No.6,Khatiko Ka Mohalla,Surajgarh,Jhunjhunu Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	30.1.79
574 Praveen Rohit S/o Sh Rajveer S.	HarSVC/182 7	Ramgali Gonara Distt,Sonipat,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	9.10.78
575 Praveen T.,S/o M.G.Thankappan	KeralaSVC/ 2922/04	"Thapasya" Mythri Ng,Valiyavila,Thirumala.PO- Thiruvananthapuram,Pin- 695,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	19.3.77
576 Praveen.K.N. S/o Nagendrappa .K	KARNA/365 4/	Geethanjali:614,3rd Stage,2nd Main ,6th Cross Vinobanagar,Shimoga,Karnatak a	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	1.6.82
577 Preetha Menon K. W/o Vinod P. Menon	KeralaSVC/ 2933/04	Chaitanya Karuveetil House,Varandarapilly PO, Thrissur-680303	BVSc&AH/KAU/ 04	16.4.81
578 Preethy Mol Joseph D/o P.C.Joseph	KeralaSVC/ 2930/04	Plakaputhen Purayil House, Muthalakodam,PO- Thodupuzha,Idukki-685605	BVSc&AH/KAU/ 04	19.8.80
579 Premkumar S/o A.Ramappa	KARNA/383 7/	Maruthi Nagar,Srinivasapura Town,Kolar Dt,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	11.3.82
580 Prithvi Singh S/o Mohan Singh Shekh	RajSVC/317 7/04	VPO - Khejroli Teh - Chomu Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	22.3.80
581 Priya Goswami	GoaSVC/12 9	Hira Smruti,Alto Torda,Porvorim -Goa-403521	BVSc&AH/MAF SU/04	
582 Prosun Biswas S/o Shri Balai Kr. Biswas	WB SVC/307 4/04	Garpara Station Rd, PO- G.Obardanga Dt-24 Prgs (N),Pin-743252	BVSc&AH/WBU AFS/04	21.12.80

NUMBER	NAME	REMARKS	NAME	DATE
583	Pudupakam R.Sumathi Kumar S/o P.S.Raghavendra Rao Naik	APSVC/416 2/04	2/143, I.P.D.Nagar, Chinna Chowk, Kadapa-516 002	BVSC&AH/ANG 14.5.79 RAU/02
584	Puja Patel S/o Sh Madan Lal Patel	MPSVC/219 9/04	G-13/5 South T.T. Nagar, Bhopal, M.P.	BVSc&AH/JNKV 28.12.76 V/03-04
585	Pujaraoappa S/o Pujara Doddia swappa	KARNA/367 9/	Ramadurga post,Kudligi Taluk,Bellary Dt,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04
586	Putamte David Mathewmangalana S/o Sh. Ashwini Putamte	AssamSVC/ 2188/05	Electric Veng, Haflong N.C.Hills Assam	BVSc&AH/AAU/ 12.5.78 05
587	Punati Madhavi Latha D/o Venkata Rao	APSVC/425 7/05	Ravinuthala, Korisapadu(M), Prakasam Dt.,A.P.	BVSC&AH/ANG 15.7.81 RAU/05
588	Purnima Yedipurapu D/o Appa Rao	APSVC/423 5/05	LIG-5, Autonagar,BHPV(P), Visakhapatnam-530012,A.P.	BVSC&AH/ANG 22.9.79 RAU/05
589	Purohit Tejandra Jagdish Chandra	Gujsvc/2524 /04	C/o Naranbhai Purohit, Pamba Havali, Choradi Gate, 5 Bhojraj Para, Gondal-360011 Dt- Rajkot,Gujarat	BVSc &AH/GAU/03
590	Pushpraj Singh Sikarwar S/o Shri Angilish Singh Sikarwar	MPSVC/218 6/04	Near Petrol Pump, Sabalgarh,Dt- Morena (M.P)	BVSc&AH/IGKV 15.6.77 V/02-03
591	Pyyadity Amma Reddy S/o Yogi Reddy	APSVC/417 3/04	B4, Kranthy Complex, Bansilal Nagar, Budwel, Rajendranagar, Hyderabad-30, Andhra Pradesh	BVSC/APAU/77 10.4.56
592	R.G.Prakash S/o Late Shrinivas Rao	KARNA/364 4/	C/o N.R.G.Rao.22.Chandah Nilaya,14 "A" Cross,29th Main,BTM 2nd Stage,Banglore	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04
593	R.Mouska D/o S.V.Ramasami	RajSVC/311 0/04	299,Himmat Nagar, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc/TNVASU 9.5.76 /00

SIMILAR NAME			
594 R.Ravindran S/o Ramanathan	PondiSVC/2 43/04	No.8,Cavery Street, Vellore Nagar, Nainamandapam,Pondicherry	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/01 13.11.78
595 R.Sadeesh Kumar S/o Ramakrishnan	PondiSVC/2 44/04	No.6, Roja Street, Solai Nager, Muthupalpet Pondicherry-3.	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03 17.5.82
596 R.Senthikumar S/o A.Rajamanickam	PondiSVC/2 15/04	No.5,Vinayagar Koil Street,Pettuchettipet,Lawspet,Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02 27.9.80
597 R.Sheela D/o Rajegopal	PondiSVC/2 47/04	10 V Cross Street, Pudu Nagar, Reddiarpalayam,Pondicherry-10	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03 19.10.80
598 R.Suresh S/o Ramanathan	PondiSVC/2 48/04	12 Main Road, Annavasal, Nedugadu Karaikal-3	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02 19.2.79
599 R.Usha Rani D/o Rathinam	PondiSVC/2 36/04	No.10 Thilaiyadi Valliyamai Street, Ashok Nagar, Lawspet Post- Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03 5.7.82
600 Rabha Diganta S/o Chandra Kanta Rabha	AssamSVC/ 2192/05	Vill-Phafal,PO-Dudhnoi,Dt-Goalpara,Assam Pin-783124	BVSc&AH/AAU/ 05 1.11.79
601 Raghavendra Srikanth.N S/o Subramanyam	APSVC/419 9/05	D.No.24-128 Balaji Nagar, Opp:Street of Goshala, Simhachalam(P.O),Visakhapatnam 530 018 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05 19.1.80
602 Rahman Mustafizur S/o Md. Mazibar Rahman	AssamSVC/ 2185/05	Vill-Chaibandha,PO- Barkanda, Dt-Dhubri,Assam	BVSc&AH/AAU/ 05 1.11.80
603 Rahul Gotthawat S/o Ramnagar	RajSVC/315 5/04	A-18 Mahaveer Nagar, Tonk Road, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05 20.7.80
604 Rahul Kumar Nelli S/o Veeriah Naidu	APSVC/418 8/05	2-9A-10, Venkat Nagar, Kakimada- 533 003 A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/05 23.11.79

S/N	NAME	REGN	ADD	NAME	REGN
605	Raj Kumar Gupta S/o Sh Daya Nand Gupta	HarSVC/184 2	H.No.76/24 Shiv Nagar Sonipat,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/03	1.4.79
606	Raj Kumar S/o Sh Jagmal Singh	RajSVC/311 5/04	Veterinary Hospital,Maharajawas The- Behoror,Alwar, Rajasthan	B.V.Sc&AH/CC SHAU/97	14.10.71
607	Raj Singh S/o Sh Pahap Singh	RajSVC/311 2/04	Vill-Luhakna Khurd,Via- Bhabru,Jaipur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/97	7.12.69
608	Rajagopal.R S/o N.Ramachandran Pillai	KeralaSVC/ 2901/04	Sreevihar Keerikad PO, Ramapuram,Alsappuzha-690508	BVSc&AH/KAU/ 04	28.5.80
609	Rajalakshmi Radhakrishnan, D/o C.G. Radhakrishnan	KeralaSVC/ 2994/04	Eriyaparambil House, Kadakkarpally PO, Cherthala, Alappuzha-688529	BVSc&AH/IGKV V/04	6.9.80
610	Rajaram Ahirwar S/o Shri K.Ahirwar	MPSVC/221 4/04	Vill&PO- Gunal,Dt-Tikamgarh (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	12.4.74
611	Rajashekhra. D.B. S/o Basavarajappa.D	KARNA/360 9/	Gudumaghatta (NP), BhadraVathi Taluk, Shimoga- 577243	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	12.2.81
612	Rajbir Kaur D/o Sh.Sukhbir Singh	Pb SVC- 2548/04	Mrs.Kashmir Kaur (N.S) Civil Hospital,Dasuya,Hoshiarpur,Pun- jab	BVSc & AH/PAU/04	06.06.77
613	Rajeev. N. Kuler S/o Nagappa. F. Kuler	KARNA/360 0/	At post Horogoppa, Billahalli, Ranebennur Taluk, Haveri District	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	20.12.80
614	Rajender Kumar S/o Sh Om Prakash	HarSVC/181 g	Vill-Risalia Khere,Dt- Sirsa,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	2.2.82
615	Rajendra Kumar Gupta S/o Shri Ghaneshyam Das Gupta	MPSVC/224 2/04	Vill&PO- Bichondna Bhander,Dist-Datia (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	12.12.70

SNM	NAME	REGN NUM	ADD	QUALIF	DOB
616	Rajendra Kumar Meena S/o Chhotu Ram	RajSVC/316 5/04	Vill & P Raholi Teh - Newai Tonk, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	7.6.78
617	Rajesh Dhankhar S/o Sh Subhash Chander Dhankhar	HarSVC/184 8	860/34 Vijay Nagar Near Railway Station,Rohtak	BVSc&AH/CCS HAU/04	3.2.78
618	Rajesh Janga S/o Sh Sewa Singh	HVC/695/04	VPO-Karour,The-Nadaon,Dt- Hamirpur,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	28.1.81
619	Rajesh K Sharma S/o Sh B.B.Sharma	HVC/694/04	H.No.32,Street No.2,Khanna Nagar, Jawalapur,Harduar	BVSc&AH/CSK HPKV/04	20.6.74
620	Rajesh Kr. Choudhary S/o Chhota Ram	RajSVC/319 0/05	14, Green Park, Near Sophia School, Bikaner, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	19.7.79
621	Rajesh Kumar Agarwal S/o Sh Radhakishan	RajSVC/314 0/04	VPO-Barnala,The- Bamanwas, Sawaimadhopur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	4.5.77
622	Rajesh Kumar S/o Sh Sunder Pal	HarSVC/185 0	V.Asraka Majra PO- Bawal Rewari,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	15.2.77
623	Rajesh Kumar Sihag S/o Sh Balbir Singh	HarSVC/180 8	V.Habatpur, Po- Nirjen Dist- Jind,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/03	15.4.80
624	Rajesh Singh S/o Shri Bhagirath Singh	MPSVC/222 6/04	Shrikrishna Nagar Gali No.5,Berlanagar,Gwalior (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.8.79
625	Raji.T.A.D/o Anantha Krishnan T.G.	KeralaSVC/ 2920/04	Thekkemepilly House,Perinchery PO, Thrissur- 680306,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	25.2.79
626	Rajinder Singh S/o Sh. Gurjant Singh	Pb SVC- 2524/04	VPO Buttar,Near Rania Road ,Tehsil & Distt Moga 142040,Punjab	BVSc/TNVASU/ 04	02.04.80

SIMI NAME	RNUM	ADD	QUALF	DOB
627 Rajiv Kumar S/o Sh.Raj Kapoor	Pb SVC-2532/04	H.No.67.2,Dharam Pura Colony ,Batala,Dt Gurdaspur,Punjab	BVSc & AH/SKUAS&A/04	08.09.80
628 Rajni Garg D/o Sh. Piara Lal Garg	Pb SVC-2531/04	1538.1,St.No.17,Janta Nagar,Ludhiana	BVSc & AH/PAU/04	24.09.80
629 Rajnish Swami S/o Shri Suresh Chandra	MPSVC/222 2/04	N.R.Convent School, Near Pipalwali Mata Mandir,Workshop Wali Gali,Morena(M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	01.01.78
630 Rajpal S/o Sh Rohtas Singh	HarSVC/183 7	Vill-Badkoda, Distt-Narnaul,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	15.2.80
631 Raju Mahadevrao Bhurbhude S/o Shri Mahadev Rao	MPSVC/218 7/04	Dabholna Tehsil Bhaisdehi, Dist-Betual (M.P)	BVSc&AH/Dr.P RDKV/97	15.2.66
632 Raju S/o Ningappa kamble	KARNA/358 4/	At post Manthal, Basavakalyan Taluk, Bidar,Karnataka	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	5.6.81
633 Rakesh Kumar Bamnele S/o Shri L.P.Bamnele	MPSVC/221 5/04	Rajeev Ward, Housing Board Colony Narsinghpur (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.7.77
634 Rakesh Ranjan S/o Sh. Nand Kishor Pradad	Pb SVC-2577/05	Vidya Vihar Distt.Nalanda P/o Nalanda ,Bihar 803111	BVSc & AH/GBPU &T/2000	09.03.75
635 Rakesh Roy S/o Shri Hrishikesh Roy	WBSVC/313 6/04	Vill-Par-Patiram PO-Atrai,Dt-D/Dinajpur,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	16.10.81
636 Rakhi Gangil D/o Shri Murari Lal Gangil	MPSVC/222 8/04	Murar,Gwalior (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	20.12.78
637 Ram Ji Lal Meena S/o Bhagwan Sahai	RajSVC/316 8/04	A-297, Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	1.2.80

SR#	NAME	NUM	ADD	QUALF	DIS
638	Ram Kumar Nema S/o Shri Ramesh Kumar Nema	MPSVC/219 2/04	817 Gandhi Chowk Bazar, Raheli, Dist- Sagar, M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	11.9.79
639	Ram Parkash Kamal S/o Sh Bishan Singh	HVC/700/04	Vill-Barthi, The-Jawala- Mukhi, Distt-Kangra, H.P.	BVSc&AH/CSK HPKV/04	6.9.80
640	Ram Swaroop Meena S/o Latoor Lal	RajSVC/316 3/04	Vill-Gundlai Post - Mokhampura Teh - Chhipabardon, Baran, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	21.7.75
641	Ramakrishna Reddy.K S/o Poli Reddy	APSVC/424 3/05	Chinaobinenipalli, Bestavaripeta(M), Prakasam Dt, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	30.5.79
642	Ramamohan rao Gavini S/o Venkateswarlu	APSVC/427 6/05	Kothapalem, Vetapalem, Prakasam Dt., A.P.,	BVSC & AH/ANGRAU/05	29.8.78
643	Raman Kumar S/o Sh. Jaswant Rai	Pb SVC- 2527/04	Peer Banna Road ,Street No-4 ,Sunam Sangrur,Punjab.	BVSc & AH/PAU/04	12.10.81
644	Ramandeet Kaur D/o Sh.Nachhaar Singh	Pb SVC- 2553/04	Dashmesh Ng,St.No.3,Dhuikot Rd,Ahmedgurdh Sangrur,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	27.04.81
645	Ramavtar Singh S/o Sh Gopal Prasad	RajSVC/313 6/04	Mahaveer Prasad Singh Oil Mills Sainpau Road, Bari Dholpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	10.7.77
646	Ramavtar Goyal S/o Sh Bajrang Lal	RajSVC/312 8/04	B.R.Readymade Centre Wazipur,The-Gangapur City,Sawaimadhopur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/MA &FSU/04	2.9.80
647	Rambir Singh Thaken S/o Sh Ram Chander	HarSVC/182 6	VPO Mandhana Distt- Bhiwani,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	5.11.77
648	Ramchander Soni S/o Jagdish Chander	RajSVC/317 6/04	Soni Mansion, Behind Vishvkarma Temple, Hanumangarh Town, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	7.5.78

SLNO	NAME	RNUM	ADD	QUALF	DOB
649	Ramesh.A. S/o D. Anjanappa	KARNA/367 0/	Khajihosahalli,Kattiganahalli post,Hosakote Taluk,Banglore Rural Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	24.5.80
650	Ramesh.C. S/o \$handrashekappa	KARNA/358 5/	Maleshankara Nilaya, B.H. Road, Ayanur, Shimoga-577211	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	1.6.80
651	Ramu Bagadi S/o Appa Rao	APSVC/419 1/05	Tirlandi, Sithapuram (P.O) Tekkali(M), Srikkulam Dt-532 201 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	10.3.79
652	Rana Raj V.R. S/o V.Rajan	KeralaSVC/ 2981/04	T.C.26/276,Sreevalsam,Vachiyo or PO,Trivandrum- 695035,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	20.5.80
653	Randheer Singh Swami \$/o Sh Daya	RajSVC/313 0/04	Plot No.1,Sector- 12/1,Hanumangarh,Jun,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/93	6.3.80
654	Ranganathappa S/o Kariyappa	KARNA/367 1/	Muganahalli(v),Guligenahalli post,Sira Taluk,Tumkur Dt,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	15.6.79
655	Ranimol Antony D/o V.V.Anutony	KeralaSVC/ 2973/04	Vallamangalam House,Kalathukadav PO,Erattupetta,Kottayam- 686579	BVSc&AH/KAU/ 04	18.5.80
656	Ranjini Chandran.K, D/o K.Chandran	KeralaSVC/ 2891/04	Kunnath Mana Shreyas Nagar, Oilukkara PO, Thrissur-680655	BVSc&AH/KAU/ 04	4.3.80
657	Ranjit Singh Jadon S/o Sh Ram Singh Jadon	HarSVC/180 4	92 Govt. Employees Colony Narnaul,Kerala	BVSc&AH/PAU/ 03	15.11.74
658	Ranjith Mohan.M S/o P.K. Mohanan	KeralaSVC/ 2928/04	Prayag, Kaithachal Rd, Kolazhy PO,Thrissur-680010,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	10.4.78
659	Ranjith Ramanathan S/o Dr.O.A.Ramanathan	KeralaSVC/ 2910/04	Sreenagar, West fort, Thrissur- 680 004,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	24.5.79

SR#	NAME	REG#	ADD	QUALIF	DOB
660	Ranjith.D. S/o Damodaran	KARNA/365 1/	C/o S.Vijay,Near Anna Poorna Rice mill,Huliyan Road,Hiriyur Taluk,Chitradurga Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	10.7.81
661	Ranjitha Tiwar D/o Subash Prasad	APSVC/418 4/05	H.No.9-1-43/7, Langer House, Hyderabad-500 008 A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/99	21.2.77
662	Raseena Karim D/o Abdul Karim	KeralaSVC/ 2938/04	Arackaparambil House, Near Guru I.T.C Vengallor PO, Thodupuzha,Idukki-685580	BVSc&AH/KAU/ 04	29.4.80
663	Rathod Shivaraj.Naik, S/o Purusingh	KARNA/362 4/	R/o, Govind Naik, Yelamarnadagi post,Karnataka	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	28.4.81
664	Ravi Kumar Verma S/o Shri B.N.Verma	MPSVC/219 4/04	Pandey Tola, Near Old Kotwali, Tehsil Nagod, Dt-Satna (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.03.79
665	Ravi.K.B. S/o Boraiah.K	KARNA/367 7/	Kachigere Village and post,Mandy Taluk Distt-571 429,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	25.9.79
666	Ravneet Singh S/o Sh. Gurnam Singh	Pb SVC- 2505/04	H.No.75314,Gali Opp Guru Nanak Park,Ruby House, Jail Road, Gurdaspur	BVSc & AH/PAU/03	22.03.79
667	Rekha Yadav ,S/o Gangadhar Yadav	KARNA/369 4/	H.No. 1/55,"Gokul",Rajiv Nagar,Brahmavar ,Udupi Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	8.8.81
668	Rekha.M.T. D/o Thimmegowda	KARNA/366 4/	B Block,Near K.E.B., K. R Nagar,Mysore	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	1.3.82
669	Renolson Kunjumon Nelluvelil	KeralaSVC/ 2931/04	Nelluvelil House, Theodical PO- Ranny,Pathanamthitta- 689613,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	28.3.79
670	Renu D/o Sh Dhama Pal	HarSVC/181 7	2376 Urban Estate Jind Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	14.6.80

SR#	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
671	Renu Joseph W/o Dr.Davis Mallakal	KeralaSVC/2895/04	Thakidippurath House,Meikkad PO, Kariyad Angamaly,Ernakulam-683589,Kerala	BVSc&AH/KAU/04	1.5.80
672	Renuka Devi.S D/o Koteswara Rao	APSVC/425 6/05	Pathur, D.No.2-2-1, Narasaraopet, Guntur Dt-522 601, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.6.81
673	Reshma R.S D/o C. Rajasekharan Pillai	KeralaSVC/2961/04	Valiya Vila-Ragam,Near Bharanikkavu Temple, Punalur PO, Kollam-691305	BVSc&AH/KAU/04	1.6.80
674	Rijusmita Sarma Deka D/o Sh Mitra Dev	RajSVC/310 9/04	15/180 Malviya Nagar, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/AAU /98	1.4.74
675	Rinkesh Kumar Verma S/o Shri Amolakchand Verma	MPSVC/221 9/04	30,Haat Ki Chowki,Gali No.2, Ratlam (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.5.79
676	Rinmuapui D/o Rinzawna	MizSVC/153 /05	B/49 Mission Veng,PO- Aizawl, Mizoram	BVSc&AH/CAU/05	28.8.78
677	Ritu Arora D/o Sh. Resham Lal Grover	Pb SVC-2542/04	H.No.149,Phase 2,Part-2,Model Town,Bathinda 151001	BVSc & AH/PAU/04	27.03.81
678	Ritu Chauhan D/o Sh Raj Kumar	HarSVC/183 1	Q.No.223/1 Railway Colony Jind,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	9.8.80
679	Rituparna Banerjee S/o Shri Prabir Banerjee	WBSVC/311 1/04	Pakurtala PO-Raghunathganj,Dt- Murshidabad,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	18.2.81
680	Ritwik Pradhan S/o Late Sh Nityananda Pradhan	WBSVC/309 3/04	Vill-Saria PO- Raipur P.S. Contai, Dt-Medinipur (Purba),Pin-721401	BVSc&AH/WBU AFS/04	2.1.82
681	Rohit Kumar S/o Sh Parmod Kumar	HVC/684/04	V&P.O. Kilba,The-Shangla,Distt-Kinnaur,H.P	BVSc&AH/CSK HPKV/04	6.1.79

STUDY NAME	RNUM	ADD	QUALIF	MIS
682 Rose Thomas Kattakayam D/o Thomas Joseph Kattakayam	KeralaSVC/ 2978/04	Kattakayam House,Power House Road, Palarivattom Kochi-682025	BVSc&AH/KAU/ 04	7.9.78
683 Ruma Mukherjee S/o Mr. Malay Mukherjee	WBSVC/310 4/04	Kanakshali Mandirtala PO-Chinsurah, Dt- Hooghly	BVSc&AH/WBU AFS/04	28.12.80
684 Rupinderjit Kaur D/o Sh. Sital Ram	Pb SVC- 2538/04	Mohali Prempura (Shivpuri Road),Phagwara ,Distt.Kapurthala-144401	BVSc & AH/PAU/04	26.10.80
685 S. Lingarajanna S/o N. Siddappa	KARNA/357 7/	Veterinary Officer, Ramagiri, Chitradurga District..	B.V.Sc/ UAS, Bangalore/83	1.10.55
686 S.Anand S/o Shanmugaraja Gurunathan	PondiSVC/2 50/04	No.15, Main Road, Vadammattam, Kottucherry (PO), Karaikal-9	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	25.9.81
687 S.Anitha D/o Segaran	PondiSVC/2 35/04	No.78,Swamipillai Garden, Lawspet Post, Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	26.8.80
688 S.B Purushotham S/o Boralingaiah	KARNA/363 1/	Garden House,Thonganahalli,G.Hosahalli post,Gubbi Taluk,Tumkur District	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	22.11.81
689 S.Giddi Lokesh S/o Sri Hari Rao	PondiSVC/2 42/04	D-No.1-284,Ambedkar Nagar, Yanam-533464,Pondicherry	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	30.8.80
690 S.Lakshmi D/o Subramani	PondiSVC/2 38/04	No.33,Goubert Street, Rajiv Gandhi Nagar, Pondicherry-11	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	16.4.80
691 S.Laxma Reddy S/o Malka Reddy	APSVC/415 9/04	H.No.6-83, Malthummeda, Nagireddypet(M), Nizamabad Dt- 503 108, Andhra Pradesh	BVSC&AH/ANG RAU/04	2.8.77
692 S.Nandakumaravel S/o E. Sivamani Ranganathan	PondiSVC/2 19/04	18,City Garden, Edayarpalayam,Pondicherry-7	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	12.10.80

SR#	NAME	RNUM	AM	QUALF	DOB
693	S.Neha D/o Dr.S.Ganpath Rao	AP SVC/416 0/04	Plot No.163, Kailas Nagar, Adilabad - 504 001, Andhra Pradesh	BVSC&AH/MAF SU/04	19.6.81
694	S.P.Vinil S/o H.Samraj	KeralaSVC/ 2999/04	Mirash Bhavan,Padmashi Kavala,Pattanakkad PO,Apappuzha-688531	BVSc/TNV&AS U/00	6.6.76
695	S.Sampathkumar S/o R. Seyalou	PondiSVC/2 17/04	11, Mariammam Koil Street, Puthupet, Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/04	23.9.77
696	S.Saraladevy D/o R. Sathianarayanan	PondiSVC/2 51/04	No.4,Paari Street,Ananda Nagar,Kadirkamam,Pondicherry- 9	BVSc/TANUVA S/96	4.3.73
697	S.Udaianan S/o Shankar	PondiSVC/2 41/04	35, Vinayagar Koil Street, Shamugapuram,Pondicherry-9	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/04	24.10.80
698	Sabarinath.T S/o Sh K.Thankappan	KeralaSVC/ 2887/04	T.C.12/1365,H.No.14(A),Thoppil Ng,Kumarapuram,Near Medical College, Thiruvananthapuram	BVSc&AH/KAU/ 04	27.3.80
699	Sabu M.U S/o Ulahannan M.U.	KeralaSVC/ 2977/04	Manivayalil House, Mandapam PO, Chittarikkal, Kasargod- 671326,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	5.3.77
700	Sahdev Ram Choudhary \$/o Sh Mangi Lal	RajSVC/314 8/04	VPO-Ubasi,Via- Tamav,Nagaur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	1.8.77
701	Saikat Boliar S/o Sh Pannalal Boliar	WBSVC/310 1/04	Vill-Mazilpur VPO- Joynagar Mazilpur Dt- 24 Prgs(S), Pin- 743337	BVSc&AH/WBU AFS/04	2.5.81
702	Saikat Samanta S/o Shri Bhudeb Ch.Samanta	WBSVC/311 3/04	Vill&PO-Champadanga,Dt- Hooghly,Pin-712401,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	2.10.81
703	Sairabanu.S W/o Siyad S.	KeralaSVC/ 2935/04	Thasneem Keerikad,PO- Pathiyorkala,Kayamkulam,Alpp uzha-690508	BVSc&AH/KAU/ 04	30.5.80

STUDY NAME	ROOM	ADD	QUALIF	DIS
704 Saket Sharma S/o Sh. Subhash Chander Sharma	Pb SVC- 2506/04	VPO Behrampur ,Distt .Gurdaspur,Punjab	BVSc & AH/PAU/03	29.04.80
705 Sakkariya Ebrahim S/o Ebrahim N.P.	KeralaSVC/ 2998/04	Pulari H.No.4/517 C, Joseph Road, Calicut PO, Calicut Beach, Pin-673032	BVSc&AH/KAU/ 04	22.3.78
706 Sameer Gupta S/o Sh.Vinod Kumar Gupta	Pb SVC- 2575/04	Bhullar Hosiptal ,P.o Mahal Ram Tirath Road,Amritsar	BVSc & AH/PAU/02	29.04.79
707 Samik Kumar Paul S/o Shri Sisir Kumar Paul	WBSVC/311 8/04	C/o Susanta Biswas,205/2,Suitmath,PO- Berhampore,Dt-Murshidabad	BVSc&AH/WBU AFS/04	2.1.81
708 Sandeep Kumar S/o Sh. Dharam Paul	Pb SVC- 2545/04	C.o Beauty Shawl Store Shop No.180,Mochpura,Ludhiana	BVSc & AH/PAU/04	18.06.79
709 Sandhya Achuthan D/o P.P.Achuthan	KeralaSVC/ 2905/04	1/52-A,Sapanya,Udaya Nagar,3rd Cross Ayyanthole,Thrissur-680003	BVSc&AH/KAU/ 04	13.5.80
710 Sandhya L.R.D/o Ramachandran Nair	KeralaSVC/ 2915/04	Indu Bhavan,Vadakkumkara East, Umayanallor PO, Kollam- 691589	BVSc&AH/KAU/ 04	30.5.80
711 Sane K.G. S/o K.Govindan Achary	KeralaSVC/ 2950/04	Nevin Nivas, Chandakunnu PO, Nilambur,Malappuram-679342	BVSc&AH/KAU/ 04	21.6.79
712 Sanjay Kumar Taware S/o Sh Bhagwan	RajSVC/311 8/04	Veterinary Hospital,jBhadariya ,Rajasthan	B.V.Sc&AH/MA U/98	10.1.74
713 Sanjay Patidar S/o Shri Girdhari Patidar	MPSVC/226 4/04	Villi-Oon,Dist- Khargone (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	15.2.81
714 Sanjay Sharma S/o Sh Ramesh Pradad	RajSVC/312 9/04	2/66,Malviya Nagar, Jaipur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/93	11.7.68

<b>SNM</b>	<b>NAME</b>	<b>RNUM</b>	<b>ADD</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DOB</b>
715	Sanjeev Maurya S/o Sh. C.R.Maurya	Pb SVC-2559/04	277 Kamla Nehru Nagar,Bathinda,Punjab	BVSc & AH/PAU/04	11.08.78
716	Sanjeev Sharma S/o Shri Ratiram Sharam	MPSVC/218 2/04	64-B,Gandhi Colony,Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/02-03	11.12.76
717	Sanjit Kumar Rathi S/o Sh Om Prakash	HarSVC/180 2	VPO Kharhar T. Bahadurgarh Jhajjar,Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/96	17.4.72*
718	Sanjoy Kumar Howlader S/o Sri Pradip Howlader	WBSVC/313 8/04	Vill-Sukantapally,PO & P.S.- Nogra,Dt-Hooghly,W.B	BVSc&AH/WBU AFS/04	24.7.81
719	Sanju Kynjing S/o Mr.R.R.Karlittle Heaven Cott	MeghSVC/2 25/05	C/o B.Kynjing New Kench's Trace, Bishnupur Shillong-13	BVSc&AH/AAU/ 05	16.9.81
720	Santhosh Kumar.S S/o Sankaran Nair.N	KeralaSVC/ 2986/04	Rohini Kalppallykonam,Aruvikkara PO, Thirvanathapuram-695564	BVSc&AH/KAU/ 04	10.1.79
721	SanthoshBabu. R.R. S/o Ramaiah	KARNA/366 2/	K.H.Nagar,2nd Cross,ST.Anne's Convent Road,Maddur-571428	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	5.1.82
722	Sarma Nabajyoti S/o Late Pabin Ch Sarma	AssamSVC/ 2194/05	Rupnagar, Pathsala Dt-Barpeta Assam-781325	BVSc&AH/AAU/ 98	22.11.73
723	Saroja Rana, S/o Mr.Tulsi Kumar Rana	WBSVC/314 6/05	Barbatay Gunba Gaon,PO-Kalimpong,Dt- Darjeeling	BVSc&AH/WBU AFS/04	28.12.80
724	Satheesha.G.M. S/o Mahalingappa. G.K	KARNA/368 1/	Raganatha Nilaya,Basava Layout ,(GM Layout),Holalkere Taluk,Chitradurga Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	2.5.81
725	Sathyender Rao. V S/o Madan Gopal Rao	APSVC/415 7/04	C/o V.Raghavender Rao, H.No.17-475, Nagar Kurnool, Mahaboobnagar Dt., Andhra Pradesh	BVSC&AH/ANG RAU/04	5.6.78

SNM NAME	RNM	ADD	QUALF	DOB
726 Satish kumar, S/o Shivraj kamble	KARNA/358 9/	Bardapur, Yenkur Post, Bhalki Taluk, Bidar District	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	22.7.81
727 Satish Sharma S/o R.K. Sharma	RajSVC/317 1/04	III / 89 Nyay Path, Gandhi Nagar, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	5.4.79
728 Satish.M S/o M.S.Saibabu	APSVC/418 3/05	B-5/F2, Udyog Nagar Colony, Panjagutta, Hyderabad - 500 082 A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/01	14.11.78
729 Satyabrata Halder S/o Late Sh Satyendranath Halder	WBSVC/311 0/04	Chintamonipara,PO- Diamond Harbour,Dt-24 Prgs (S)	BVSc&AH/WBU AFS/04	16.12.80
730 Sauman Kanti Pal S/o Sri Arun Chandra Pal	TriSVC/159/ 05	C/o Sri Arun Ch Pal, PO&Vill-Matai,Ps-Belonia, Tripura South	BVSc&AH/CAU/ 05	23.6.80
731 Seema .C.G. D/o Gangadhara	KARNA/368 2/	219/A, Sharada Colony,Basaveshwara Nagar,Banglore-79	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	27.6.81
732 Seema Agrawal S/o Shri Ramesh Kumar Agrawal	MPSVC/226 0/04	6, Gandhi Chowk,Badi Semaria Rewa (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	17.5.80
733 Seema S/o Sh Chander Bhan	HarSVC/183 0	H.No.170 Lajpat nagar, Hisar	BVSc&AH/CCS HAU/04	5.4.80
734 Seema Shama S/o Sh Ram Swaroop	HVC/702/04	H.No.113,Ward No.5,Sukhdev Niwas,Brji Nagar,Hamirpur	BVSc&AH/CSK HPKV/04	4.10.81
735 Seena T.X, D/o Xavier T.J.	KeralaSVC/ 2952/04	Thazhappally Nikarthil, Ezhuyupunna PO, Cherthala,Apappuzha-688548	BVSc&AH/KAU/ 04	23.11.79
736 Sennakesavan. V S/o Venkataswamy	APSVC/428 9/05	Sangam Dairy Veterinary Office, NGO Home Centre, Sattenapalli, Guntur Dt. - 522 403. A.P.	BVSC & AH/TNVASU/01	5.6.77

SNM	NAME	MM	AD	QUALIF	DOB
737	Shabeena Hassan D/o K.Hassan	A&NSVC/93/04	C/o Shameena Hassan,Optical Wing (Behind Ligh House Cinema)Aberdeen Bazaar,Port Blair	BVSc/TNV&AS U/04	14.4.78
738	Shadma Fatima D/o Shri M.I.Khan	MPSVC/225 0/04	Mominpura,Near Moti Masjid,Tulsi Nagar Ward,Bhagwanganj,Sagar(MP)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	14.5.80
739	Shahid Shaik Haneef S/o Shaik Lateef	PondiSVC/2 55/04	44,Nainiappa Pillai Street, Pondicherry -605001	BVSc&AH/APA U/96	1.4.68
740	Shailaja M D/o Nagendra Prasad	APSVC/421 6/05	H.No.37-114(Plot No. 158) Sree Colony, Neredmet X Road, R.K.Puram(P), Secundrabad-50056 AP	BVSC&AH/ANG RAU/06	26.8.80
741	Shailendra Chaurasia S/o Shri Laxmi Prasad Chaurasia	MPSVC/225 2/04	Jhansi Road, Chatarpur (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.07.77
742	Shailendra Kumar Son S/o Shri Vinod Kumar Son	MPSVC/226 8/04	Company Baag Road,Gwalior (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	21.01.79
743	Shailendra Singh S/o Shri Mahendra Singh	MPSVC/222 0/04	Badobaag, Neem Chouraha, Upvan Nagar, Rewa (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.9.78
744	Shailesh Tiwari S/o Sh Madan Mohan	RajSVC/310 5/04	Veterinary Hospital,Tathod Kota, Rajasthan	B.V.Sc&AH/JLN AU/96	16.9.70
745	Shamma T.P. W/o Sajeew H	KeralaSVC/ 2968/04	Charuvila House, Kottukkal PO, Anchal (via), Kollam-2275723	BVSc&AH/KAU/ 04	1.1.79
746	Shankar B.P., S/o J. Puttaswamy	KARNA/362 5/	Byadarahalli,Maddur Taluk,Mandy Distt.	BVSc.&AH/ UAS Bangalore/04	24.5.82
747	Shankar.S.K., S/o Kariyappa A.D.	KARNA/361 1/	#8,4th Cross, A Block, Devraj Urs Layout, Davanagere-06.	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	24.5.81

SNO	NAME	RNOH	ADD	QUALIF	DOB
748	Shankarmurthy .N.C. S/o Channabasappa	KARNA/367 5/	Neralakere,Tarkere Taluk,Chikkamagalore Distt- 577228	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	12.7.81
749	Shantanu Ranu S/o Sri Hiralal Ranu	WBSVC/314 4/05	C/o Prabir Kumar Mazumder,Dangalpara, Suri, Birbhum,Pin-731101	BVSc&AH/WBU AFS/04	1.11.79
750	Sharanabasav S/o Irasangappa. B. Marol	KARNA/360 6/	S.I. Marol, S/o I.B. Marol, Tangadagi Post, Muddebihal Taluk, Bijapur District	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	17.7.81
751	Shashi Kiran Hajare S/o Prem Prakash Hajare	APSVC/427 7/05	C/o M.R. Chary, H.No. 12-193, Sri Nagar Colony, Patancheru, Medak Dt., A.P.	BVSC & AH/UAS/Dharwa d/01	23.6.75
752	Shekhar Paul S/o Shri Sushil Paul	WBSVC/310 6/04	Vill- Mahinagar,PO- Baltala Park,DtD/Dinajpur,Pin-733203	BVSc&AH/WBU AFS/04	9.8.80
753	Shekhar Tekkannavar, S/o Hanamantappa	KARNA/360 2/	Nagaral post, Bilagi Taluk, Bagalkot District-597116	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	15.11.80
754	Shibaprasad Patra S/o Sh Mihir Kumar Patra	WBSVC/308 2/04	Vill-Joynagar,PO-Gopalpur Dt- Purulia pln-723151	BVSc&AH/WBU AFS/04	15.3.82
755	Shine C.Babu S/o Narayanan Baby	KeralaSVC/ 2967/04	Cuckoo, Near G.H.S.Atingal PD, Trivandrum-695101	BVSc&AH/KAU/ 04	20.5.81
756	Shiny Joy D/o K.K.Joy	KeralaSVC/ 2991/04	D-11,Type-III,Krishi Kunj,Bajaj Ng,Nagpur,Maharashtra	BVSc&AH/MA& FSU/04	23.6.81
757	Shirisha Yanala D/o Sudarshan Reddy	APSVC/426 8/05	H.No.6-3-152, Shivaji Nagar Road, Ramgiri, Nalgonda - 508 001. A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	17.8.79
758	Shiv Dutt S/o Sh Raghunath Prasad Yada	RajSVC/314 1/04	Near Girls School,Swar,Bharatpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	23.6.79

S.NO.	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIF.	DOB
759	Shivagan Anil Tukaram. S/o Tukaram Ravji Patil	KARNA/369 3/	C/o Prakash Patil,1640,New Vidya Nagar,Khanapur,Belagaum	B.V.Sc. & A.H./K KVP/97	17.12.74
760	Shivakumar, S/o Mallappa Gunare	KARNA/359 8/	At post Afzalpur Taluk, Gulbarga District.	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	5.6.78
761	Shivakumar.R. S/o Rekhy Naik	KARNA/364 1/	Kabbala Channagiri Taluk Davanagere Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	2.1.80
762	Shivaraj Aralikatti S/o Shankarppa	KARNA/368 9/	S.B. Aralikatti ,Shivajinagar,3rd Cross, Haveri	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	16.11.81
763	Shivjot Kaur D/o Sh. Harbans Singh	Pb SVC- 2539/04	#1.301-D,Bank Colony,Mullanpur Dakha,Ludhiana	BVSc & AH/PAU/04	08.01.81
764	Shivkumar.V S/o V/Veerabhadraiah	KARNA/369 2/	C/o D.R.Omkaramma (Teacher),Ranganath Extn.Near Mini Vidhana Soudha,Jagalur- 577528	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	24.9.81
765	Shivram Singh Sawariya S/b Sh Dayal	RajSVC/313 9/04	VPO-Kotri,The-Hindaun,Karauli, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	20.1.79
766	Shtavan Kuman S/o Vijaykumar	APSVC/421 0/05	H.No. 9-69, Musthabad, Karimnagar Dt-505 404	BVSC&AH/ANG RAU/05	30.11.80
767	Shubhamitra Chaudhuri S/o Sri Suniti Kumar Chaudhuri	WBSVC/312 8/04	L-F-1,East Barisha Govt. Housing Estate,Kolkata-700 063	BVSc&AH/WBU AFS/04	1.01.82
768	Shukdeb Pal S/o Late Dhirendranath Pal	WBSVC/310 0/04	Villi-Unai PO- Kalupur Dt-24 Prgs (N),Pin-743235	BVSc&AH/WBU AFS/04	12.6.81
769	Shweta Agnihotri D/o Shri Manoharlal Agnihotri	MPSVC/219 0/04	H.No.191 Vrindavan Ward, Ahmad Nagar,Gopal Ganj Sagar(M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.09.78

SNM NAME	RNUM	ADD	QUALF	DOS
770 Shyma S.M W/o Dr.Shibu K.V.	KeralaSVC/ 2979/04	Karingattil House, Kallettumkara, Thrissur-680683	BVSc&AH/KAU/ 04	1.6.78
771 Siji T.S. D/o T.N.Sasidharan	KeralaSVC/ 2951/04	Thaikkattusser House, Indu Thalore PO, Ollur,Thrissur- 680306	BVSc&AH/KAU/ 04	20.2.80
772 Sijo Joseph.K, S/o K.L.Joseph	KeralaSVC/ 2916/04	Kodiyen House,Christ College Rd, Irinjalakude PO, Thrissur- 680125	BVSc&AH/KAU/ 04	3.10.79
773 Simranpreet Kaur D/o Sh. Darshan Singh	Pb SVC- 2520/04	H.No.5; Block -H,Bhai Randhir Singh Nagar,Ludhiana	BVSc & AH/PAU/04	18.03.81
774 Sinu Paul, S/o Sh P.V.Palli	KeralaSVC/ 2892/04	Pukkunnel House,Thrikkalangode PO,Manjeri, Malappuram,Pin- 676127	BVSc&AH/KAU/ 04	15.10.79
775 Siresha Themburu D/o Vallayya	APSVC/426 4/05	B.S. Colony, Kothapet, Sompet (P.O.), Srikakulam Dt - 532284 A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	15.8.77
776 Sisir Kumar PaulS/o Sri Shyama Pada Paul	WBSVC/308 4/04	Villi-Datardih,PO- Chhotosagen,Dt-Purulia, Pin- 723131	BVSc&AH/WBU AFS/04	17.6.81
777 Siva Moorthy.S s/o Sengottaiyan	APSVC/428 5/05	H.No.2-145, Tirupati Road, Piler - 517 214, Chittoor Dt., A.P.	BVSC & AH/TNVASU/98	10.7.74
778 Sivadas K.T.S/o K.A.Thankappan	KeralaSVC/ 2949/04	Kollamparambil House, Thuruthiparambu PO, Annallur Pin- 680731	BVSc&AH/KAU/ 04	10.10.78
779 Slender Kumar S/o Bhadar Ram	RajSVC/315 9/04	VPO Durmana The. Pilibanga,Hanumangarh,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	11.2.78
780 Smitha R. Pillai D/o Ramakrishna Pillai	KeralaSVC/ 2932/04	Balakrishna (H),Panachikavu PO, Peruninal, Changanachery	BVSc&AH/KAU/ 04	3.12.79

S/N	NAME	REGISTRATION NUMBER	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
781	Snehlata Bodande D/o Shri B.D.Bodande	MPSVC/220 0/04	135, Shriram Colony, Near misrod railway station,Hoshangabad Road, Bhopal (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	9.5.79
782	Sohan Singh Rathore S/o Sh Daulat	RajSVC/310 7/04	299 Himmat Nagar,Tonk Road, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/58	14.12.33
783	Soibam Sinyorita Devi D/o S. Devendra Singh	ManiSVC/38 8/05	Sagolband Tera Lukram Leirak,Imphal	BVSc&AH/CAU/ 05	18.2.81
784	Somesh Singh S/o Shri Arjun Singh	MPSVC/219 5/04	Bharat Bhavan, Near Agriculture College, Padra, Rewa (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	7.01.79
785	Somnath Roy S/o Sh Ramkrishna Roy	WBSVC/308 7/04	Vill-Dewanchak(Nischinda) PO-Ghoshpara (Bally) Dt- Howrah	BVSc&AH/WBU AFS/04	16.12.81
786	Sonia Raheja D/o K.L.Raheja	APSVC/417 5/04	C/o Dr.R.P.Sharma, Qr.No.1,Type X,PDP Campus,Rajendranagar, Hyderabad-30,Andhra Pradesh	BVSC&AH/CCS HAU/01	18.10.76
787	Sonika Ahlawat	HarSVC/180 5	H.No.118,Sector-15 A Hisar	BVSc&AH/CCS HAU/03	9.2.80
788	Soumendra Nath Chatterjee S/o Shri Satyendranath Chatterjee	WBSVC/312 3/04	Uttamasha Para,PO-Balurghat,Dt-D/Dinajpur,Pin-733101	BVSc&AH/WBU AFS/04	19.9.81
789	Spumendu Chakravarti S/o Shri Sudhendu Bikash Chakravarti	WBSVC/313 4/04	Flat No.B/8,Cluster-3,Purbahcal,Salt Lake,Kolkata-700 097	BVSc&AH/WBU AFS/04	27.05.80
790	Soumya Ramankutty D/o Dr.V.K.Ramankutty	KeralaSVC/ 2956/04	Amruthu,Pottore PO, Thirrur,Thrissur-680581	BVSc&AH/KAU/ 04	9.6.80
791	Sopvik Mondal S/o Sh Gaur Mondal	WBSVC/308 3/04	Vill- Mosinapur PO- Joyrambati Dt- Bankura Pin- 722161	BVSc&AH/WBU AFS/04	14.3.81

SR#	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
792	Sreedevi.S D/o Sreedharan C.N.	KeralaSVC/ 2942/04	Anurag Puthempalli P.O., Guruvayur, Thrissur-680103	BVSc&AH/KAU/ 04	13.11.79
793	Sreedhar Basetty S/o Subbaiah	APSVC/423 3/05	H.No.5-10-86, Main Street, Giddalur, Prakasam Dt-523 357	BVSC&AH/ANG RAU/05	11.6.81
794	Sreehari.S S/o K.Sathyananand Pillai	KeralaSVC/ 2888/04	Alpha Pettah, TC.30/1868-1.Thiruvanthapuram	BVSc&AH/KAU/ 04	6.8.80
795	Sreejaya S D/o N.Sreedharan Nair	KeralaSVC/ 2902/04	Alummoottil Padinjatathil Nedumpana PO, Kollam-691580	BVSc&AH/KAU/ 04	2.2.80
796	Sreenivasa Reddy Punuru S/o Thirupal Reddy	APSVC/422 9/05	Bestawari peta, Mendia Narayana Street, Prakasam Dt., AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	2.6.82
797	Sreenivasu Chinta S/o Venkata Ramaiah	APSVC/415 5/04	7-80, Chinta Street, Yanam-533 464, E.G.Dt., Andhra Pradesh	BVSC&AH/PON D.Univ04	11.8.79
798	Sri Vidya Gullapudi D/o Sambayya	APSVC/422 2/05	Bommulur, Bapulapadu(M) Krishna Dt- 521 105 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.7.81
799	Sridhar Attuluri S/o Subba Rao	APSVC/420 5/05	D.No. 5-8-29, Narasaropet, Guntur Dt. AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.6.78
800	Srinidhi. K.P., S/o Krishnamurthy.G.	KARNA/359 6/	S.I.H.S., Door No. 86, V.V.S.F.C., Hiriyur Taluk, Chitradurga District	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	26.5.78
801	Srinivas Manchikatla S/o Komuraiah	APSVC/415 1/04	H.No.12-109, Warangal Road, Huzurabad, Karimnagar Dt - 505 468. Andhra Pradesh	BVSC&AH/MAF SU/04	23.1.80
802	Srinivas.G. S/o Govinde Gowda	KARNA/364 8/	Thorekadanahalli post, Malavalli Taluk, Mandy Distt.	BVSc & AH/ UAS Bangalore/04	27.8.80

<b>S/N</b>	<b>NAME</b>	<b>REGN</b>	<b>AGE</b>	<b>QUALIF</b>	<b>DIS</b>
803	Stella Esther D/o D.Raj Kumar	A&NSVC/92/ 04	C/o Mr.D.Raj Kumar Radio Tech.,Police Radio,R/o 44 JN Road, Haddo, Port Blair	BVSc/TNV&AS U/04	20.5.80
804	Stephen Kumar Pallam S/o Eswara Prasad	APSVC/419 6/05	Gruha Lakhmi Towers, Flat No.203, H.No.14-33 to 35, P& T Colony, Dilsukhnagar, Hyderabad, A.P.	BVSC&AH/ANG RAU/04	23.8.80
805	Subhakirti Saha S/o Shri Shish Ch Saha	WBSVC/311 5/04	North Chakhabani,PO-Balurghat,Dt-D/Dinajpur,Pin-733101	BVSc&AH/WBU AFS/04	29.4.80
806	Subhankar Saha S/o Mr. Bablu Saha	WBSVC/307 8/04	Vill-Chandanpur PO- Jangipara Dist- Hooghly	BVSc&AH/WBU AFS/04	2.1.80
807	Subhas Naik, S/o Hemu Naik	KARNA/358 3/	At post Ankalagi, Bijapur Taluk & District	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	14.7.79
808	Subhash Chander S/o Sh. Narain Chand	Pb SVC- 2537/04	Vill Ganjuana Tehsil & P.o Fazilka ,Dist.Ferozepur-152123	BVSc & AH/PAU/04	31.05.81
809	Subhendu Roy S/o Sri Subhas chandra Royu	WBSVC/314 5/05	Vill-Uttar Chakhabani,PO-Balurghat, Dt-D/Dinajpur,Pin-733101	BVSc&AH/WBU AFS/04	25.5.80
810	Subimal Paul S/o Shri Sunil Ch Paul	WBSVC/309 6/04	Pachagar Ward No.9, PO-Mathabhaga, Dt-Coochbehar-736146	BVSc&AH/WBU AFS/04	14.7.81
811	Subit Barua S/o Sh Manash Kumar Barua	WBSVC/308 6/04	203/1,Jaigirhat Road, Panerara, P.S. Thakurpukur,Kol-700 063	BVSc&AH/WBU AFS/04	4.7.80
812	Suchitra.B.R. D/o Raju.B.P	KARNA/366 7/	Kote Basaveshwara Temple Road,Basappa Building ,Old town Bhadravathi Taluk,Shimoga Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	15.5.81
813	Sudha Jyothi. Ch D/o Venkat Reddy	APSVC/427 8/05	H.No.AE/28, Pyolon Colony, Nagarjuna Sagar, Nalgonda Dt 508 203. A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	16.2.80

S/N	NAME	INUM	ADD	QUALIF	DOB
814	Sudhakar Balasaheb Deshmukh S/o B.Deshmukh	APSVC/416 3/04	C/o V.Satyanarayan Reddy, H.No. 17-166/5, Srinagar Colony, Near Sai Grammar School, Siddipet, Medak Dt.,	BVSC&AH/MAU /97	22.2.72
815	Sudhir Kumar S/o Sh Tara Chand	HarSVC/183 3	V.Majra PO- Khurd Dt- Rewari	BVSc&AH/CCS HAU/04	9.7.80
816	Sudipta Santra S/o Sri Manik Lal Santra	WBSVC/307 3/03	Vill-Daharpur,PO&PS- Tamluk,Dt-P/Medinipur	BVSc&AH/WBU AFS/04	10.9.81
817	Sugumar.D S/o R.Dharma Raju	APSVC/417 9/05	C/o D.Narayana Reddy, Room No.1-1189-88, NGO Colony, Kadiri, Anantapur Dt-515 591. A.P.	BVSC/TNVASU/ 2001	28.6.78
818	Sujeet Kumar Shukla S/o Shri R.P.Shukla	MPSVC/222 7/04	Near Rest House, Shastri Ward, Hata,Damoh M.P	BVSc&AH/JNKV V/03-04	1.1.79
819	Sujoy P.V. S/o P.V.Sadanandan	KeralaSVC/ 2925/04	Echilam Vayal, Vellur PO, Kannur-670346	BVSc&AH/KAU/ 04	1.1.80
820	Sumabala Challagali D/o Deva Dasu	APSVC/426 5/05	C/o R. Vimlamma, Retd. P.E.O., H.No.26-28-277, 2nd Lane, A.T. Agraharam, Guntur. A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	1.7.79
821	Sumanta Chakraborty S/o Shri Subodh Ch Chakraborty	WBSVC/312 6/04	No.E/372 (4th Floor)Baishnabghata,Patuli,Kolk ata-700094	BVSc&AH/WBU AFS/04	9.12.80
822	Sumeena Thaha D/o Thaha Koya.A	KeralaSVC/ 2980/04	A.R.Building,Thirumullavaram PO, Mulamkadakam,Kollam-12	BVSc&AH/KAU/ 04	11.1.78
823	Sumeet Sharma S/o Sh. Ashwani Sharma	Pb SVC- 2508/04	3,Shakti Nagar ,Fazlka 152 123	BVSc & AH/PAU/03	28.04.80
824	Sumena K.B. D/o K.S. Balakumaran	KeralaSVC/ 2946/04	Kondarappassery House, PO- Kundfaliyr Thrissur -680616	BVSc&AH/KAU/ 04	30.5.80

SR. NO.	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DATE OF BIRTH
825	Sumesh T. S/o P.T.Maharaj	KeralaSVC/ 2985/04	Rajbhavan,Cherthala PO, CMC XI, Chethalaim Alappuzha - 688524	BVSc&AH/KAU/ 04	14.2.77
826	Sumi Chandran.P, D/o P.Chandran	KeralaSVC/ 2960/04	Panavalappil House, Mullakkara, Mannuthy PO, Thrissur-680651	BVSc&AH/KAU/ 04	27.10.80
827	Sumil B.S.S/o Bright Singh J.T.	KeralaSVC/ 2918/04	Theckutheri House,Kajiramkulam PO,Thirvananthapuram-695524	BVSc&AH/KAU/ 04	26.12.79
828	Sumit Haritwal S/o Ratan Lal Sharma	RajSVC/319 8/05	Haritwal Sadan, Behind Krish Upaj Mandi, Sikar, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	28.11.79
829	Sumita Biswas S/o Shri Bikash Kumar Biswas	WBSVC/310 5/04	Vill&PO-Bali,P.S.Nowda,Dt- Murshidabad	BVSc&AH/WBU AFS/04	18.1.81
830	Sundari Ranjith Kumar S/o Nagaiah	APSVC/424 6/05	Gaddipally, Garidepally(M), Nalgonda Dt., AP.	BVSC&AH/ANG RAU/05	26.8.81
831	Sunil Kumar Jain S/o Sh Babu Lal Jain	RajSVC/314 9/04	VPO-Shiwar Sawaimadhopur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	16.7.78
832	Sunil Kumar S/o Sh Jagdish Chander	Pb SVC- 2502/04	6982,Jassian Road ,Haibowal Kalan ,Ludhiana	BVSc & AH/PAU/01	18.12.78
833	Sunil Kumar, S/o Late Ajun kamble	KARNA/362 3/	H.N.16-1-245, Gandhi Gunj post, Kumbarawada, Bidar- 585401	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	03.03.77
834	Sunil Mehra S/o Man Singh Mehra	RajSVC/318 9/05	Rampura Basti Lalgarh, Bikaner, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	2.6.77
835	Sunish M.P.,S/o V.Mohan Nair	KeralaSVC/ 2894/04	Sunish Mandiram, Kuttichal PO, Thiruvananthapuram	BVSc&AH/KAU/ 04	4.5.81

SIMILAR NAME	REGISTRATION NO.	ADDRESS	QUALIFICATION	DOB
836 Sunita Awate,D/o B.N. Awate	KARNA/369/0/	D/o B.N. Awate,B.Bagewadi Road,Vivek Nagar(East),Bijapur	BVSc &AH/UAS Bangalore/04	25.5.81
837 Sunitha. K. D/o Mantraiah	APSVC/426 6/05	H.No. 14-52, Flat No. 201, P&T Colony, Dilsukhnagar, Hyderabad-60 A.P.	BVSC & AH/ANGRAU/05	15.7.78
838 Superna Khurana S/o Sh. S.R.Khurana	HarSVC/185 1	W.No.5,H.No.DE-164 Masjid Sarai Moh Samaikha Dist- Panipat	BVSc&AH/CCS HAU/93	9.10.71
839 Suresh Hanchinal S/o Goudappa	KARNA/360 4/	At post Hunashikatti, Jamkhandi Taluk, Bagalkot District	BVSc& AH/UAS, Dharwad/04	6.7.81
840 Suresh, S/o Shivalingappa Hachchad	KARNA/358 8/	Plot No. 127/8, Biddapur Colony, Afzalpur Road, Near Veera Tapasvi English Medium School, Gulbarga.	BVSc& AH/UAS, Dharwad/04	28.6.77
841 Suresh. Kaddu S/o Kumbar Kaddu	KARNA/369 8/	At post Kudachi, Raibag Taluk, Belagaum District	BVSc &AH/UAS Dharwad/04	10.10.74
842 Suresh.B.Itnal S/o baiachandra	KARNA/359 9/	At post Hunashikatti, Bailhongal Taluk, Belgaum District	BVSc& AH/UAS, Dharwad/04	1.6.81
843 Surya Prasad. G. S/o Late G.V Naidu	KARNA/363 5/	H.No.10,3rd Cross,Doddanekkundi Main Road,Banglore-37	B.V.Sc./APAU/7 1	1.7.48
844 Surya Sankar Jana S/o Sh. Manoranjan Jana	WBSVC/308 9/04	Vill&PO-Saripur,P.S.Digha,Dt-Purba Medinipur	BVSc&AH/WBU AFS/04	21.4.82
845 Sushil Kumar S/o Shri Krishan	HarSVC/184 6	H.No.589/29 Tilak Nagar, Rohtak	BVSc&AH/CCS HAU/04	22.4.80
846 Sutha. A W/o K.P. Chandrasekhar	APSVC/429 1/05	B2-68, B.K. Enclave, Miyapur, Hyderabad, A.P.	BVSC & AH/TNVASU/95	15.6.71

STUDY NAME	REGN	ADM	QUALIF	DOB
847 Suzie Kyndih D/o Mr. Gordon D. PDE	MeghSVC/2 30/05	C/o C.S. Kyndiah Lulong Jowai, Jaintia Hills District, Meghalaya- 793150	BVSc&AH/AAU/ 05	11.12.80
848 Swapna Mohan D/o Dr.S.Mohan	KeralaSVC/ 2896/04	Menonparambil House,II/110 Park View Road, Behind Town Hall, North Parur Ernakulam	BVSc&AH/KAU/ 04	2.4.80
849 Syamantak Mani Tripathi S/o Shri Yogeshwar Mani Tripathi	MPSVC/223 1/04	Dr.Kaushalendra Mani Tripathi,Indira Nagar Colony,Bara,Rewa (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	21.7.76
850 Syed Afsar Pasha.A.H. S/o Syed Akbar	KARNA/367 6/	Hindigral,Hoskote Taluk,Banglore Rural Distt	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	16.6.80
851 T.Kiran S/o Ramana Reddy	APSVC/415 2/04	Endapally, Velagatoor(M), Karimnagar Dt- 505 526, Andhra Pradesh	BVSC&AH/MAF SU/04	11.4.81
852 T.Mohan Rao S/o Rangaiah	APSVC/416 1/04	H.No.6-11-22, Nehru Nagar, Narasaraopet(P), Guntur Dt., Andhra Pradesh	BVSC&AH/APA U/92	30.6.68
853 T.Sivasubramani S/o G. Thulasingam	PondiSVC/2 22/04	84,Ezaimariamman Koil Street, Muthialpet,Pondicherry-3	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	12.4.80
854 T.Smitha Nair D/o G.Kamalakrishnan Nair	KeralaSVC/ 2970/04	Parvathi Mandiram Nedumpurathum Vila, Punnamoodu Juction, Varkala PO, Trivandrum-695141	BVSc&AH/KAU/ 04	7.7.81
855 T.Vinod Kumar S/o Thandavarayan	PondiSVC/2 34/04	162,Main Road, Pakkamudayanpet, Pondicherry- 8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/03	20.9.81
856 Takhellambam Gyaneswari Devi D/o Gourabidhu Takhellambam	ManiSVC/38 2/04	Sega Road, Takhellambam Leikai,Imphal	BVSc&AH/CAU/ 03	2.1.80
857 Talukdar Utal S/o Munahari Talukdar	AssamSVC/ 2201/05	Vill & PO- Duluchi Dt- Kamrup, P.S.-Rangia, Pin-781325	BVSc&AH/AAU/ 05	1.5.80

STUDY NAME	REGN	ADD	QUALIF	DOS
858 Tanmoy Sahoo S/o Shri Tarun Sahoo	WBSVC/309 1/04	Chirimarsai, Bholamoyer Chawk, PO-Medinipur Dt-P/Medinipur,Pin-721101	BVSc&AH/WBU AFS/04	29.5.81
859 Taranjit D/o Sh. Roop Singh Bath	Pb SVC- 2550/04	Hira Singh Nagar,Kotapura,Distt Faridkot.	BVSc & AH/PAU/04	20.08.81
860 Tarun Balani S/o Shri B.D.Balani	MPSVC/224 7/04	C/o Sh.B.D.Balani,669 Choti Omti,Jabalpur (M.P)	BVSc&AH/IGKV V/03-04	15.4.79
861 Teilang Dekhar S/o Mr. Kwiem Kshiar Pahamrioh	MeghSVC/2 35/05	Pahamrioh,PO-Nongpoh Ribhol Dist-Meghalaya-793102	BVSc&AH/AAU/ 05	6.8.77
862 Thakuria Dimpal S/o Rajani Thakuria	AssamSVC/ 2184/05	Vill-Bengshar Dt- Kamrup, Assam, Pin-781103	BVSc&AH/AAU/ 05	5.3.79
863 Thick Titus Lalrolien, S?o Late Thihlun Thick	AssamSVC/ 2189/05	Vill-Retzawl PO- Haflong,Dt- N.C.Hills, Assam	BVSc&AH/AAU/ 05	25.11.76
864 Thippeswamy.H.S. S/o Sanasiddappa H.M	KARNA/362 9/	Hirenallur post, Kadur Taluk,Chikkamagalore District- 577562	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	1.6.81
865 Tracy M.Sangma D/o(L) Shri Cornesh D Marak	MeghSVC/2 32/05	C/o Mrs.F.M.Sangma,Forest Tilla,Tura West Garo Hills Meghalaya	BVSc&AH/AAU/ 05	28.9.80
866 Trevor Francis S/o Dr.Gilber Fernandez	PondiSVC/2 08/04	30,Angalamman Nagar, Muthialpet, Pondicherry-7	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	24.10.79
867 Udaya Bhaskar D/o Bhaskaran Nair P.T.	KeralaSVC/ 2964/04	V.P.2/889,BGRA- 131,Nandanam,Peroorkada PO, Indira Nagar, Trivandrum- 695005	BVSc&AH/KAU/ 04	15.5.80
868 Udaysingh Maheshwari S/o Shri Amarsingh Maheshwari	MPSVC/224 9/04	Chichawalikapura PO,Chaina, Teh-Jora, Dt-Morena (M.P)	BVSc&AH/IGKV V/03-04	1.02.76

STUDY NAME	REGN	AM	QUALF	REG
869 Udyawer Priyadarshini D/o Mohan	APSVC/428 7/05	C/o 303, EBONY, Amrutha Valley, Road No. 12, Banjara Hills, Hyderabad - 500 032 A.P.	BVSc & AH/MA&FSU/03	15.1.81
870 Umed Singh Mehra S/o Sh Dhanpat Rai	HarSVC/182 2	VPO-Kalanaur Near Nigana Mor Roh.	BVSc&AH/CCS HAU/04	1.4.75
871 Umesh Kumar Kori S/o Shri Moolchand Kori	MPSVC/223 9/04	Abdulla Ward, Hindoria, Dist- Damoh (M.P) Pin-470771	BVSc&AH/JNKV V/03-04	25.10.80
872 Umesh Kumar Gautam S/o Shri Ramavtar Gautam	MPSVC/225 5/04	PO- Birsinghpur Baghan Tola, Dt- Satna (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	25.3.74
873 Umesh Tiripur, S/o Hanumareddi	KARNA/380 3/	At.Madaganur, Kittur post, Gadag District & Taluk - 582201	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	30.8.81
874 Uttam Luwang S/o Udal Luwang	ManiSVC/38 0/04	Sega Road, Takhellambam Leikai, Imphal	BVSc&AH/CAU/ 03	1.4.79
875 Uttam Yadav S/o Shri Yeshwant Yadav	MPSVC/222 4/04	404-B Samvad Nagar, Scheme No.98, Indore, M.P.	BVSc&AH/JNKV V/03-04	30.5.66
876 V. kalyani Tirumaisetti D/o Saibaba	APSVC/427 2/05	D.No.3-312, Line No.5, Gangaraju Nagar, Kakinada, E.G.Dt.,	BVSC & AH/ANGRAU/05	12.8.80
877 V.Anandabaskaran S/o B.Venkadassalam	PondiSVC/2 14/04	No.105,Muthu Mariamman Kolli Street, Pondicherry-1	BVSc&AH/Pondi chemistry Uni/02	9.5.78
878 V.B.Siddaraju, S/o Begregowda	KARNA/368 5/	A.V.Halli,Sulleri post,Channapatna Taluk, Banglore Rural Distt-571501	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	20.5.81
879 V.Bhavani D/o T.Vijayarangan	PondiSVC/2 11/04	NO.6,4th Cross Street,Anna Nagar,Pondicherry-5	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	6.11.78

SR#	NAME	REG#	ADD	QUALIF	DOB
880	V.Chinni Preetam S/o Yosef	APSVC/418 5/05	Plot No.73/A, Preetam Enclave, Attapur, Rajendranagar, Hyderabad-30 A.P.	BVSC&AH/APA U/93	5.3.65
881	V.Jamunarani D/o N. Veeraraghavan	PondiSVC/2 54/04	NO.9,Awai Nagar, 23rd Cross, Lawspet Pondicherry-8	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/04	20.5.82
882	V.Kalyan Chakravarthi S/o Dasaratharamaiah	APSVC/417 1/04	C/o P.Subbarayudi, Chandalur, Via:Inkollu, Prakasam Dt-523 167, Andhra Pradesh	BVSC&AH/ANG RAU/04	19.11.78
883	V.Subha D/o K.Vinayagam D/o K.Vinayagam	PondiSVC/2 25/04	41, Salai Street, Muthiaipet, Pondicherry-3	BVSc&AH/Pondi cherry Uni/02	7.7.78
884	Vageesh Pandith.S. S/o Siddanathaswamy.S.	KARNA/361 0/	At post Sollapura, Tarikere Taluk, Chikkamagalore District	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	2.3.82
885	Valibasha.H. S/o Hussain Peera	KARNA/360 5/	C/o Mabu Subani.H., 10th Ward, Door No. 10/79, Opp. Of Vittoba Temple, Sandur-583119, Bellary District	BVSc& AH/ UAS, Dharwad/04	4.6.79
886	Vandana Chaudhary S/o Sh Namdev Chaudhary	MPSVC/219 6/04	Surbhi Colony, Chandangaon,Chandigarh	BVSc&AH/JNKV V/03-04	18.7.78
887	Vandna Yadav S/o Sh V.K.Yadav	HarSVC/183 8	VPO-Bawal, Distt-Rewari	BVSc&AH/CCS HAU/04	21.2.82
888	Vanita Sharma D/o Sh Rajendra Sharam	HarSVC/181 8	H.No.965,Sector-13,Hisar	BVSc&AH/CCS HAU/04	20.4.79
889	Varshraj Patel S/o Shri Laxman Prasad Patel	MPSVC/220 5/04	LIG.1/15/208 Indra Nagar, Bara, Rewa (M.P.)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	20.2.77
890	Varun S/o Sh. Sansar Chand	Pb SVC- 2512/04	5-Patel Nagar , Gali No .1 ,Pathankot	BVSc & AH/PAU/03	30.05.81

46/66-2

SR. NO.	NAME	REG. NO.	ADD.	QUALIF.	DOB
891	Vasa Srinivasa S/o Raghu Ramaiah	APSVC/424 0/05	D.No.2-20, Masapet Bazar, Rayachoty, Kadapa Dt-516 270, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	1.6.80
892	Veena.K. D/o Krishnappa.V	KARNA/368 4/	Kadiregowdana Kote,Kammasandra post,via Oorgampet ,K.G.F-563121	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	2.5.81
893	Venkata Ramana Murthy Rayi S/o Ramayya	APSVC/419 2/05	Baligam, Haripuram(M) Srikakulam Dt- 532 243 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	15.5.82
894	Vijakumar, S/o Basagond	KARNA/359 7/	C/o B.m. Ajur, Basaveshwar Nivas, Near Hanuman Temple, Nehru Nagar, Gyanbandy, Bijapur	BVSc & AH/ UAS, Dharwad/04	8.10.81
895	Vijay-Kumar Mandovera S/o Sh Babu	RajSVC/312 7/04	Near R.R. Hospital,Alwar Road, Barrod, Alwar Rajasthan	B.V.Sc/TNV&AS U/04	25.8.79
896	Vijay Kumar S/o Sh Khayali Ram	HVC/692/04	VIII-Laka,The-Sarkagaht,Distt- Mandi-175024	BVSc&AH/CSK HPKV/04	23.4.75
897	Vijay Podia S/o Sh Raj Podia	HarSVC/183 5	419/12, Meham Road,Gohana Sonipat	BVSc&AH/CCS HAU/04	20.11.80
898	Vijendra Shrimal S/o Kailash Chand	RajSVC/316 4/04	23 Shiva Colony, tonk Phatak, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	9.11.79
899	Vijendra Singh Verma S/o Sh Santram	RajSVC/312 3/04	Ward No.34 New Jatav Basti Hindaun City,Karauli, Rajasthan	B.V.Sc&AH/MA &FSU/04	15.8.80
900	Viju Kumar V.S S/o N. Soman Nair	KeralaSVC/ 2924/04	Vayaluvilakathu Veedu,Koonthaloor,Chirayinkil Po,Trivandrum-695346	BVSc&AH/KAU/ 04	31.7.79
901	Vikas S/o Sh Gaurishanker	RajSVC/312 0/04	10/41 New Housing Board Colony,Shivshingpura, Sikar,Rajasthan	B.V.Sc&AH/MA &FSU/04	22.3.82

SNUM	NAME	RNUM	ADD	QUALIF	DOB
902	Vikas Sharma S/o Sh R.P.Sharma	HarSVC/181 1	1438/21 Prem Nagar, Rohtak	BVSc&AH/CCS HAU/03	29.12.78
903	Vikram Singh S/o Sh V.K.Daukia	RajSVC/312 2/04	Plot No.1, Laxmi Nagar, Jalore, Rajasthan	B.V.Sc&AH/MA &FSU/04	17.12.78
904	Vineetha Divakar D/o A.Divakar	KeralaSVC/ 2976/04	Kavitha Padinjattakkara PO, Thevalakkara, Koliam- 690524, Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	20.5.79
905	Vinod Kumar Sharma S/o Shri Rameshyar Dayal Sharma	MPSVC/218 9/04	MIG-996-A Darpan Colony, Thatipur, Gwalior(M.P)	BVSc&AH/JNKV V/02-03	8.4.78
906	Vinod S. S/o K.Sivasankaran	KeralaSVC/ 2947/04	Kodukkattu Veedu, Mangad PO, Kollam-691015, Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	26.5.79
907	Vinod Shankarrao Dhole S/o Shankara Rao	APSVC/420 6/05	C/o Ravi Kumar, H.No.7-2-113, Mankam Thota, Karimnagar, AP	BVSC&AH/MAU /98	24.6.75
908	Vipan Kumar S/o Ved Paul	Pb SVC- 2514/04	H.No.49, St.no.23, Tripri Town, Patiala, Punjab	BVSc & AH/PAU/03	28.01.80
909	Vipin Kr. Gupta S/o Anil Kr. Gupta	RajSVC/316 2/04	Cloth Merchant Near PNB Main Bazar Mania Dholpur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	3.5.80
910	Virender Kumar S/o Sh Chander Bhan	HarSVC/181 5	VPO Guhna, Distt-Kaithal Haryana	BVSc&AH/CCS HAU/04	16.4.81
911	Virendra Kumar Sharma S/o Shri Vanmali Lai Sharma	MPSVC/225 1/04	Vill&PO- Sabalgarh, Dt-Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	13.12.78
912	Vishakha Ahirwar D/o Shri R.K.Ahirwar	MPSVC/222 5/04	H.NO.55, Bilagaiya Ward, Bina (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	15.8.81

SL. NO.	NAME	REG. NO.	ADDRESS	QUALIF.	DATE
913	Vishavpreet Singh Brar S/o Sh. Partap Singh Brar	Pb SVC- 2516/04	Model Town Sito Road Street no 8 Abohar 152 16 Distt.Ferozepur	BVSc & AH/PAU/03	26.08.80
914	Vishin R. Ambawani S/o Sh Rupchand	RajSVC/310 6/04	60/35 Rajat Path,Mansarovar,Jaipur,Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/58	17.9.33
915	Vishwajeet Singh S/o Sh Rattan Singh	RajSVC/313 3/04	B-71 Karni Nagar,Near Naagechi Temple,Bikaner,Rajasthan	B.V.Sc&AH/UAS ,B'Lore/04	13.2.81
916	Vishwakarma Jyothi Baburao, D/o Baburao.N.	KARNA/361 5/	#8-11-575/13, Mouneshwara Krupa, A.F Rd, Venkateshwara Colony, Bidar-585401,Karnataka	BVSc &A.H/ Nagpur Univ./04	1.6.80
917	Vishwas.K.K. S/o Kanthraju.K.T.	KARNA/365 9/	Ist Floor,Door No.11,17th Main,15th Cross,J.P.Ng,2nd Phase,B'lore-78,Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	10.11.81
918	Vivek A.K. S/o V. Kuttappan	KeralaSVC/ 2948/04	Ayamchirakkunnel, Lalakpala PO, Kottayam-686575,Kerala	BVSc&AH/KAU/ 04	6.5.81
919	Vivek Rathour S/o Sh Krishan Singh	HVC/691/04	H.No.55,Hiranagar,The&Distt- Hamirpur,HP	BVSc&AH/CSK HPKV/04	2.6.80
920	Workman Lyting S/o Phur Lyngshiang	MeghSVC/2 22/05	C/o Niangti Fair Price Shop,Mawlai Nongpdeng Block 'C' Shillong-793008	BVSc&AH/CAU/ 05	18.10.80
921	Y. Sanjeev Reddy, S/o Ganga Reddy	APSVC/424 8/05	C/o Srinivasa Prasanna Video, Ambedkar Chowk, Adilabad-504 001, AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	8.9.79
922	Yadunandan.T.V. S/o R. Vankatachalaiah	KARNA/364 9/	Thore Hosur,Myanakanahalli post,Channapatna Taluk,Banglore	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	20.7.81
923	Yappurwar Pandharinadh S/o Nagnath Rao	APSVC/414 7/04	H.No.3-1-197, Ayyapa Nagar, Sirsilla Road, Kama Reddy, Nizamabad Dt., Andhra Pradesh	BVSC&AH/MAF SU/03	28.6.80

STUDY NAME	REGN	ADD	QUALIF	DOB
924 Yarraguntla Srikanth S/o China Polaiah	APSVC/423 0/05	C/o Y.G.Stevenson, Lankajandapalli Road, Darsi, Prakasam, Dt-AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	5.8.80
925 Yarraguntla Swathilatha D/o Sydulu	APSVC/426 0/05	H.No. 6-3-107, Bank Colony, Khammam-507 002 AP	BVSC&AH/ANG RAU/05	19.8.78
926 Yash Pal Singh Jangir S/o Ransingh	RajSVC/318 2/04	Infront New Govt. Hospital Subhash Nagar, Sadulpur Churu, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	1.7.80
927 Yeddukt Shukla S/o Kuber Dutt Sharm	RajSVC/318 7/04	Ward No. 39, House No. 65 Surasia Hanumangarh, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	12.11.79
928 Yeshavanth Kumar.C, S/o Chikkathimma Gowda	KARNA/385 8/	Thyaagaraj Moghalla, Chamundeshwari Temple Street, Bannur, T.N.Pur Taluk, Mysore Dt, Karnataka	BVSc &AH/ UAS Bangalore/04	13.3.81
929 Yogendra Singh Rajawat S/o Sh Prabhu Singh Rawat	RajSVC/313 5/04	746 Devinagar, New Sanganer Road, Sodala, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/PAU /04	21.8.80
930 Yogesh Kumar S/o L.C. Somvanshi	RajSVC/318 8/05	B-6, Saraswati Colony, Tonk Phatak, Jaipur, Rajasthan	B.V.Sc&AH/RA U/05	11.9.78
931 Yogita Tiwari D/o Shri Murlidhar Tiwari	MPSVC/224 0/04	H.No.29, Sneh Nagar Colony, Behind Central Jail Sagar (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	30.6.80
932 Yograj Singh Tomar S/o Shri Shishupal Singh Tomar	MPSVC/224 3/04	38 Gandhi Colony, Morena (M.P)	BVSc&AH/JNKV V/03-04	24.9.77

Dr. ANUP BHAUMIK, Secy.  
[ADVT. III/IV/141/2005/Exty.]